

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2898]
No. 2898]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 26, 2013/ पौष 5, 1935
NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 26, 2013/PAUSHA 5, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3816(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 61 (अ), तारीख 7 जनवरी, 2013, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा कर्नाटक राज्य के चामाराजनगर और मांड्या, जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 209 के 266.530 कि.मी. से 397.726 कि.मी. (तमिलनाडु/कर्नाटक सीमा से देवीराहल्लि सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 13 फरवरी, 2013 को "टाइम्स ऑफ इण्डिया" और "विजय कर्नाटक" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उनमें से कुछ को आंशिक रूप अनुज्ञात और कुछ को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

અનુસૂચી

कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 209 के 321.560 कि.मी. से 397.726 कि.मी. (दुग्गहट्टि से देवीराहल्लि सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

क्रम सं.	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	भूस्वामियों / हितबद्ध व्यक्तियों के नाम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	चमाराज नगर	2. यलंदूर	1. दुग्गहटि	नाला-1	सरकारी	नाला	160	सरकारी जायदाद (नाला)	
				सड़क-1	सरकारी	सड़क	70	सरकारी जायदाद (सड़क)	
			2. अवालकंदाल्लि	44/1	निजी	नमी	160	घर	
				44/2	निजी	नमी	50	मादम्मा	
								रंगनायक	
								बसवनायक—मादनायक	
				44/3	निजी	नमी	65	उमा, पत्नी—दिवंगत बिलिगिरिनायक	
								बसवनायक रंगनायक	
								मादनायक, पुत्र—नंजुंडनायक	
				45/1	निजी	नमी	128	रंगशेड्डी गोद लिया पुत्र अंकशेड्डी	
				45/5	निजी	नमी	60	पुट्टसिद्दनायक—पुट्टनायक	
								देवम्मा, पत्नी—दिवंगत मादनायक	
			47	निजी	नमी	272	सिद्दशेड्डी—मादशेड्डी		
			नाला-2	सरकारी	नाला	435	सरकारी जायदाद (नाला)		
			3. दुयमकंदाल्लि	77/6	निजी	शुष्क	96	महादेवम्मा, पत्नी—दिवंगत मरिनायक	
				77/5	निजी	शुष्क	45	शंकरनायक—महादेवनायक	
				77/4	निजी	शुष्क	42	शंकरनायक—महादेवनायक	
				77/3	निजी	शुष्कधनमी	48	शंकरनायक—महादेवनायक	
				77/2	निजी	नमी	136	शंकरनायक—महादेवनायक	
				77/1	निजी	नमी	140	नंजाशेड्डी	
				नाला-3	सरकारी	खराब	295	खराब	
				78	निजी	नमी	120	सिद्दैय्या	
								नंजैय्या	
								पुट्टैय्या	
								मादैय्या, पुत्र—दिवंगत चनंजैय्या	
								एम. भास्कर, पुत्र—दिवंगत चक्रमल्लैय्या	
				79/2	निजी	नमी	100	नंजाशेड्डी—नंजाशेड्डी	
				79/1	निजी	नमी	30	रत्नाम्मा, पत्नी—नंजनायक	
				84/2	निजी	नमी	150	के. एम. जोगशेड्डी	
								के. एम. पुट्टमादशेड्डी	
				4. यलंदूर ग्रामीण	नाला-4	सरकारी	नाला	30	सरकारी जायदाद (नाला)
					166	निजी	नमी	138	एस. नागराजू —संजीवनायक
			168		निजी	नमी	204	तलवार मुद्दनायक	
								पद्मा, पत्नी—वाई. डी. बिलिगरिरंगनायक	
								रत्नाम्मा, पत्नी—वी. मूर्ति अम्बले	
			154		निजी	नमी	354	हनुमंतनायक	
								बसवानायक	
			117/2		निजी	नमी	66	बलसुन्दर मुदलियार	
					के. एम. रंगस्वामी				

								शरफे उर्फ नूर
				189/1	निजी	नमी	30	नरसम्मा, पत्नी-बी. पी. महादेव
				190	निजी	नमी	465	नागराजशेटी
								बसवराजशेटी
								चिक्कमादशेटी
				116	निजी	नमी	148	जयम्मा, पत्नी-महादेव
								पी. महादेव, पुत्र-पुट्टमादनायक
								पुट्टण्णा, पुत्र-पुट्टमदनायक
								महादेवस्वामी, पुत्र-पुट्टमादनायक
								हनुमंतनायक
				191/2B	निजी	नमी	342	चिक्करंगनायक
								बसम्मा
				191/1	निजी / सरकारी	नमी	261	वीरभद्रनायक
								चेन्ननायक
				202/3	निजी	नमी	192	मंगलम्मा, पत्नी-दिवंगत पी. राचप्पाजी
				202/2	निजी	नमी	264	नंजैय्या, पुत्र-दिवंगत मादैय्या
				202/1	निजी	नमी	896	महादेवस्वामी-बिलिगिरिरंगनायक
				203/7	निजी	नमी	576	चिक्करंगनायक दासैय्या रंगनायक-चिक्करंगनायक
								बी. बसवराजू, पुत्र-बिलिगिरिदास
				204/1	निजी	नमी	280	हनुमंतनायक
								बसम्मा, पत्नी-दिवंगत रंगनायक
								लक्ष्मम्मा - वेंकटरंगनायक
								शांताम्मा, पत्नी-बी. महादेवस्वामी
				204/2	निजी	नमी	30	मादनायक - हनुमंतनायक
								शांतम्मा
								बी. महादेवस्वामी
				206	निजी / सरकारी	नमी	2500	वाई. एन. लिंगैय्या-नंजैय्या
				262	निजी / सरकारी	नमी / बागीचा	2640	वाई. के. भास्कर, पुत्र-दिवंगत वाई. पी. कृष्णाजोयिस
				263	निजी	नमी / बागीचा	2500	वाई. के. भास्कर, पुत्र-दिवंगत वाई. पी. कृष्णाजोयिस
				264	निजी	नमी	2600	वाई. के. भास्कर, पुत्र-दिवंगत वाई. पी. कृष्णाजोयिस
				265	निजी	नमी	1570	एस. अनन्तरामु
								बसवानायक
				267	निजी	नमी	355	एस. अनन्तरामु
								बसवनायक
				258	निजी	नमी	1820	बसवैय्या, पुत्र-नंजैय्या
								के. मल्लैय्या, पुत्र-कृष्णैय्या
				273	निजी	बागीचा	230	सी. विश्वनाथ
				274	निजी	बागीचा	1590	सी. विश्वनाथ
				275	निजी	बागीचा	1685	सी. विश्वनाथ
				296	निजी	नमी	335	वाई. बी. दोरेस्वामी,

								पुत्र-दिवंगत बसवानायक
				279/1	निजी	नमी	115	आर. मादैय्या
				279/2	निजी	नमी	198	जे. नागराजू, पुत्र-आर. जवरैय्या
				295/1	निजी	नमी	95	पुट्टबसम्मा, पत्नी-दिवंगत बसवानायक
				295/2	निजी / सरकारी	नमी	120	लक्ष्मीदेवम्मा, पत्नी-वाई. पी. बसवण्णा
				282/1	निजी	नमी	225	आर. जवरैय्या आर. मादैय्या
				293	निजी	नमी	1785	चिक्कबसवनायक सौभाग्यम्मा पदमम्मा, पत्नी-विशकांटमूर्ति
				292	निजी	नमी	174	वाई. वी. वेंकटरंगनायक
				291/1	निजी	नमी	2070	गौरम्मा, पत्नी-हनुमंतनायक
				603	निजी	नमी	30	आर. जवरैय्या आर. मादैय्या
				605/3	निजी	नमी	816	गौरम्मा, पत्नी-हनुमंतनायक
				605/2	निजी	नमी	1104	गौरम्मा, पत्नी-हनुमंतनायक
				605/1	निजी	नमी	700	गौरम्मा, पत्नी-हनुमंतनायक
				625/2	निजी	नमी	265	एच. रविकुमार, पुत्र-दिवंगत हनुमंत
				606	निजी	नमी	516	फरिन ताज, पत्नी-निसार अहमद
				622	निजी	नमी	1015	एम. अतावुल्लाखान, पुत्र-मोहम्मद खान
				621	निजी	नमी	1204	एम. अतावुल्लाखान, पुत्र-मोहम्मद खान
				620	निजी	नमी	485	वाई. एस. लौकेश, पुत्र-दिवंगत बी. शिवस्वामी वाई. एन. नागेन्द्र-दिवंगत बी. नंजुंदास्वामी
				618/3	निजी	नमी	1791	एम. अतावुल्लाखान, पुत्र-मोहम्मद खान
				618/1	निजी	नमी	320	जी. अनवरपाशा - एम. सालरमुजूद उगजीसबा
				618/2	निजी	नमी	192	चिक्कनिगैय्या, पुत्र-दोड्डसिदैय्या
				616/1	निजी	नमी	480	एम. अतावुल्लाखान
				616/2	निजी	नमी	604	चिक्कलिंगैय्या
				616/3	निजी	नमी	378	एम. अतावुल्लाखान
				647/6	निजी	नमी	630	सिदैय्या मादैय्या
				647/5	निजी	नमी	265	सिदैय्या मादैय्या
				648/2	निजी	नमी	56	मादैय्या, पुत्र-दोड्डसिदैय्या सिदैय्या, पुत्र-दोड्डसिदैय्या नंजैय्या, पुत्र-दोड्डसिदैय्या मल्लिकार्जुन, पुत्र-चिक्कलिंगैय्या
				648/1	निजी	नमी	140	सिदैय्या मादैय्या नंजैय्या, पुत्र-दोड्डसिदैय्या मल्लिकार्जुन, पुत्र-चिक्कलिंगैय्या
				647/4	निजी	नमी	25	सिदैय्या मादैय्या

				649	निजी	नमी	2318	वाई. एन. उमेश, पुत्र— दिवंगत वाई. एम. नागराजप्पा वाई. एन. प्रकाश, पुत्र— दिवंगत वाई. एम. नागराजप्पा
				650/1	निजी	नमी	1739	अफिज खान, पुत्र—लतीफ खान नयाज खान, पुत्र—अफिज खान पमीद बेगम, पत्नी—अफिज खान
				651/1	निजी	नमी	105	मुनीराबेगम, पत्नी—रियाज अहम्मद
				651/2	निजी	नमी	513	गौरम्मा
				652	निजी	नमी	2121	गौरम्मा वाई. वी. श्रीनिवासराव
				644	निजी	नमी	410	सी. नागराजू पुत्र—चिक्कलिंगैया
								गौरम्मा, पुत्री—गोलगंजीदेवरा गुड्डना मल्लैया वाई. वी. श्रीनिवासराव
				643	निजी / सरकारी	बागीचा	385	नयाज खान, पुत्र—अफिज खान नाला
				सड़क-3	सरकारी	सड़क	1250	सरकारी जायदाद (सड़क)
			5. महूरु	91/2	निजी	शुष्क	570	बसवाराजू, पुत्र—दिवंगत मुद्दशेट्टी
				91/1	निजी	शुष्क	30	वाई. बी. रामनायक वाई. बी. बसवण्णा वाई. बी. पुट्टस्वामी
				नाला-1	सरकारी	नाला	1605	सरकारी जायदाद (नाला)
				सड़क-1	सरकारी	सड़क	85	सरकारी जायदाद (सड़क)
				1130/1	निजी / सरकारी	नमी	28	जे. मंजुनाथ, पुत्र—सी. जयण्णा
				1132/4	निजी	नमी	170	सुरेश, पुत्र—हनुमंतु कुमार, पुत्र—हनुमंतु पुट्टवेंकटम्मा रंगस्वामि, पुत्र—नंजुंदानायक
				1132/3	निजी	नमी	100	चिक्करंगनायक—वेंकटनायक रंगस्वामी — वेंकट नायक
				1132/2	निजी	नमी	100	रंगदासैया
				1132/1	निजी	नमी	150	सुरेश, पुत्र—हनुमंतु कुमार, पुत्र—हनुमंतु संजीव नायक — रंग नायक
				1131/2	निजी	बागीचा	105	जे. मंजुनाथ, पुत्र—दिवंगत सी. जयण्णा
				1131/1	निजी	बागीचा	120	जे. मंजुनाथ, पुत्र— सी. जयण्णा
				1133	निजी / सरकारी	बागीचा	250	कोलिमुत्तना रंगा रंगनायक रंगम्मा
				1134	निजी	बागीचा	210	एम. मल्लिकार्जुनस्वामी, पुत्र— दिवंगत एम. मल्लण्णा
				1143/4	निजी / सरकारी	बागीचा	100	रंगनायक
				1143/1	निजी	शुष्क	95	देवम्मा निंगम्मा, पत्नी—सिद्धानायक

				1142/5	निजी / सरकारी	शुष्क	90	एम. मल्लिकार्जुनस्वामी, पुत्र-दिवंगत एम. मल्लण्णा
				1142/4	निजी	बागीचा	100	नरसिपुरद लिंगा
				1142/3	निजी	बागीचा	230	एम. राघवेंद्र बाबू, पुत्र-मादनायक
								एम. राघवेंद्र बाबू, पुत्र-मादनायक
								बंगारनायक, पुत्र-दासनायक
				1142/2	निजी	शुष्क	265	रंगनायक-वेंकटरंग नायक
				1142/1	निजी	शुष्क	144	कल्ल नायक - दासनायक
				1144/7	निजी	शुष्क	30	हनुमंतैय्या
				1144/6	निजी	शुष्क	30	पुट्टमादम्मा, पत्नी-दासनायक
				1144/5	निजी	शुष्क	50	बी. रामू, पुत्र-बंगारनायक
				1144/4	निजी	शुष्क	225	लक्ष्मम्मा, पत्नी-रंगनायक
				1144/3	निजी	शुष्क	315	आर. हनुमंतनायक, पुत्र-रंगनायक
				1144/1	निजी	शुष्क	235	मास्ति नायक, पुत्र-नरसिपुरद लिंग नायक
								नंजुंडनायक, पुत्र-नरसिपुरद लिंग नायक
				1156	निजी	बागीचा	210	चिन्नस्वामि, पुत्र-वेंकटरंगनायक
				सडक-2	सरकारी	सडक	220	सरकारी जायदाद (सडक)
				1157	निजी	शुष्क / नमी / बागीचा	152	नंजुंडनायक-वेंकटरंगनायक एन. नंजैय्या सिद्दनायक एन. नंजैय्या-मरिनंजैय्या नायक मंगलम्मा, पुत्रि-सिद्दप्पा
				1155	निजी	नमी	160	रंगनायक वेंकटरंगनायक
				1160/1	निजी / सरकारी	नमी / बागीचा	240	एम. एन. उषा, पुत्रि-एम. एस. नागराजू
				1160/2	निजी	नमी / बागीचा	108	लक्ष्मम्मा, पत्नी-दास नायक
				नाला-2	सरकारी	नाला	60	सरकारी जायदाद (नाला)
				1163	सरकारी	खराब	565	सरकारी जायदाद (ग्रेव यार्ड)
				1170/5	निजी	नमी	1150	जयम्मा, पत्नी-सी. महादेवैय्या नंजैय्या, पुत्र-चिक्कहनुमैय्या
				1170/4	निजी	नमी	250	एम. नटराज - दिवंगत मादैय्या
				1/1.	निजी / सरकारी	शुष्क	530	रंगम्मा, पत्नी-वेंकटरंग नायक वी. रंगम्मा, पत्नी-दिवंगत चिक्कवेंकट रंग नायक
				1/2	निजी / सरकारी	शुष्क	1325	ग्रामठाणा
				6	निजी / सरकारी	शुष्क	1545	एम. एन. नरसिम्हैय्या
				सडक-3	सरकारी	सडक	1535	सरकारी जायदाद (सडक)
				11	निजी	नमी	775	जे. नटराजू -एच. जवरैय्या
				12/1.	निजी	नमी	750	कमलम्मा, पुत्री-टी. एम. मादैय्या
								कमलम्मा, पुत्री-टी. एम. मादैय्या
				12/2.	निजी	नमी	700	एम. बी. बासवैय्या -मल्लगलैय्या
				20/1	निजी	बागीचा	165	हनुमंतराजू, पुत्र-बसवैय्या महादेवस्वामी, पुत्र-बसवैय्या रामचंद्र, पुत्र-बसवैय्या

								डोरेस्वामी, पुत्र—बसवैया
				20/2	निजी	बागीचा	30	श्रीनिवासमूर्ति, पुत्र—बसवैया
				21/7	निजी	शुष्क	775	केम्पैया मुद्दलिंगैय्यना नंजैय्या
				21/6	निजी	शुष्क	30	बंडिगैया पुट्टनंजम्मा, पत्नी—सण्णैय्या
				21/5	निजी	शुष्क	300	शिवराम, पुत्र—मल्लैय्या महादेवैया, पुत्र—दिवंगत मुद्दमल्लैय्या मद्दुरु
				21/10	निजी	शुष्क	30	एम. एन. बसवण्णा चिक्कमादम्मा, पत्नी—दिवंगत नंजैय्या
				21/4	निजी	शुष्क	400	एम. बी. बसवैया — मल्लैय्या
				21/2	निजी	शुष्क	100	एम. एस. रंगैया — सिदैय्या एम. एस. नागराजू — सिदैय्या सी. नागैया — चेन्नैया
				21/1	निजी	शुष्क	175	मनेयैया — येदेसिद्दना बसवैया
				नाला-3	सरकारी	नाला	375	सरकारी जायदाद (नाला)
				806/1	निजी	शुष्क	180	दासिनंजम्मा रंगदासी
				806/2	निजी	शुष्क	75	बसवा
				806/3	निजी	बागीचा	75	कूलि मदना सन्ना
				806/4	निजी	बागीचा	50	पोतबसवननंजा
				806/5	निजी	बागीचा	125	जंगली सिदैय्या चिक्कबसवैया, पुत्र—जंगली सिदैय्या
				802	निजी	बागीचा	70	बसवा उर्फ चिक्कबसवैया होन्नैया मल्लिकार्जुन, पुत्र—दिवंगत बसवैया बसवैया, पुत्र—कुन्नम्मा
				801	निजी	शुष्क/ बागीचा	550	पुट्टनंजम्मा, पत्नी—गुरुसिदैय्या महादेवम्मा, पत्नी—सिदैय्या नंजम्मा, पत्नी—जवरैया रजिनम्मा, पत्नी—दिवंगत मरैया शांताराजू, पुत्र—सिदैय्या
				नाला-4	सरकारी	नाला	700	सरकारी जायदाद (नाला)
				758/5	निजी	शुष्क	85	बसवा नंजा
				758/4	निजी	शुष्क	72	एन. सिद्दनंजास्वामि, पुत्र—नंजैय्या
				758/3	निजी	शुष्क	97	एन. सिद्दनंजास्वामि, पुत्र—नंजैय्या
				735/5	निजी	शुष्क	30	सिदैय्या, पुत्र—जंगली सिदैय्या
				735/2	निजी	शुष्क	30	सिदैय्या, पुत्र—जंगली सिदैय्या
				735/1	निजी	शुष्क	30	चिक्कबसवैया, पुत्र—जंगली सिदैय्या सिदैय्या, पुत्र—जंगली सिदैय्या सिदैय्या, पुत्र—जंगली सिदैय्या
				739	निजी	शुष्क	310	सिद्दराजू, पुत्र—रंगैया
				740/4A	निजी	शुष्क	75	मल्लण्णा शिवैया — कालिदासय्या नंजैया, पुत्र—कुल्लैया

								रंगैय्या—कुल्लैय्या
								के. सरोजम्मा,
								पत्नी—पुट्टबसैय्या
								शिवैय्या
								डी. नारायण
								नंजुडैय्या
								मल्लण्णा
								शिवैय्या — कालिदासैय्या
								रंगैय्या—कुल्लैय्या
				740/3	निजी	शुष्क	29	आनन्दराजू पुत्र—दिवंगत
								केंचैय्या
								शांतराजू पुत्र—केंचैय्या
				740/2	निजी	शुष्क	60	आनन्दराजू पुत्र—दिवंगत
								केंचैय्या
								शांतराजू पुत्र—केंचैय्या
				740/1	निजी	शुष्क	205	सण्णमादैय्या, पुत्र—सन्नैय्या
			6. अगर	नाला-1	सरकारी	नाला	110	सरकारी जायदाद (नाला)
				1092/1	निजी	शुष्क / नमी	114	बसवैय्या, पुत्र—चिक्क सिदैय्या
								एम. सिद्धराजू पुत्र—मरि
								सिदैय्या
				1090	निजी	शुष्क / नमी	54	जी. नागराजू
								महादेवगौड़ा
								मंजुला—नंजेगौड़ा
				1094	निजी	शुष्क	115	महादेवगौड़ा
								मंजुला, पत्नी—नंजेगौड़ा
								मरिसिद्ध
				1084/4	निजी	शुष्क	90	आर. वीरण्णा—दिवंगत रुद्रप्पा
								के. सोमण्णा, पुत्र—केम्पेगौड़ा
				1084/2	निजी	शुष्क / नमी / बागीचा	215	सी. गुड्डेगौड़ा
								के. सोमण्णा, पुत्र—केम्पेगौड़ा
				1084/1	निजी	बागीचा	320	जी. चिक्कण्णेगौड़ा, पुत्र—
								दिवंगत सी. गुड्डेगौड़ा
				1083	निजी	बागीचा	264	के. सोमण्णा, पुत्र—केम्पेगौड़ा
				1082	निजी	शुष्क / बागीचा	135	के. सोमण्णा, पुत्र—केम्पेगौड़ा
				1080/2	निजी	शुष्क	32	के. सोमण्णा, पुत्र—केम्पेगौड़ा
				1065/3	निजी / सरकारी	नमी / बागीचा	172	ए. एन. गुरुराजाचार
								पी. श्रीनिवास
				1065/1	निजी	बागीचा	265	नारायण गौड़ा—दासेगौड़ा
				1065/4	निजी	नमी / बागीचा	272	सी. देवण्णा
				1062/2	निजी	नमी	240	सी. देवण्णा
				1061/3	निजी / सरकारी	नमी	72	मरितायम्मा, पत्नी—वृषबेन्द्रा
								मूर्ति
				1061/2	निजी	नमी	40	बी. बसवण्णा
								चिन्नतायम्मा
				1060/2	निजी	नमी	120	वी. वीरभद्रस्वामी, पुत्र—
								दिवंगत वृषबेन्द्रमूर्ति
				1060/1	निजी	नमी / बागीचा	174	नंजुडस्वामी
				1059/2A	निजी	नमी	105	लिंगम्मा, पत्नी—दासशेट्टी
								राजम्मा
				1059/2B	निजी	नमी	36	कुमार—वीरत्तप्पा
								केम्पदेवम्मा, पत्नी—नंजुंदपा
				1059/1B	निजी	नमी	96	शिवस्वामी—शिवलिंग देवरु

				1059/1A	निजी	नमी	18	शिवस्वामी—शिवलिंग देवरू
				1058	निजी	नमी	344	सुवर्णम्मा
				1121	निजी	नमी	370	सिद्धमरी नायक, पुत्र—कामनायक
				सड़क-1	सरकारी	सड़क	55	सरकारी जायदाद (सड़क)
				सड़क-2	सरकारी	सड़क	95	सरकारी जायदाद (सड़क)
				1189/2	निजी	नमी	90	आर. नागराजमूर्ति, पुत्र—एम. एस. रेवण्णादेवरू
				1189/1	निजी	शुष्क	60	आर. नागराजमूर्ति, पुत्र— एम. एस. रेवण्णादेवरू
				1095/12	निजी	नमी	137	आर. बसवण्णा
				1095/11	निजी	नमी	56	आर. बसवण्णा
				1095/13	निजी	शुष्क	60	आर. बसवण्णा
				1095/10	निजी	शुष्क	150	आर. बसवण्णा—दिवंगत रुद्रप्पा
				1095/7	निजी	शुष्क	289	आर. बसवण्णानवरू
				1095/15	निजी	शुष्क	108	जी. नागराजू, पुत्र— दिवंगत अम्मणम्मना गुड्डेगौड़ा
				1095/6	निजी	शुष्क	662	ए. बी. रत्नम्मा, पुत्र—कल्लुबसप्पा एच. लक्ष्मी, पत्नी—सी. नागैय्या
				1095/3	निजी	शुष्क	265	कांताम्मणि, पत्नी—तम्मण्णेगौड़ा
				1095/9	निजी	नमी	90	कांताम्मणि—तम्मण्णेगौड़ा
				1095/5	निजी	नमी	64	कांताम्मणि—तम्मण्णेगौड़ा
				1107/6	निजी	नमी	68	आर. वीरण्णा—दिवंगत रुद्रप्पा
				1107/5	निजी	नमी	55	डी. बसवाराजू, पुत्र— दिवंगत दोड्डु नायक
				1107/4	निजी/ सरकारी	नमी	69	डी. बसवाराजू, पुत्र— दिवंगत दोड्डु नायक
				1107/3	निजी	नमी	71	चंद्रशेखर, पुत्र—दिवंगत शिवप्पा
				1107/2	निजी	नमी	54	आर. तम्मैय्या, पुत्र—दिवंगत रंगनायक आर. तम्मैय्या महादेवनायक
				1107/1	निजी	शुष्क/ नमी	51	ललिता, पत्नी—ए. आर. अनंतनारायण
				1108/3	निजी/ सरकारी	नमी/ बागीचा	60	एम. मरिस्वामि
				1108/2	निजी	बागीचा	58	एम. मरिस्वामि
				1108/1	निजी	बागीचा	56	एम. मरिस्वामि
				1113/5	निजी	नमी	91	उमा, पत्नी—दिवंगत गुरुस्वामि
				1113/4	निजी	शुष्क/ नमी	39	महादेव प्रसाद अवयस्क अभिभावक अज्जी शिवप्पा
				1113/3	निजी	नमी	41	एम. महादेवस्वामी, पुत्र—दिवंगत वीरप्पा देवरू
				1113/2	निजी	नमी	49	नीलम्मा गुरुसिद्धप्पा माँ नीलम्मा
				1113/1	निजी	नमी	56	चिन्नम्मा, पत्नी—दिवंगत वी. नागराजू
				1114/2	निजी	नमी	169	निंगम्मणि, पत्नी—दिवंगत शिवनागप्पा
				1114/1	निजी	नमी	36	वी. बसवण्ण—वीरप्पा देवरू
				1115	निजी	नमी	128	वी. बसवण्ण—वीरप्पा देवरू
				1116/2	निजी	शुष्क	132	एस. उमादेवी, पुत्रि— सी. वी. शिवप्पा

				1116/1	निजी	शुष्क / नमी / बागीचा	168	सिद्धम्मा, पत्नी—रंगनायक निंगम्मा, पत्नी—सिद्धबासवा नायक
				1117/2	निजी	नमी	234	सिद्धबसवा नायक बिलिगिरि नायक
				1117/1	निजी	नमी	194	सुब्बप्पा, पुत्र—मल्लप्पा केम्पदेवम्मा, पत्नी—नुजुंदप्पा
				1118	निजी / सरकारी	खराब	24	देवेगौड़ा—केम्पेगौड़र देवेगौड़ा
				1119	निजी / सरकारी	नमी	248	एम. एस. परशिवमूर्ति एम. एस. परशिवमूर्ति—ऐलिनेटेड
				1126/3	निजी	नमी	84	के. सोमप्पा, पुत्र—केम्पेगौड़ा
				1126/2	निजी / सरकारी	नमी	64	तम्मगेगौड़ा—देवीसण्णेगौड़ा
				1127	निजी	नमी	605	अंकनायक, पुत्र—ईरानायक चौडानायक, पत्नी—कुन्दरू नायक ई. अंकनायक, पुत्र—दिवंगत ईरानायक राचानायक, पुत्र—पासाले सिद्धनायक
				1134/2	निजी	नमी	90	एस. गोविन्दानायक—सिद्धनायक
				1134/1	निजी	नमी	104	एस. गोविन्दा—सिद्धनायक
				1135	निजी	नमी	120	मारा नायक—संजीव नायक
				1136	निजी	बागीचा	104	मारनायक, पुत्र—संजीवनायक
				1141	निजी	बागीचा	234	मारनायक, पुत्र—संजीवनायक
				1205	निजी	नमी	4000	ए. एन. शिवानन्दा
				1204	निजी	नमी	120	ए. एन. शिवानन्दा पी. देशराजू
				1216/1	निजी	नमी	2000	एस. बालकृष्णा, पुत्र— दिवंगत ए. श्रीनिवास उपाध्याय
				1215	निजी / सरकारी	नमी	2500	नागराजू, पुत्र—तायी रंगम्मा
				1219/2	निजी / सरकारी	नमी	535	सी. कप्पण्णा चन्नबसप्पा
				1219/1	निजी	नमी	780	नंजुडानायक, पुत्र—दिवंगत सण्णनायक रंगस्वामि, पुत्र—दिवंगत नंजनायक
				1214	निजी	बागीचा	400	आर. गोविन्दनायक, पुत्र—दिवंगत रंगनाशक उर्फ गूलिरंगनायक
				1220/2	निजी	नमी	975	ए. एस. नागराजू श्रीनिवास अयेंगर
				1220/1	निजी	नमी	1110	महादेवनायक—ईरा नायक महादेवम्मा, पत्नी—राज नायक
				सड़क-3	सरकारी	सड़क	785	सरकारी जायदाद (सड़क)
				1221	निजी / सरकारी	नमी / बागीचा	1940	रंगनायक—गूलि रंगनायक करगनंजैय्या रंगनायक
				1222	निजी	नमी	810	एम. शिवण्णा
				नाला-2	सरकारी	नाला	995	सरकारी जायदाद (नाला)
				1227	निजी	नमी	360	एम. शिवण्णा—मल्लिकार्जुनैय्या
				58	निजी	नमी	2015	श्रीनिवासमूर्ति, पुत्र— दिवंगत ए. एस. आनन्दराव

							बसवैय्या, पुत्र-दोड्ड होन्नना बसवैय्या
							एम. पुट्टमादैय्या, पुत्र-दिवंगत मंचैय्या
							एम. पुट्टमादैय्या, पुत्र-दिवंगत मंचैय्या
							एम. पुट्टमादैय्या, पुत्र-दिवंगत मंचैय्या
							एम. पुट्टमादैय्या, पुत्र-दिवंगत मंचैय्या
							मुद्द नायक, पुत्र-रंगस्वामि
							एल. शिवस्वामी, पुत्र-लिंगेगौड़ा
							एस. सत्यनारायणराव, पुत्र-श्रीनिवासमूर्ति
							एल. लिंगराजू, पुत्र-लिंगेगौड़ा एल. शिवस्वामी
							आर. लक्ष्मण, पुत्र-दिवंगत रामैय्या
							आर. लक्ष्मण, पुत्र-दिवंगत रामैय्या
							गंगाम्मा, पत्नी-दिवंगत मनैय्या
							दुंडिडम्मा, पत्नी-दिवंगत परडे बसवैय्या
							बेट्टम्मा, पत्नी-काडि चामैय्यना बासवैय्या
							प्रभावती, पत्नी-दिवंगत बी. रवलैय्या
							सरकारी जायदाद (सड़क)
							एस. आनन्द, पुत्र-दिवंगत डी. स्वामी
							सरकारी जायदाद (नाला)
							सरकारी जायदाद नाला
							सरकारी जायदाद (सड़क)
							सरकारी जायदाद (सड़क)
							बी. नटराज
							बसम्मा, पत्नी-हिंडैय्या
							कर्नाटक राज्यपाल के पक्ष में सिद्दनंजैय्या, पुत्र-दिवंगत नीलैय्या
							बी. चिक्कण्णास्वामी
							सी. एच. बसवैय्या
							मादम्मा, पत्नी-दिवंगत सिद्धमादैय्या
							पुट्टनंजम्मा, पत्नी-सिद्धमादैय्या एम. सिद्धमादैय्या
							सिद्धमादैय्या
							अईसाक, पुत्र-अब्राहिम
							एम. मादैय्या, पुत्र-दिवंगत मादैय्या मम्बल्लि
							कबिनि नाला कबिनि नाला
							पुट्टमादम्मा, पत्नी-दिवंगत जी. एम. मादैय्या एम. जयकुमार एम. विजयाकुमारा एम. वेनुगोपाला एम. वेदमूर्ति

					एम. लक्ष्मीकांत
					कबिनि नाला
	190/B	निजी	शुष्क	520	मुद्दैय्या, पुत्र-दिवंगत बासवैय्या
	194	निजी	शुष्क	235	टी.डी.बी. काफि मुद्दैय्या, पुत्र-दिवंगत काफि बासवैय्या एम. सिद्दैय्या, पुत्र-मल्लैय्या मीना, पुत्री-के. एम. लिंगण्णा
	196/A2	निजी / सरकारी	शुष्क	50	पुट्टमादम्मा, पत्नी-जी. एम. मादैय्या एम. जयकुमार एम. विजयाकुमारा एम. वेनुगोपाला एम. वेदमूर्ति एम. लक्ष्मीकांत
	196/C1	निजी	शुष्क	445	कापनैय्या, पुत्र-कापनीनंजैय्या कुन्नैय्या, पुत्र-करगनंजैय्या
	196/A1	निजी / सरकारी	शुष्क	185	एम. लिंगराजू, पुत्र-मादैय्या कबिनि नाला के लिए अर्जित
	198/A	निजी / सरकारी	शुष्क	230	चिक्कत्तायम्मा, पत्नी-रंगैय्या कबिनि नाला के लिए अर्जित
	198/C1	निजी	शुष्क	510	एम. वी. नागराजप्पा, पुत्र-वीरपक्षमूर्ति मुडिगुंडम
	171/A2	निजी / सरकारी	शुष्क	360	एस. रंगैय्या, पुत्र-सिद्दैय्या उटंबल्लि एस. रंगैय्या, पुत्र-सिद्दैय्या उटंबल्लि ऐलिनेटेड
	171/A1	निजी / सरकारी	शुष्क	435	चिक्करचेगौड़ा, पुत्र-रचेगौड़ा कबिनि नाला के लिए अर्जित
	198/C2	निजी	शुष्क	220	आर. गुरुमल्लप्पा, पुत्र-रचप्पा मधु, पुत्र-अवयस्क अभिभावक पिता विश्वनाथ मनु, पुत्र-अवयस्क अभिभावक पिता विश्वनाथ
	199/B2	निजी	शुष्क	230	आर. महादेवस्वामी, पुत्र-रचप्पा भारती, पत्नी-महादेवस्वामी मनु, पुत्र-अवयस्क अभिभावक पिता विश्वनाथ मधु, पुत्र-अवयस्क अभिभावक पिता विश्वनाथ
	199/B1	निजी	शुष्क	285	एन. होमबले, पुत्र-दिवंगत नंजैय्या
	200/B	निजी	शुष्क	2410	एस. पुट्टराजू, पुत्र-दिवंगत शिवप्पा एम. नागप्पा, पुत्र-मरिदेवरु
	202/B2	निजी	शुष्क	580	एम. नागप्पा, पुत्र-मरिदेवरु उटंबल्लि
	202/A	निजी / सरकारी	शुष्क	150	टी.डी.बी.
	202/B1	निजी	शुष्क	100	एम. लिंगप्पा एम. शिवनंजप्पा
	169/4A	निजी	शुष्क	100	आरटीसी के अनुसार
	169/4B	निजी	शुष्क	280	आरटीसी के अनुसार
	169/3	निजी	शुष्क	175	पुट्टमल्लेगौड़ा, पुत्र-गुरुबासवेश्वरा

								कबिनि नाला के लिए अर्जित
				169/2	निजी / सरकारी	शुष्क	330	बासम्मणि, पत्नी—आर. नागण्णा
				169/1	निजी / सरकारी	शुष्क	960	कबिनि नाला के लिए अर्जित बासम्मा, पत्नी—आर. नागण्णा कबिनि नाला के लिए अर्जित
				203/A	निजी / सरकारी	खराब	1245	आरटीसी के अनुसार
				203/B	सरकारी	खराब	25	आरटीसी के अनुसार
				164 (सड़क)	सरकारी	खराब	2135	एल. एफ. सड़क
				163/A2	निजी	शुष्क	570	एम. मादेश, पुत्र—महादेव
				163/A1	निजी / सरकारी	शुष्क	4068	एम. मादेश, पुत्र—महादेव कबिनि नाला एस. महादेवप्पा, पुत्र—शिवप्पा शिवस्वामी, पुत्र—रचप्पा
				123 (सड़क)	सरकारी	खराब	795	सी.टी.
				122	निजी / सरकारी	शुष्क	695	जी. शिवमूर्ति, पुत्र—कुल्लप्पा कबिनि नाला के लिए अर्जित
				121/2	निजी / सरकारी	शुष्क	2224	महादेवप्पा, पुत्र—कैम्पप्पा कबिनि नाला के लिए अर्जित
				121/1	निजी / सरकारी	शुष्क	2475	एम. नटराजू, पुत्र—महादेवप्पा एम. मरिस्वामी बासवण्णा कबिनि नाला के लिए अर्जित
				118/2	निजी / सरकारी	शुष्क	1150	पी. नागेन्द्र, पुत्र—दिवंगत पुट्टसुब्बप्पा कबिनि नाला के लिए अर्जित
				118/1	निजी / सरकारी	शुष्क	1475	कबिनि नाला के लिए अर्जित एम. नागराजू, पुत्र—दिवंगत महंतदेवरू तेरम्बल्लि
				111	निजी / सरकारी	शुष्क	6030	मलंगी नागराजप्पा, पुत्र—गुरुमल्लप्पा जी. शिवमूर्ति, पुत्र—गुरुमल्लदेवरू एन. प्रभुस्वामी, पुत्र—नागराजू एन. शरण एन. कुमारा कबिनि नाला के लिए अर्जित जयशंकरप्पा, पुत्र—गुरुमल्लप्पा प्रसन्ना मूर्ति, पुत्र—दिवंगत शिवबासवा देवरू मादप्पा, पुत्र—दिवंगत चन्नबासवादेवरू बी. नागराज, पुत्र—बासवण्णा निंगम्मणि, पत्नी—दिवंगत नागराजू
				109/3	निजी / सरकारी	शुष्क	1350	गुरुबासप्पा, पुत्र—दिवंगत मंटे लिंगप्पा कबिनि नाला के लिए अर्जित पी. महाप्रभु, पुत्र—के. पुट्टस्वामैय्या
				109/2	निजी / सरकारी	शुष्क	1295	पुट्टस्वामैय्या, पुत्र—नंजुंदास्वामी दिवंगत नंजप्पा कबिनि नाला के लिए अर्जित
				109/1	निजी /	शुष्क	1125	कबिनि नाला के लिए अर्जित

					सरकारी			पी. विद्याशंकर, पुत्र—दिवंगत के. पुट्टस्वामैय्या
				108/4	निजी / सरकारी	शुष्क	940	आरटीसी के अनुसार
				108/3	निजी	शुष्क	1020	आरटीसी के अनुसार
				108/2	निजी / सरकारी	शुष्क	1125	हुचेगौड़ा, पुत्र—नंजेगौड़ा कबिनि नाला के लिए अर्जित पी. विद्याशंकर, पुत्र—दिवंगत के. पुट्टस्वामैय्या
				107/B	निजी / सरकारी	शुष्क	495	कबिनि नाला के लिए अर्जित पी. विद्याशंकर, पुत्र—दिवंगत के. पुट्टस्वामैय्या
				108/1	निजी / सरकारी	शुष्क	2775	कबिनि नाला के लिए अर्जित पी. विद्याशंकर, पुत्र—दिवंगत के. पुट्टस्वामैय्या
				104/A	निजी	शुष्क	7250	एन. कुमार, पुत्र—एन. एस. नारायणैय्या, कोल्लेगाल मुख्य अधिकारी पाट्टना पंचायती यलंदुरु एन. कुमार, पुत्र—एन. एस. नारायण एन. कुमार, पुत्र—दिवंगत एन. एस. नारायणा
				101/1	निजी / सरकारी	शुष्क	35	कुम.ई. 214 भू. स्वा. मै. 2001 सं.— एलएक्यू सीआर 20/2000-01 दिनांक 11.05.2001 कबिनि नाला के लिए अर्जित 0.15 पी. परणज्योति, पुत्री—दिवंगत पुट्टस्वामैय्या
				103/B	निजी / सरकारी	शुष्क	70	कुम.ई. 214 भू. स्वा. मै. 2001 सं.— एलएक्यू सीआर 20/2000-01 दिनांक 11.05.2001 कबिनि नाला के लिए अर्जित 0.15 पी. परणज्योति, पुत्री—दिवंगत पुट्टस्वामैय्या
				104/B	सरकारी	खराब	1140	सी.टी.
				104/C	निजी	शुष्क	440	एन. कुमार, पुत्र—दिवंगत एन. एस. नारायणा
				46	सरकारी	खराब	990	एस. ट्री
				45/2	निजी / सरकारी	शुष्क	3840	बासवाशेट्टी, पुत्र—दोड्डबासवाशेट्टी कुम.ई. 214 भू. स्वा. मै. 2001 सं.— एलएक्यू सीआर 20/2000-01 दिनांक 11.05.2001 कबिनि नाला के लिए अर्जित 0.23
				45/1	निजी / सरकारी	शुष्क	3710	एम. नंजुंदास्वामी, पुत्र—दिवंगत महादेवप्पा एम. चन्द्रशेखरमूर्ति, पुत्र—दिवंगत महादेवप्पा पार्वतम्मा, पत्नी—दिवंगत महादेवप्पा
				44/3	निजी / सरकारी	शुष्क	2250	आरटीसी के अनुसार
				44/2	निजी / सरकारी	शुष्क	2455	आरटीसी के अनुसार

				42/1	निजी	शुष्क	1440	आरटीसी के अनुसार
				42/2	निजी	शुष्क	1110	आरटीसी के अनुसार
				42/3	निजी	शुष्क	585	आरटीसी के अनुसार
				41/1	निजी	शुष्क	400	आरटीसी के अनुसार
				41/2	निजी	शुष्क	1261	आरटीसी के अनुसार
				41/3	निजी	शुष्क	3490	आरटीसी के अनुसार
				40	निजी	शुष्क	200	दिवंगत मादेगौड़रू के बच्चे राजम्मा, पत्नी—नंजुंडेगौड़ा मसनेगौड़ा महादेवेगौड़ा
				32 (सड़क)	सरकारी	खराब	450	एल. एफ. सड़क सी. टी. बंदिधारी
				27/C2	निजी	शुष्क	4634	रंगाशेही, पुत्र—केम्पकामशेही वी. कुमार, पुत्र—दिवंगत के. वेंकटशेही मुल्लूर
				27/C1	निजी	शुष्क	560	सवुकैय्या
				26/2	निजी	शुष्क	350	नंजुंदाशेही, पुत्र—सिद्धशेही
				26/1	निजी	शुष्क	1245	सिद्धशेही, पुत्र—कामशेही
				24	निजी / सरकारी	शुष्क	4825	जे. बासवाशेही, पुत्र—जावरशेही करगशेही, पुत्र—दोड्डकामशेही चिक्कशेही आर. नागराजू के. वेंकटशेही, पुत्र—केम्पकामशेही कुम.ई. 214 भू. स्वा. मै. 2001 सं.— एलएक्यू सीआर 20/2000-01 दिनांक 11.05.2001 कबिनि नाला के लिए अर्जित 0.30 पुट्टशेही, पुत्र—दिवंगत डी. रचाशेही के. वेंकटशेही, पुत्र—केम्पकामशेही कामशेही, पुत्र—कामाशेही
				नाला-1	सरकारी	नाला	2840	सरकारी जायदाद (नाला)
			2. हम्पापुरा	166	निजी	शुष्क	440	कलम्मा, पत्नी—सुब्बैय्या निंगैय्या, पुत्र—नंजम्मा शिवमल्लु, पुत्र—चिक्कमल्लैय्या
				165/A1	निजी	शुष्क	3100	मादैय्या, पुत्र—मादैय्या मरदैय्या, पुत्र—मादैय्या सिद्धैय्या, पुत्र—मादैय्या मल्लिकार्जुन, पुत्र—मादैय्या
				165/A2	निजी	शुष्क	3720	एन. लिंगराजू, पुत्र—दिवंगत नंजुंदा
				165/A3	निजी	शुष्क	1110	एम. कंठराजू, पुत्र—दिवंगत आर. मडनायक
				165/A4	निजी	शुष्क	30	मंचैय्या, पुत्र—लिंगैय्या नंजम्मणि, पत्नी—मल्लैय्या
				164 (नाला)	सरकारी	नाला	760	पीडब्ल्यूडी नाला
				163/1	निजी	शुष्क	4925	ए. शेखर, पुत्र—कृष्णाशेही के. शेखर, पुत्र—दिवंगत ए. कृष्णाशेही के. शेखर, पुत्र—दिवंगत ए.

								कृष्णाशेट्टी
								प्रभाकर, पुत्र—मारम्मा
								जयम्मा, पुत्री—दिवंगत मल्लिगैया
								अब्दुल अफीज साहेब, पुत्र—कादर साहेब कोल्लेगाल
				163/2	निजी	शुष्क	1275	कै. शेखर, पुत्र—दिवंगत ए. कृष्णाशेट्टी
				162/A	निजी	शुष्क	2690	कै. तिमम्मा, पुत्र—चिक्करंगेगौड़ा
				162/B	निजी	शुष्क	1765	अब्दुल हफीज साहेब, पुत्र—कादर साहेब
								एम. ए. इलियास, पुत्र—अब्दुल कादर साहेब
				161/1	निजी	शुष्क	305	अब्दुल हफीज साहेब, पुत्र—कादर साहेब
				147/B	निजी	शुष्क	30	एस. एम. परमेश्वरा, पुत्र—दिवंगत एस. मादैय्या कोल्लेगाल
								एस. एम. लक्ष्मणा, पुत्र—मादैय्या कोल्लेगाल
								एस. एम. परमेश्वर, पुत्र—दिवंगत एस. मादैय्या कोल्लेगाल
								एस. एम. लक्ष्मण, पुत्र—दिवंगत एस. मादैय्या कोल्लेगाल
				146/B	निजी	शुष्क	585	एस. एम. रामलिंगैया, पुत्र—मादैय्या कोल्लेगाल
								एस. एम. परमेश्वर, पुत्र—एस. मादैय्या
								एस. एम. लक्ष्मण, पुत्र—मादैय्या कोल्लेगाल
				146/A	निजी / सरकारी	शुष्क	1260	अर्जित नाला आर.डी. 88 ए. क्यू.एम. 89 दिनांक 21.02.1989 के अनुसार
								भाग्यम्मा, पत्नी—महादेव कोल्लेगाल
				143/A2	निजी	शुष्क	880	कै. महादेवैया शेट्टी, पुत्र—कामशेट्टी
								वी. सिद्धराजू, पुत्र—दिवंगत वेंकटरंगैया होसहम्पापुरा
				143/A1	निजी	शुष्क	690	एम. नागराजू, पुत्र—बी. महादेव
				141	निजी	शुष्क	1650	एम. नागराजू, पुत्र—बी. महादेवपु
				140/1	निजी	शुष्क	750	बी. महादेव
								नीलेशिदैय्या, पुत्र—नीलेशिदैय्या
								एम. नागराजू, पुत्र—बी. महादेव
								डुंडम्मा, पत्नी—दिवंगत महादेव कोल्लेगाल मोले
				139	सरकारी	खराब	370	नाला
				138/1	निजी	शुष्क	560	पी. कृष्णप्पागौड़ा, पुत्र—पेरुमलागौड़ा
				137/A2	निजी	शुष्क	30	आर. कृष्णप्पागौड़ा, पुत्र—दिवंगत तिरुमलागौड़ा
				137/A3	निजी / सरकारी	शुष्क	900	डी. कृष्णप्पागौड़ा, पुत्र—परमलुगौड़ा
								चिन्नास्वामी, पुत्र—पुजारी चेन्नानायक

								केम्पण्णा, पुत्र-चेन्नैय्या
								कबिनि नाला
			137/A1	निजी / सरकारी	शुष्क	1270		केम्पण्णा, पुत्र-चेन्नैय्या
								कबिनि नाला
			136	निजी	शुष्क	1990		पी. कृष्णप्पागौड़ा, पुत्र-परमलुगौड़ा
								रचाशेट्टी, पुत्र-दिवंगत रचाशेट्टी कोल्लेगाल
								डी. कृष्णप्पागौड़ा, पुत्र-परमलुगौड़ा
			135/B	निजी	शुष्क	800		दोड्डाशेट्टी, पुत्र-मादशेट्टी
			135/C/1	निजी	शुष्क	1120		लक्ष्मीदेवम्मा, पत्नी-सिद्धशेट्टी
			133/B	निजी	शुष्क	125		मादशेट्टी, पुत्र-दिवंगत सिद्धशेट्टी
								दोड्डाशेट्टी, पुत्र-मादशेट्टी
			133/C/1	निजी / सरकारी	शुष्क	2208		लक्ष्मीदेवम्मा, पत्नी-सिद्धशेट्टी
								कबिनि नाला के लिए अर्जित
			133/C/2	निजी / सरकारी	शुष्क	3300		आर. मदनायक
								लक्ष्मीदेवम्मा, पत्नी-सिद्धशेट्टी
								कबिनि नाला के लिए अर्जित
			133/D	निजी / सरकारी	शुष्क	1700		एन. नटराज, पुत्र-नंजाशेट्टी
								कबिनि नाला के लिए अर्जित
								आर.डी. 158 ए.क्यू.एम. 2008 दिनांक 11.03.2009
			132/B3	निजी	शुष्क	476		टी. महादेव, पुत्र-दिवंगत तंगडाशेट्टी कोल्लेगाल मोल
			132/B2	निजी	शुष्क	1020		टी. महादेव, पुत्र-दिवंगत तंगडाशेट्टी कोल्लेगाल मोल
			130/A	निजी / सरकारी	शुष्क	450		शम्बाशेट्टी, पुत्र-कुल्लशेट्टी
								शम्भुलिंगशेट्टी, पुत्र-दिवंगत सिद्धशेट्टी
								कबिनि नाला के लिए अर्जित
			3. हरेले					
				232	निजी	शुष्क	1170	लक्ष्मी, पत्नी-कोपालैय्या
				233	निजी	नमी	1475	लक्ष्मी, पत्नी-दिवंगत कोपालैय्या
				231/A2	निजी	शुष्क	65	लक्ष्मी, पत्नी-कोपालैय्या
				231/B	निजी	नमी	1475	सुब्रमण्यम
								लक्ष्मी, पत्नी-कोपल
				234/C2	निजी	नमी	4425	लिंगम्मा, पत्नी-चन्नबालवाशेट्टी
				234/C1B	निजी	नमी	560	लक्ष्मी, पत्नी-दिवंगत मादशेट्टी
				234/C1A	निजी	नमी	775	आरटीसी के अनुसार
				236/B	निजी	नमी	55	लिंगम्मा, पत्नी-चन्नबालवाशेट्टी
				236/C	निजी	नमी	150	माद, पुत्र-दोड्डजोग
								एल. दोड्डस्वामी, पुत्र-लंकशेट्टी
				236/A	निजी	नमी	2910	जयलक्ष्मम्मा, पत्नी-रंगस्वामी
				237	निजी	नमी	2260	मादम्मा
				238/1	निजी	नमी	2280	वीरम्मा के.जी.एल.
				244/1	निजी	नमी	350	एम. नंजुंदास्वामी, पुत्र-महंतदेवरु
								बासवण्णा, पुत्र-महंतदेवरु
				244/2	निजी	नमी	950	बासवालिंगप्पा
				248/A3	निजी	नमी		बासवण्णा, पुत्र-महंतदेवरु

							385	एम. शिवलंकरप्पा, पुत्र—महंतदेवरू
				248/C1	निजी	नमी	720	सिद्धप्पा, पुत्र—पापम्मा गुरुसिद्धम्मा, पत्नी—चिक्कशेट्टी
				248/E	निजी	नमी	1300	बासवण्णा, पुत्र—महंतदेवरू एम. शिवलंकरप्पा, पुत्र—महंतदेवरू
				248/D	निजी	नमी	1425	बासवण्णा, पुत्र—महंतदेवरू एम. शिवलंकरप्पा, पुत्र—महंतदेवरू
				245/A	निजी	नमी	875	एच. पुट्टमल्लैय्या, पुत्र—चन्नमल्लैय्या राचम्मा, पत्नी—मुथैय्या
				245/B2	निजी	नमी	1860	एम. रंगैय्या देवम्मा
			4. अग्रहारा	67/B/2	निजी	शुष्क	1080	विधियम्मा
				67/B/1	निजी	शुष्क	1030	पो. मादी, पत्नी—पो. जवरायी कोल्लेगाल
				67/A/3	निजी	शुष्क	450	रचैय्या
				67/A/2	निजी	शुष्क	25	एस. मरनायक, पुत्र—दिवंगत सवकैय्या
				102/B/1	निजी	नमी	325	नंजेगौड़ा, पुत्र—रचेगौड़ा नरिपुर
				102/A/3	निजी	नमी	1650	बेट्टैय्यना माद, पुत्र—शम्बानायक
				102/A/1	निजी	नमी	1830	बेट्टैय्या, पुत्र—दिवंगत मादनायक
				102/A/2	निजी	नमी	1875	चिक्कसिद्धैय्या, पुत्र—पुट्टसिद्धा नाग, पुत्र—पुट्टसिद्धा रेवण्णा, पुत्र—पुट्टसिद्धा निंगा, पुत्र—पुट्टसिद्धा सी. सम्पत्तकुमार, पुत्र—दिवंगत चन्नेगौड़ा
				103	निजी	नमी	30	देवम्मा, पुत्नी—पुट्टसिद्धैय्या सम्पत्तकुमार, पुत्र—दिवंगत चन्नेगौड़ा
				101	निजी	नमी	1950	सी. सम्पत्तकुमार, पुत्र—दिवंगत चन्नेगौड़ा
				104	निजी	नमी	1945	सण्णम्मा, पत्नी—दिवंगत वीरभद्रैय्या
				99/A	निजी	नमी	140	सरोज महादेव, पत्नी—एस. महादेव
				99/B	निजी	नमी	4300	सण्णम्मा, पत्नी—दिवंगत वीरभद्रैय्या सी. पी. सैय्यद कबीरअहमद
				98/2	निजी	नमी	55	का. मादी
				98/1	निजी	नमी	1025	कु. वेंकट
				109	निजी / सरकारी	नमी	920	खराब सैय्यद परवेज अहमद, पुत्र—सैय्यद मोहम्मद सुरियाजबीन, पुत्र—सैय्यद अहमद सिद्धैय्या
				97/B	निजी	नमी	1790	नंजा, पुत्र—शीर हरेले
				96	निजी	नमी	2060	चिक्कलिंगैय्या, पुत्र—नुरभलुगैय्या
				95/A	निजी	नमी	1175	एम. बाबू, पुत्र—कादर साहब
				95/B	निजी	नमी	2720	एम. बाबू, पुत्र—मादर साहब

				94/B	निजी	नमी	2160	मादा, पुत्र-सन्ना नरिपुरा
				118 (सड़क)	सरकारी	खराब	30	एम. बाबू, पुत्र-मदल साहब
				115/1	निजी	शुष्क	90	सरकारी जायदाद (सड़क)
				115/3	निजी	शुष्क	125	मलगरसम्मा, पत्नी-दिवंगत बासवैया नरिपुरा
				115/4	निजी	शुष्क	315	मलगरसम्मा, पत्नी-दिवंगत बासवैया नरिपुरा
				110/B4	सरकारी	नमी	910	बोरम्मा
				114	सरकारी	खराब	75	सरकारी आदेश संख्या : 46
				5. जिनकनहल्लि	सरकारी	नाला	100	सरकारी खराब
				158/2	निजी	शुष्क	120	सरकारी जायदाद (नाला)
				6. सरगूरु	सरकारी	नाला	95	वेंकटरामा, पुत्र-कृष्णाशेट्टी
				246	सरकारी	खराब	1675	सरकारी जायदाद (नाला)
				247	निजी	शुष्क	468	सरकारी जायदाद (सड़क)
								जी. उमाशंकर, पुत्र-गुन्नस्वामी
								जी. रामचन्द्रण
								नागराजू
								गोपाल
								सुब्रमण्या
				245/D	निजी	शुष्क	160	मलगरासम्मा, पत्नी-दिवंगत कल्लुबासवैया
				245/C	निजी	शुष्क	70	बासवा
				245/B	निजी	शुष्क	55	जावरा
				245/A	निजी	शुष्क	65	बासवा
				147/A	निजी	शुष्क	210	नंजेगौड़ा
				148	निजी	शुष्क	450	आर. गोविंदाशेट्टी, पुत्र-टी. रामचन्द्रशेट्टी
				144/B	निजी	शुष्क	280	हुचेगौड़ा, पुत्र-रामेगौड़ा
								रमैया, पुत्र-सिद्धरामेगौड़ा
				144/A	निजी	शुष्क	270	आर. राजू, पुत्र-रामेगौड़ा
				244/2	निजी	शुष्क	115	मदेगौड़ा, पुत्र-दिवंगत सन्नेगौड़ा
								जयराजू
								मरिचिकेगौड़ा, पुत्र-दिवंगत कुन्नमदेगौड़ा
				244/1	निजी	शुष्क	170	मरिचिकेगौड़ा, पुत्र-दिवंगत कुन्नमदेगौड़ा
								पुट्टमदेगौड़ा, पुत्र-दिवंगत कुन्नमदेगौड़ा
				243/B	निजी	शुष्क	135	रचेगौड़ा, पुत्र-पुट्टमल्लेगौड़ा
								शिवमदु, पुत्र-पुट्टमल्लेगौड़ा
				242/D	निजी	शुष्क	56	कै. मल्लनायक, पुत्र-कावदमल्लनायक
								है.नूर मोहम्मद, पुत्र-जी. एम. इकबाल कोल्लेगाल
				242/C	निजी	शुष्क	25	सिद्धराजम्मा, पत्नी-मदेगौड़ा
								है.नूर मोहम्मद, पुत्र-जी. एम. इकबाल कोल्लेगाल
				242/B	निजी	शुष्क	45	सिद्धराजम्मा, पत्नी-मदेगौड़ा
								है.नूर मोहम्मद, पुत्र-जी. एम. इकबाल कोल्लेगाल
								है.नूर मोहम्मद, पुत्र-जी. एम. इकबाल कोल्लेगाल
				241	निजी	शुष्क	8	शिहराजू, पुत्र-डोरेसिद्धानायक
				143/2	निजी	शुष्क	300	बोरम्मा, पत्नी-रामेगौड़ा
								आर. राजू, पुत्र-रामेगौड़ा

				143/1	निजी	शुष्क	130	सिद्धराजम्मा, पत्नी—मदेगौड़ा
				142/A1	निजी	शुष्क	155	एस. एम. राजू, पुत्र—दिवंगत केंचमदशेटी
				150/F1	निजी / सरकारी	खराब	280	पोरम्बोक स्कुल क्रीडास्थल
				166/1	निजी	शुष्क	500	वी. सरस्वती, पत्नी—चलुवराजू आर. पुट्टस्वामी, पुत्र—दिवंगत वी. चा. रुद्रप्पा, स्थान के लिए अर्जित
				164	निजी	शुष्क	300	मल्लप्पा कनिया एम. चंद्रशेखराध्या आर. राजू, पुत्र—रामेगौड़ा आर. राजू, पुत्र—रामेगौड़ा गुरुसोमराध्या, पुत्र—गुरुस्वामी अराध्या गुरुबासवाराध्या, पुत्र—दिवंगत गुरुस्वामाराध्या गुरुसोमराध्या, पुत्र—गुरुस्वामी अराध्या पार्वतम्मा एम्बा चंद्रम्मा, पत्नी—गुरुस्वामीराध्या
				166/2	निजी	शुष्क	96	पी. नागराजप्पा, पुत्र—दिवंगत एस. प्रभुस्वामी पी. जी. पाल्या
				166/3	निजी	शुष्क	35	बी. मुजुला, पत्नी—सी. सुरेश
				166/1	निजी	शुष्क	60	वी. सरस्वती, पत्नी—चलुवराजू आर. पुट्टस्वामी, पुत्र—दिवंगत वी. चा. रुद्रप्पा स्थान के लिए अर्जित
				162/B	निजी	शुष्क	160	सिद्धलिंगम्मा इत्यादि
				162/A1	निजी	शुष्क	25	बसम्मा गुरुबासवेगौड़ा इत्यादि
				162/A2	निजी	शुष्क	130	बसम्मा गुरुबासवेगौड़ा इत्यादि
				170/B	निजी	शुष्क	165	वी. सरस्वति, पत्नी—चेलुवराजू सी. पुरुषोत्तम, पुत्र—चेलुवराजू
				170/A2	निजी	शुष्क	120	दोड्डमदनायक, पुत्र—पुट्टमद मदेशा, पुत्र—मरशेटी चिक्कमदनायक, पुत्र—सुब्बनायक देगेगौड़ा, पुत्र—पूजारी मादेगौड़ा रत्नम्मा, पत्नी—बासवण्णा एस. एल. रचैय्या, पुत्र—लिंगेगौड़ा सण्णम्मा, पत्नी—मादप्पा सिद्धराजू, पुत्र—राजाचारी चिक्कतायम्मा, पत्नी—महेशी रचम्मा, पत्नी—रचाचारी राजू, पुत्र—नागराजू सोमचारी, पुत्र—राजाचारी तायम्मा, पत्नी—सिद्धचारी
				170/A1	निजी	शुष्क	30	पुट्टमादनायक, पुत्र—पुट्टमारा
				171/B1	निजी	शुष्क	55	पुट्टमादनायक, पुत्र—पुट्टमादा
				171/B2	निजी	शुष्क	132	वाई. पी. मौलाशा, पुत्र—दिवंगत फखरुद्दीन साहेब कोल्लेगाल
				171/A	निजी	शुष्क	255	महादेव, पुत्र—दिवंगत

					महादेवप्पा
	172	सरकारी	खराब	28	सरकारी जायदाद (नाला)
	179/7	निजी	शुष्क	60	आर. कपनप्पा, पुत्र-कपनैय्या एम्बा रजिया
					चंद्रम्मा, पत्नी-नंजुंडप्पा
					एन. शिवमूर्ति, पुत्र-नंजुंडप्पा
					भोगनंजप्पा, पुत्र-राचप्पा
	184/F2	निजी	शुष्क	350	सिद्धम्मा, पत्नी-दिवंगत राचैय्या
					अवयस्क अभिभावक डी. वेलुमणि अभिभावक माँ रुकमणियम्मा, पुत्री-रंगस्वामी नायडु
					महादेवम्मा
					गौरम्मा
	185/B	निजी	शुष्क	30	पार्वतम्मा
					मल्लम्मा
					बाललोचन अराध्या
					पोडु, पुत्र-जी. चन्द्रशेखराध्य
					पार्वतम्मा, पत्नी-जी. पंडितराध्य
					पंडिताराध्य, पुत्र-जी. पंडिताराध्य
					जी. चंद्रशेखराध्य
					उमेशराध्य, पुत्र-जी. पंडिताराध्य
					नंदिशराध्य, पुत्र-जी. पंडिताराध्य
					चंद्रशेखर अराध्य, पुत्र-चिक्कमल्लाराध्य मैसूर
7. धनगेरे	81/A	सरकारी	सड़क	2000	सरकारी जायदाद (सड़क)
	नाला-4	सरकारी	नाला	4545	सरकारी जायदाद (नाला)
	299/B	निजी	नमी	615	मुत्तम्मा एम्बा सुब्बम्मा
	298	निजी	शुष्क	260	मुत्तैय्या, पुत्र-मुत्तैय्या
					महादेवम्मा, पत्नी-मुत्तैय्या
	297/B/2	निजी	शुष्क	117	महादेव, पुत्र-दिवंगत मादैय्या
	297/B/1	निजी	शुष्क	133	सुंद्रा, पुत्र-मुदैय्या
					राजण्णा, पुत्र-मुदैय्या
	297/A/1b	निजी	शुष्क	230	मरिसवुका, पुत्र-सावुका
	296/C	निजी	शुष्क	130	मादम्मा धनगेरे
	296/A	निजी	शुष्क	95	अरासी
	295	निजी	शुष्क	145	के. मादा
					सिद्ध
					चिक्क माद अवयस्क अभिभावक माँ चेन्नी
	294/D	निजी	शुष्क	95	गविसिद्धा
	294/A	निजी	शुष्क	70	कुमारास्वामी
					एम. चिक्कमादैय्या, पुत्र-मादैय्या होट्टमदा
	293	निजी	शुष्क	87	सिद्ध वगैरे 6 लोग
	292/B	निजी	शुष्क	135	सी. चंदैय्या, पुत्र-चंदा
	292/A/5	निजी	शुष्क	75	करुगा वगैरे 9 लोग नंजम्मा, पत्नी-गुणनंजा
	105/A	सरकारी	खराब	200	सरकारी सड़क
	221	सरकारी	खराब	230	पोरम्बोक

				125/A	सरकारी	खराब	50	पोरम्बोक
				126/A	निजी	शुष्क	1130	सड़क
				127/B	सरकारी	खराब	1290	पोरम्बोक
				220/B	निजी	शुष्क	70	दोड्डमरिदेवरु
				219/3	निजी	शुष्क	90	एम. गुरुस्वामी, पुत्र—महादेवप्पा
								एम. गुरुस्वामी, पुत्र—महादेवैय्या
				219/2	निजी	शुष्क	91	एम. सिद्धमल्लप्पा, पुत्र—महादेवैय्या
								एम. गुरुस्वामी, पुत्र—महादेवैय्या
								एम. बासवाराजू, पुत्र—महादेवैय्या
								एम. कुमारस्वामी, पुत्र—महादेवैय्या
								एम. प्रभुस्वामी, पुत्र—महादेवैय्या
				128	निजी / सरकारी	खराब	30	पोरम्बोक
								नंजैय्या, पुत्र—दासैय्या
								के. स्वामी, पुत्र—केम्पैय्या
								सकमारी, पुत्र—बूंदे सवुकैय्या
								एम. सिद्धमल्लप्पा, पुत्र—महादेवैय्या
								एम. शिवमल्लु, पुत्र— बी. मादशेटी
				134/A/4	निजी	शुष्क	400	वंकटनायक, पुत्र—रंगा
				134/A/3	निजी	शुष्क	280	मादम्मा, पत्नी—वेंकटरमणा महादेवनायक
				134/A/2	निजी	शुष्क	150	रंगम्मा, पत्नी—गविरंगैय्या
				134/A/1	निजी	शुष्क	75	महादेवस्वामी, पुत्र—नंजाशेटी
								शिवशंकर, पुत्र—नंजाशेटी
				213	निजी	शुष्क	318	टी. वीरैय्या, पुत्र—रुद्रदेवरु आर. महादेव, पुत्र—रुद्रदेवरु बासवाराजू, पुत्र—रुद्रदेवरु
				166	निजी	शुष्क	20	के. महादेवस्वामी, पुत्र—दिवंगत केम्पाशेटी धनगेरे
								सोमराजू उर्फ मंजुनाथ, पुत्र—दिवंगत केंदाशेटी
				151	सरकारी	खराब	1515	पोरम्बोक
				165/B	निजी	शुष्क	109	राघवेंद्र, पुत्र—सा. श्रीनिवासराव
				165/A	निजी	शुष्क	78	राघवेंद्र, पुत्र—श्रीनिवास अनंत पद्मनभ
				164/B	निजी	शुष्क	88	राघवेंद्र, पुत्र—श्रीनिवासराव अनंत पद्मनभ, पुत्र—श्रीनिवासराव
				164/A	निजी	एएलएन	257	इस्मत बानो, पत्नी—इरशाद पाशा
				163/3	निजी	शुष्क	104	इरशाद पाशा, पुत्र—अब्दुल समद
				163/2	निजी	शुष्क	104	इरशाद पाशा, पुत्र—अब्दुल समद
				163/1A	निजी	शुष्क	120	इरशाद पाशा, पुत्र—अब्दुल समद
				163/1B	निजी	शुष्क	124	एस. आर. संजीवरेड्डी, पुत्र—दिवंगत एम. रमैय्या रेड्डी सादरमंगला बैंगलोर

				162/B	निजी	शुष्क	164	एस. आर. संजीवरेड्डी, पुत्र—दिवंगत एम. रमैय्या रेड्डी सदरमंगला बैंगलोर आर. दिनेश गुप्ता, पुत्र—दिवंगत एस. रामशेट्टी कोल्लेगाल एस. आर. संजीवरेड्डी, पुत्र—दिवंगत एम. रमैय्या रेड्डी सदरमंगला बैंगलोर
				162/A3	निजी	शुष्क	112	महादेव, पुत्र—दिवंगत एस. मादशेट्टी
				162/A2	निजी	शुष्क	118	महादेव, पुत्र—दिवंगत एस. मादशेट्टी
				162/A1	निजी	शुष्क	129	केम्पैय्या, पुत्र—केम्पैय्या
				153/4	निजी	शुष्क	103	केम्पा, पुत्र—केम्पा
				153/3	निजी	शुष्क	125	सवुका, पुत्र—सवुका धनगेरे
				153/2	निजी	शुष्क	140	जे. गविरंगैय्या
				152	सरकारी	खराब	135	हल्ला पोरम्बोक
				141/1	निजी	शुष्क	30	चौडाशेट्टी, पुत्र—पुट्टशेट्टी
				142/2	निजी	शुष्क	100	गणेश, पुत्र—सी. पुट्टमादु गणेश, पुत्र—सी. पुट्टमादु
				142/3	निजी	शुष्क	30	गणेश, पुत्र—सी. पुट्टमादु—ऐलिनेटेड
				142/1	निजी	शुष्क	10	गणेश, पुत्र—सी. पुट्टमादु—ऐलिनेटेड
				142/4	निजी	शुष्क	100	सरोजम्मा सुरेश, पत्नी—सुरेश कोल्लेगाल
				143	निजी	शुष्क	185	सरोजम्मा, पत्नी—सुरेश कोल्लेगाल
				144/B/2	निजी	शुष्क	30	केम्पैय्या, पुत्र—मुट्टा
				144/B/1	निजी	शुष्क	30	पिल्लेसवुकन केम्पैय्या
				144/A/1	निजी	शुष्क	120	के. स्वामी, पुत्र—केम्पैय्या
				149/B	निजी	शुष्क	205	आर. गौरम्मा, पत्नी—टी. एस. शिवस्वामी
				149/A/4	निजी	शुष्क	60	शिवम्मा, पत्नी—दिवंगत डुडैय्या
				149/A/3	निजी	शुष्क	40	सी. प्रभा सुरेन्द्र, पत्नी—दिवंगत सुरेन्द्र कोल्लेगाल
				149/A/2	निजी	शुष्क	40	सी. प्रभा सुरेन्द्र, पत्नी—दिवंगत सुरेन्द्र कोल्लेगाल
				150	सरकारी	शुष्क	305	हल्लदा पोरम्बोक
			8. उगनिया	1/1	निजी	शुष्क	3800	पु. मल्लप्पा सत्तेगाल पी. देवेगौड़ा, पुत्र—पुट्टेगौड़ा एम्बा देवेगौड़ा
				1/2	निजी	शुष्क	360	के. चिक्कमयीगौड़ा, पुत्र—दिवंगत जो. केम्पेगौड़ा
			9. सत्तेगाला	1378	सरकारी	खराब	335	सरकारी खराब
				725	निजी	शुष्क	875	करुगैय्या, पुत्र—कैचैय्या चिक्कपुट्टैय्या, पुत्र—कैचरासैय्या वैकटैय्या, पुत्र—गिरियना दासैय्या चिक्करंगैय्या, पुत्र—गिरियना दासैय्या मरिया, पुत्र—गिरियना दासैय्या रचैय्या, पुत्र—नंजेदेवरा गुड्डैय्या चिक्करंगेगौड़ा, पुत्र—चिक्कलिंगेगौड़ा

						सिद्देगौडा, पुत्र-नंजेगौडा
						मंचम्मा, पत्नी-ऐलेरागी
						नंजैय्या
						नंजुदैय्या, पत्नी-ऐलेरागी
						मंचैय्या
						एम. महादेव, पुत्र-मंचैय्या
						मंचैय्या, पुत्र-मंचैय्या
						चिक्कमल्लैय्या, पुत्र-ऐलेरागी
						मंचैय्या
						मादम्मा, पत्नी-दिवंगत
						मुत्तैय्या अग्रहारा
						पुट्टैय्या, पुत्र-कंचैय्या
						अरसैय्या, पुत्र-मादैय्या
						पुट्टमादैय्या, पुत्र-मादैय्या
						कुल्लैय्या, पुत्र-मादैय्या
						चिक्कमादैय्या, पुत्र-मादैय्या
						अरसैय्या, पुत्र-मादैय्या
						पुट्टमादैय्या, पुत्र-मादैय्या
						सन्नैय्या, पुत्र-कंचरसैय्या
						करुगैय्या, पुत्र-कंचरसैय्या
						चिक्कपुट्टैय्या, पुत्र-कंचरसैय्या
						एस. सिद्दैय्या, पुत्र-सोसियाना
						नंजैय्या
						जयम्मा, पत्नी-कम्पेगौडा
						सी. भास्कर,
						पुत्र-चिन्नीमुट्टैय्या
						जयस्वामी, पुत्र-रंगैय्या
						सरकारी जायदाद खराब
						एम. मदेगौडा, पुत्र-मयिगौडा
						एच. आर. उपेन्द्र कुमार,
						पुत्र-दिवंगत एच. रंगैय्या
						चिन्नीमुत्ता
						अर्चकर शिवरुद्रप्पा,
						पुत्र-रुद्रप्पा
						आर. नागराजू, पुत्र-रुद्रप्पा
						वी. बासवाराजू, पुत्र-दिवंगत
						वीरभद्रप्पा
						वी. नागराजू, पुत्र-वीरप्पा
						एच. वीरप्पा, पुत्र-होसमेरवप्पा
						जे. वीरभद्रैय्या,
						पुत्र-गंगाधरैय्या
						लक्ष्मम्मा, पत्नी-शिवण्णा
						बासवाराजू, पुत्र-चिक्कवा
						एम्बा सिद्देगौडा
						शांताराजू
						जोगीसिद्दा, पुत्र-होष्टेसिद्दा
						के. नटराजू, पुत्र-दिवंगत
						कल्लरे
						मरिंजम्मा, पत्नी-दिवंगत
						एम. सिद्दैय्या
						कंचैय्या, पुत्र-सिद्दैय्या
						दोड्डकम्पैय्या
						डी. शिवशंकर, पुत्र-मनैय्यना
						दोड्डण्णा
						जवरैय्या, पुत्र-दिवंगत
						पुट्टमरमेस्त्री
						मल्लैय्या, पुत्र-कुंटसिद्दैय्या

					मारैय्या, पुत्र-कुंटसिदैय्या			
					केंचैय्या, पुत्र-कु. सिदैय्या			
				686	निजी	शुष्क	450	मुहुलिंगैय्या, पुत्र-पोनारीकेम्पैय्या
								जावरैय्या, पुत्र-दिवंगत पुट्टमारमेस्त्री
								जावरैय्या, पुत्र-दिवंगत पुट्टमारमेस्त्री
				681	निजी	शुष्क	3750	डुंडम्मा, पत्नी-दोड्डु केम्पैय्या
								केम्पैय्या, पुत्र-मुद्दलिंगैय्या
				1324	निजी	शुष्क	800	सी. जयशंकर, पुत्र-दिवंगत एम. चिक्कसिदैगौड़ा
								महादेवम्मा, पत्नी-डी. नंजुंदास्वामी
								सी. जयशंकर, पुत्र-दिवंगत एम. चिक्कसिदैगौड़ा
				680	निजी	शुष्क	2100	मोट्टनेकेम्पैय्या
								मुहुलिंगैय्या, पुत्र-मुहुलिंगैय्या
				679	निजी	शुष्क	1230	जोलनकेम्पैय्या
				678	निजी	शुष्क	325	जोगीसिदैय्या, पुत्र-कुंटजागैय्या
								जोलनकेम्पैय्या
				664	निजी	शुष्क	30	शिवनैय्या, पुत्र-दिवंगत लक्ष्मैय्या
								रमैय्या, पुत्र-शिवनैय्या
								एम. मल्लेशा, पुत्र-दिवंगत एस. मादैय्या
								बाकी भूमि आकारभंड के अनुसार
				682	निजी	शुष्क	590	मरिसिदैय्या, पुत्र-मरिसिदैय्या
								दोड्डुसिदैय्या
								केम्पम्मा
				सड़क-3	सरकारी	सड़क	8365	सरकारी जायदाद (सड़क)
				463	निजी	शुष्क	50	के. कृष्णगौड़ा उर्फ शिवण्णगौड़ा, पुत्र-दिवंगत जो केम्पेगौड़ा
								के. चिक्कमयीगौड़ा, पुत्र-दिवंगत को. केम्पेगौड़ा
								एस. एम. राजूगौड़ा, पुत्र-के. पी. मल्लेगौड़ा
				550	निजी	शुष्क	30	पी. सोमण्णा
								पी. कृष्णगौड़ा, पुत्र-दिवंगत पुट्टेगौड़ा
								पी. सोमण्णा, पुत्र-दिवंगत पुट्टेगौड़ा
								पी. कृष्णगौड़ा
				नाला-5	सरकारी	नाला	3120	सरकारी जायदाद (नाला)
				543	निजी	शुष्क	1830	चिक्किराशेट्टी, पुत्र-चिक्करशेट्टी
				540	निजी	शुष्क	685	देवेगौड़ा, पुत्र-केंचेगौड़ा
								शेखर गौड़ा, पुत्र-केंचेगौड़ा
								शिवप्पा, पुत्र-केंचेगौड़ा
								पुष्पा, पत्नी-डी. जयरामेगौड़ा
								डी. जयरामेगौड़ा, पुत्र-एम. दवेराजेगौड़ा
				537	निजी	शुष्क	2912	मंचेगौड़ा
								बासवेगौड़ा
								देवेगौड़ा, पुत्र-केंचेगौड़ा

					शेखर गौड़ा, पुत्र—केंचेगौड़ा शिवप्पा, पुत्र—केंचेगौड़ा पुष्पा, पत्नी—डी. जयरामेगौड़ा
					डी. जयरामेगौड़ा, पुत्र—एम. देवराजेगौड़ा पुष्पा, पत्नी—डी. जयरामेगौड़ा
					महादेवगौड़ा वी. गुरुस्वामी, पुत्र—दिवंगत जे. वीरेगौड़ा जे. मयिगौड़ा, पुत्र—वी. जवरायीगौड़ा काबिनी नाला चन्नम्मा, पत्नी—गुरुमादप्पा एवं जयशंकरस्वामी
					नागराजशेटी, पुत्र—गन्निलीशेटी एम. शिवरामेगौड़ा नंजाशेटी पुट्टस्वामीशेटी एम. शिवरामेगौड़ा, पुत्र—मेरदेगौड़ा नंजाशेटी
					एम. महादेवप्पा, पुत्र—निंगम्मा
					कंठराजेगौड़ा, पुत्र—मरल्लि पुट्टेगौड़ा महादेवेगौड़ा, पुत्र—मरल्लि पुट्टेगौड़ा राजेश, पुत्र—मरल्लि पुट्टेगौड़ा
					मरिस्वामीगौड़ा चिक्कमरिगौड़ा
					आरटीसी के अनुसार
					रेण्ड फैक्ट्री
					पी. सुब्रमण्यम, पुत्र—पलनीस्वामी
					देवेगौड़ा शम्भुगौड़ा, पुत्र—देवेगौड़ा
					बी. पुट्टस्वामीगौड़ा, पुत्र—बोम्मेगौड़ा
					कुन्नेगौड़ा, पुत्र—बोम्मेगौड़ा चन्नेगौड़ा, पुत्र—बोम्मेगौड़ा पुट्टमारा मेस्त्री पुत्र—पुट्टमारा मेस्त्री सरगूरु
					एस. चिक्कसिद्देगौड़ा, पुत्र—कुन्नेगौड़ा
					शिवोगीगौड़ा
					शिवोगीगौड़ा
					रमणपुट्टनायक
					सिद्दैय्या—मारम्मा आर. जनार्दन, पुत्र—वी. रंगनाद मोदलियार
					एल. केंचेगौड़ा, पुत्र—लिंगेगौड़ा
					एल. केंचेगौड़ा, पुत्र—लिंगेगौड़ा
					डी. नारायणस्वामी, पुत्र—दोड्डकेम्पैय्या
					चिक्कलिंगेगौड़ा, पुत्र—मदेगौड़ा मा. देवेगौड़ा मु. लिंगेगौड़ा दामाद “ई”

								सिद्देगौड़ा
				970	निजी	नमी	30	केम्पैय्या, पुत्र—मुद्दुलिंगैय्या
				976	निजी	नमी	2296	मयिगौड़ा, पुत्र—जवरेगौड़ा
				कावेरी नदी	सरकारी	कावेरी नदी	29590	केम्पैय्या, पुत्र—मुद्दुलिंगैय्या
2	मंड्या	1. मलवल्लि	1. बेलकवाडि	412/1	निजी	शुष्क / नमी	4800	कावेरी नदी
								कालाशेट्टी, पुत्र—कोडिहल्लि केम्पाशेट्टी
								कालाशेट्टी, पुत्र—दिवंगत कोडिहल्लि केम्पाशेट्टी
								रेवण्णा, पुत्र—दिवंगत कोडिहल्लि केम्पाशेट्टी
								केम्पाशेट्टी, पुत्र—दिवंगत कोडिहल्लि केम्पाशेट्टी
								चौदम्मा, पत्नी—दिवंगत सिद्दैय्या
								सिद्दाशेट्टी, पुत्र—दिवंगत सिद्दैय्या
				सड़क	सरकारी	सड़क	1205	सरकारी जायदाद (सड़क)
				414	निजी	शुष्क	2300	वी. लीलावती, पत्नी—वी. मरिस्वामी
				505	निजी / सरकारी	शुष्क	200	केम्पैय्या, पुत्र—कोलतुरु मुद्दैय्या
								सण्णैय्या, पुत्र—कोलतुरु मुद्दैय्या
								सरकारी
				427/2	निजी / सरकारी	शुष्क	530	सरकारी
				427/1	निजी	शुष्क	3288	रामेगौड़ा, पुत्र—अप्पाजी गौड़ा
				426/3	निजी	शुष्क	6850	एस. शिवकुमारास्वामी, पुत्र—दिवंगत एम. एस. सोमण्णा
				426/2	निजी	शुष्क	270	रामेगौड़ा, पुत्र—अप्पाजी गौड़ा
				425	निजी	शुष्क	4125	मुथती अंजनेयास्वामी इनाम मुथती श्री अंजनेयास्वामी
				सड़क-1	सरकारी	सड़क	355	सरकारी जायदाद (सड़क)
				422/2	निजी	शुष्क	1690	निंगम्मा, पत्नी—दिवंगत निंगैय्या
				423/2	निजी	शुष्क	2475	टी. आर. सुकुमार, पुत्र—दिवंगत रंगस्वामी
				423/1	निजी	शुष्क	6350	टी. आर. सुकुमार, पुत्र—दिवंगत रंगस्वामी
				421/1	निजी	शुष्क	275	एस. बी. गीता, पत्नी—एन. सतीश
				326	सरकारी	शुष्क	395	पुलिस स्टेशन (रोट्टी कट्टे)
				327	निजी	शुष्क	2950	शशिकला, पत्नी—नागराजू
				328/2	निजी	शुष्क	430	त्यागराजू, पुत्र—डी. मादशेट्टी
				328/1	निजी	शुष्क	150	यशोदम्मा, पत्नी—दिवंगत सिल्ले लिंगेगौड़ा
				सड़क-2	सरकारी	सड़क	95	सरकारी सड़क
				336	निजी	शुष्क	75	एच. सी. पिलप्पा, पुत्र—एच. एम. चिक्कण्णशेट्टी
				338/1	निजी	शुष्क	75	एच. रविशंकरा, पुत्र—एच. होन्नगंगप्पा
				338/2	निजी	शुष्क	40	एच. रविशंकरा, पुत्र—एच. होन्नगंगप्पा
			2. होसहल्लि	146	निजी	शुष्क	30	पुट्टमादशेट्टी, पुत्र—लिंगम्मा
				145/3	निजी	शुष्क	1095	शाजमणि भानु एम.एस., पत्नी—डॉ. मोहम्मद सैय्यद अहमद

				145/2	निजी	शुष्क	468	शाजमणि भानु एम.एस., पत्नी—डॉ. मोहम्मद सैय्यद अहमद के तरफ से GPA धारी सैय्यद शफि उल्ला, पुत्र—दिवंगत सैय्यद इब्राहिम
				124	निजी	शुष्क	5303	एम. नारायणभट्ट, पुत्र—एम. शंकर भट्ट एम. नारायणभट्ट, पुत्र—एम. शंकर भट्ट एच. एस. गुरुस्वामी, पुत्र—सिद्धाचारी रघुप्पाजी, पुत्र—दिवंगत सिद्धप्पाजी उर्फ रचाचारी डॉ. नारायण भट्ट, पुत्र—शंकर भट्ट नागराजू, पुत्र—दिवंगत बोरेगौडा
				112	निजी / सरकारी	शुष्क	4635	आर टी सी के अनुसार
				122	निजी	शुष्क	1530	डॉ. एम. नारायण भट्ट, पुत्र—शंकर भट्ट
				123	निजी	शुष्क	2017	हरीश पुनम, पुत्र—एस. नंजप्पा मल्लिकार्जुनैय्या, पुत्र—दूंडैय्या
				121	निजी	शुष्क	465	नागण्णा, पुत्र—चन्नाबासप्पान्ना सिद्धप्पा एच. एस. नागण्णा, अवयस्क अभिभावक माँ सिद्धलिंगम्मा अवयस्क अभिभावक माँ सिद्धलिंगम्मा, पत्नी—चन्नबासप्पना सिद्धप्पा महादेवप्पा, पुत्र—बोगप्पा दोड्डपुट्टैय्या, पुत्र—शिवनैय्या दैवैय्या, पुत्र—सिद्धप्पा नागम्मा, पत्नी—महादेवप्पा गौड़रु सिद्धप्पा, पुत्र—गौड़रु सन्नप्पा महादेवप्पा, पुत्र—बोगप्पा एच. एस. नागण्णा, पुत्र—अवयस्क अभिभावक माँ सिद्धलिंगम्मा सिद्धमल्लप्पा, पुत्र—सिद्धा
				120/2	निजी	शुष्क	725	दुन्दैय्या, पुत्र—दुन्दैय्या
				नाला	सरकारी	नाला	125	सरकारी नाला
				नाला-1	सरकारी	नाला	145	सरकारी जायदाद (नाला)
				50	निजी	शुष्क	580	सिद्धम्मा, पत्नी—मरनजैय्या शिवम्मा, पत्नी—दिवंगत सिद्धैय्या मंचैय्या, पुत्र—केम. निम. दुन्दैय्या मारम्मा, पत्नी— के. दुन्दना मरिमादैय्या मंचैय्या, पुत्र—केम. निम. दुन्दैय्या
				52/2	निजी	शुष्क	30	बाशा, पुत्र—इमाम साब मारम्मा, पत्नी—रचैय्या बाशा, पुत्र—इमाम साब
				52/1	निजी	शुष्क	150	पुट्टमादप्पा, पुत्र—मिशन बालप्पा पुट्टमादप्पा, पुत्र—मिशन

								बालप्पा
								पुट्टमादप्पा, पुत्र—मिशन बालप्पा
								भद्रप्पा, पुत्र—पुटप्पा
								पुट्टमादप्पा, पुत्र—मिशन बालप्पा
								पुट्टमादप्पा, पुत्र—मिशन बालप्पा
								पुट्टमादप्पा, पुत्र—बलप्पा
								रुद्रप्पा, पुत्र—सरगुरु सिद्धप्पा
								पुट्टमादप्पा, पुत्र—मिशन बालप्पा
								मरिस्वामी, पुत्र—मरिदेवरु
								एच. एम. महादेवप्पा, पुत्र—मल्लिकार्जुनैय्या
				सड़क	सरकारी	सड़क	70	सरकारी जायदाद (सड़क)
				53/1	निजी	शुष्क	55	आर टी सी के अनुसार
				53/2	निजी	शुष्क	50	आर टी सी के अनुसार
				54/1	निजी	शुष्क	30	चिक्कण्णा, पुत्र—दिवंगत मारैय्या
				55/1	निजी	शुष्क	55	मरिमादैय्या, पुत्र—कुरिनजैय्या
				नाला	सरकारी	नाला	115	सरकारी जायदाद (नाला)
				310/1	निजी	शुष्क	385	नंजुंदास्वामी, पुत्र—नंजुंडनमादप्पा रत्नम्मा, पत्नी—होसहल्लि भद्रप्पनपुट्टा रत्नम्मा, पत्नी—नंजुंडस्वामी नंजुंदास्वामी, पुत्र—मादप्पा
				310/2	निजी	शुष्क	204	रत्नम्मा, पत्नी—होसहल्लि भद्रप्पन पुट्टा महादेवैय्या, पुत्र—चिक्कमादेगौड़ा मंटेलिंगप्पा, पुत्र—सिद्धप्पा
				310/3	निजी	शुष्क	310	बी. आर. बसवण्णा, पुत्र—राचप्पा बी. आर. बसवण्णा, पुत्र—राचप्पा महादेवैय्या, पुत्र—चिक्कमादेगौड़ा बी. आर. बसवण्णा, पुत्र—राचप्पा
				310/4	निजी	शुष्क	225	मंटेलिंगप्पा, पुत्र—सिद्धप्पा राचप्पा, पुत्र—सिद्धप्पा
				314	निजी	शुष्क	195	जी. महादेव, पुत्र—गुरुमल्लप्पा महालिंगप्पा उर्फ सण्णप्पा, पुत्र—चिक्कम्पेलिंगप्पा एच. जी. विशाकांतामूर्ति, पुत्र—गुरुमल्लप्पा सिद्धप्पा, पुत्र—चिक्कम्पेलिंगप्पा कम्पण्णा, पुत्र—चिक्कम्पेलिंगप्पा एच. एम. शिवमूर्ति, पुत्र—एच. एन. महादेवप्पा एच. एम. महादेवप्पा, पुत्र—एच. एन. महादेवप्पा नागम्मा, पुत्री—एच. एन. महादेवप्पा महादेवम्मा, पुत्री—एच. एन.

					महादेवप्पा एच. एन. महादेवप्पा, पुत्र-चिक्ककैम्पि एम. महालिंगप्पा, पुत्र-एच. एन. महादेवप्पा
313	निजी	शुष्क	360	सी. एम. जी. सुब्बण्णा	
				जयम्मा, पुत्रि-बाचनहल्लि महादेवप्पा ना परिवार	
				जयम्मा, पत्नी-महादेवप्पा	
				पुट्टसुब्बेगौडा	
				पापण्ण पुत्र-देवराजप्पा	
				गौरम्मा, पत्नी-लिंगप्पाना महादेवप्पा	
				डी. शिवलिंगास्वामी, पुत्र-दवेराजप्पा	
				मंजुनाथ, पुत्र-महादेवप्पा	
				जयम्मा, पत्नी-महादेवप्पा	
	294/2	निजी	शुष्क	80	बी. लिंगेगौडा, पुत्र-बोरलिंगेगौडा
	294/1C	निजी	शुष्क	50	शंकर, पुत्र-चिक्केगौडा
	294/1B	निजी	शुष्क	60	चिक्केगौडा, पुत्र-दोड्डुम्मैय्या
	294/1A	निजी	शुष्क	200	पदमम्मा, पत्नी-बैराशेट्टी
293	सरकारी	खराब	165	बीलू	
291	निजी	शुष्क	21	बी. सी. चंद्रशेखरप्पा, पुत्र-चिक्कमादप्पा	
				बी. सी. चंद्रशेखरप्पा, पुत्र-चिक्कमादप्पा	
				एच. एम. पुट्टस्वामी, पुत्र-एच. एम. महादेवप्पा	
				बी. सी. चंद्रशेखरप्पा, पुत्र-चिक्कमादप्पा	
296/3	निजी	शुष्क	150	सिद्धलिंगप्पा उर्फ मरिदेवरु, पुत्र-डी. मरिदेवरु	
				पदमम्मा, पत्नी-बैराशेट्टी	
				पदमम्मा, पत्नी-बैराशेट्टी	
				पदमम्मा, पत्नी-बैराशेट्टी	
				पदमम्मा, पत्नी-बैराशेट्टी	
3. दासनदोड्डि	93/2	निजी	शुष्क / बागीचा	300	दोड्डुनडकरिगौडा, पुत्र-दोड्डुतिम्मेगौडा
	93/3	निजी	शुष्क	170	एच. स्वामी, पुत्र-होम्बालेगौडा होम्बालेगौडा उर्फ पापण्णा, पुत्र-होम्बालेगौडा
	94/2	निजी	शुष्क	60	एच. सिद्देगौडा, पुत्र-होम्बालेगौडा
	94/1	निजी / सरकारी	शुष्क	314	एच. सिद्देगौडा, पुत्र-होम्बालेगौडा
					एच. के. केम्पेगौडा, पुत्र-केम्पेगौडा
					सरकारी एच. स्वामी, पुत्र-होम्बालेगौडा
	92/3	निजी	शुष्क	130	नडकरिगौडा, पुत्र-होम्बालेगौडा
	92/2	निजी	शुष्क	300	नडकरिगौडा, पुत्र-होम्बालेगौडा
					नडकरिगौडा, पुत्र-दिवंगत होलेगौडा
92/1	निजी	शुष्क	430	होम्बालेगौडा उर्फ पापण्णा, पुत्र-होम्बालेगौडा मंचम्मा, पत्नी-तिम्मेगौडा	

				96/2	निजी	शुष्क	190	तिम्मैय्या, पुत्र-चिक्कतिम्मैय्या
				सड़क	सरकारी	सड़क	1015	सरकारी जायदाद (सड़क)
				नाला	सरकारी	नाला	55	सरकारी जायदाद (नाला)
				नाला.1	सरकारी	नाला	210	सरकारी जायदाद (नाला)
				187/1	निजी	शुष्क	120	चौडम्मा, पत्नी-बोरेगौड़ा
				188/4	निजी	शुष्क	220	सुरेश, पुत्र-दिवंगत निंगेगौड़ा नारायणा, पुत्र-मुतेगौड़ा
				188/3	निजी	शुष्क	150	प्रकाश, पुत्र-दिवंगत बोरेय्या
				188/2	निजी	शुष्क	35	राम प्रसाद, पुत्र-केम्पेगौड़ा डी. के. शंकरगौड़ा, पुत्र-केम्पेगौड़ा
				188/1	निजी	शुष्क	376	के. नारायणास्वामी, पुत्र-केम्पेगौड़ा उर्फ मोटेगौड़ा
				नाला.2	सरकारी	नाला	30	सरकारी जायदाद (नाला)
				1	निजी / सरकारी	शुष्क	400	सरकारी मरियप्पा, पुत्र-दिवंगत पा. मरिगौड़ा महादेवैय्या, पुत्र-मरिगौड़ा महादेवैय्या, पुत्र-मरिगौड़ा सरकारी चिक्कम्मा, पत्नी-दोड्डैय्या बोरेगौड़ा, पुत्र-बोरगौड़ा उर्फ मोटेगौड़ा चिक्कवानु, पुत्र-बोरगौड़ा उर्फ मोटेगौड़ा चिक्कम्मा, पत्नी-दोड्डैय्या केम्पैय्या, पुत्र-दोड्डसिदैय्या लिंगैय्या, पुत्र-डोल्लेगौड़ा एम. बोरेय्या उर्फ कृष्णा, पुत्र-दिवंगत मरलिगैय्या पुट्टैय्या, पुत्र-दिवंगत जवरायीगौड़ा शुक्कुर साब, पुत्र-अमदेबेग उर्फ ताल साब कासिम बेग, पुत्र-अमदेबेग उर्फ ताल साब कासिम बेग पुत्र-अहमद बेग सन्नेगौड़ा, पुत्र-चिक्केगौड़ा सरकारी इन्द्रम्मा, पत्नी-टी. नारायणा होन्नगिरि उर्फ सन्नैय्या, पुत्र-तिम्मैगौड़ा डी. सी. तिम्मैगौड़ा, पुत्र- चिक्कवैकटेगौड़ा बी. प्रभुलिगैगौड़ा, पुत्र-बोरेगौड़ा
				2/1C	सरकारी	शुष्क	45	सरकारी
				सड़क-1	सरकारी	सड़क	30	सरकारी जायदाद (सड़क)
				नाला-3	सरकारी	नाला	45	सरकारी जायदाद (नाला)
				63/2G	निजी	शुष्क	120	जवरायीगौड़ा उर्फ करियप्पा
				63/2B	निजी	शुष्क	160	के. कृष्णाप्पा, पुत्र-दिवंगत केम्पेगौड़ा
				63/2A	निजी	शुष्क	160	आर टी सी के अनुसार
				63/1	निजी	शुष्क	215	कुन्नेगौड़ा, पुत्र-मुगेगौड़ा
				सड़क	सरकारी	सड़क	50	सरकारी जायदाद (सड़क)
				सड़क-1	सरकारी	सड़क	40	सरकारी जायदाद (सड़क)
				4. पंडितहल्लि				

				83/3A	निजी	शुष्क	55	मादेगौड़ा, पुत्र-बोम्मेगौड़ा
				83/3B	निजी	शुष्क	60	नंजेगौड़ा क्यातनहल्लि मंतैय्या, पुत्र-मल्ल मंतैय्या
				83/3C	निजी	शुष्क	50	सुब्बम्मा, पत्नी-श्रीकांतचारी
				83/2	निजी	शुष्क	65	वेंकटैय्या
				83/1	निजी	शुष्क	185	गौरम्मा, पत्नी-सिद्धलिंगाशेट्टी चौदम्मा, पत्नी-मुद्दावीराशेट्टी
				सड़क-2	सरकारी	सड़क	95	सरकारी जायदाद (सड़क)
				37	निजी	शुष्क / बागीचा	30	शशियप्पा, पुत्र-पुट्टमादप्पा पी. एम. महादेवास्वामी, पुत्र-दिवंगत मादप्पा लिंगप्पा, पुत्र-शशियप्पा शशियप्पा, पुत्र-लिंगप्पा उर्फ होट्टप्पा महादेवप्पा, पुत्र-देवप्पा शशियप्पा, पुत्र-पुट्टमादप्पा
				सड़क-3	सरकारी	शुष्क	30	सरकारी जायदाद (सड़क)
				सड़क-4	सरकारी	शुष्क	95	सरकारी जायदाद (सड़क)
				सड़क-5	सरकारी	शुष्क	135	सरकारी जायदाद (सड़क)
			5. बच्चनहल्लि	234/3	निजी	शुष्क	320	कत्तेहोंगैय्या
				234/1	निजी	शुष्क	190	महादेवैय्या, पुत्र-लिंगैय्या महादेवैय्या, पुत्र-लिंगैय्या महादेवैय्या, पुत्र-लिंगैय्या
				242/1A/1a	निजी	शुष्क	240	आर टी सी के अनुसार
				279/7	निजी	शुष्क	70	लिंगैय्या, पुत्र-देवीरम्मा
				279/6	निजी	शुष्क	70	सुब्बप्पा, पुत्र-बलप्पा
				279/5	निजी	शुष्क	90	लिंगैय्या, पुत्र-उदरत्ता लिंगप्पा
				279/4	निजी	शुष्क	39	पुट्टलिंगम्मा
				279/3	निजी	शुष्क	56	मरिमादैय्या, पुत्र-चिक्कबासप्पा
				279/1	निजी	शुष्क	310	लिंगप्पा के., पुत्र-कालप्पा
				सड़क	सरकारी	सड़क	95	सरकारी जायदाद (सड़क)
				12	सरकारी	खराब	180	सरकारी ग्रेव यार्ड
				11/1.	निजी	शुष्क	260	मरिस्वामी, पुत्र-दिवंगत मल्लैय्या उर्फ कुल्लैय्या देवप्पा, पुत्र-दिवंगत मल्लैय्या उर्फ कुल्लैय्या
				नाला	सरकारी	नाला	90	सरकारी जायदाद (नाला)
				नाला-1	सरकारी	नाला	70	सरकारी जायदाद (नाला)
				101	निजी / सरकारी	शुष्क	168	मुस्लिम ग्रेव यार्ड
				100/3	निजी	शुष्क	120	बासवाराजू, पुत्र-दिवंगत नंजुदैय्या बी. एन. नागराजू, पुत्र-दिवंगत नंजुदैय्या बी. एन. शेखर, पुत्र-दिवंगत नंजुदैय्या
				99	निजी	शुष्क	340	बासवाराजप्पा, पुत्र-चन्नप्पा बासवाराजू, पुत्र-चन्नप्पा
				42/1	निजी	शुष्क	288	मरिस्वामी, पुत्र-दिवंगत मल्लैय्या उर्फ कुल्लैय्या देवप्पा, पुत्र-दिवंगत मल्लैय्या उर्फ कुल्लैय्या बलप्पा, पुत्र-दिवंगत मल्लैय्या उर्फ कुल्लैय्या महादेवम्मा, पत्नी-मल्लप्पा

				44/2	निजी	शुष्क	192	बासवण्णा, पुत्र—सिद्धप्पा मंटेलिंगप्पा, पुत्र—सिद्धप्पा
				94/2	निजी	शुष्क	120	मीर मुजाहिद बेग, पुत्र—दस्तगीर बेग
				94/1	निजी	शुष्क	30	वजीर साब, पुत्र—बकर साब
				93	सरकारी	खराब	170	सरकारी पत्थर
				92/2	निजी	शुष्क	160	वजीर साब, पुत्र—बकर साब
				92/1	निजी	शुष्क	120	बी. महादेवा, पुत्र—बासवेगौड़ा बी. एम. जयण्णा, पुत्र—कुल्लमादेगौड़ा बी. महादेवा, पुत्र—बासवेगौड़ा बी. एम. जयण्णा, पुत्र—कुल्लमादेगौड़ा
				91/4	निजी	शुष्क	148	बी. एस. मंजुनाथ बी. एस. शिवशंकर माँ सनम्मा
				91/1	निजी	शुष्क	160	केम्पम्मा, पुत्री—सुब्बेगौड़ा नंजम्मा, पुत्री—दिवंगत सुब्बेगौड़ा
				82	निजी / सरकारी	खराब	336	सन्नमादम्मा, पत्नी—दिवंगत बी. के. मादेगौड़ा मादेगौड़ा, पुत्र—चिक्कमादेगौड़ा
			6. मारेहल्लि	705	निजी	शुष्क	1265	एम. एस. भुजंगैय्या, पुत्र—सिद्देगौड़ा निंगम्मा, पत्नी—देवैय्या एम. एस. रंजन, पुत्र—श्रीकांतगौड़ा एम. बी. मुथैय्या, पुत्र—मादेगौड़ा एम. बी. मुथैय्या, पुत्र—मादेगौड़ा
				सड़क.3	सरकारी	सड़क	35	सरकारी जायदाद (सड़क)
				688/1A1	निजी	शुष्क	415	एम. एन. नागलक्ष्मी, पत्नी— सी. एम. शिवकुमार एच. पी. जयरत्ना, पत्नी—दिवंगत एम. नंजेगौड़ा प्रथम सरोजम्मा, पुत्री—मंचेगौड़रू दूसरी पत्नी दूसरी निंगम्मा, पुत्री—गौरम्मा चिक्कबासवेगौड़ा, पुत्र—कुन्नाबासवेगौड़ा मल्लैय्या, पुत्र—कसलगेरे सिद्दैय्या नागण्णा, पुत्र—चेन्नैय्या शिवण्णा, पुत्र—चेन्नैय्या सी. पुट्टास्वामी, पुत्र—चेन्नैय्या
				688/1A2	निजी	शुष्क	75	सरोजम्मा, पत्नी— एच. सैमसन
				688/1B	निजी	शुष्क	80	मने जागा
				688/2	निजी	शुष्क	45	नागण्णा, पुत्र—केम्पैय्या पार्वतम्मा, पत्नी—दिवंगत सिद्देगौड़ा केम्पैय्या, पुत्र—केम्पैय्या मरिगौड़ा, पुत्र—केम्पैय्या शांताराजू, पुत्र—मुद्दैय्या पार्वतम्मा, पत्नी—दिवंगत सिद्देगौड़ा भाग्यम्मा, पत्नी—चौदैय्या

					सोमसुन्दर, पुत्र—चिक्कमल्लैय्या ग्रेस मेरिना, पत्नी—जयराजू मरिस्वामी, पुत्र—केम्पैय्या केम्पैय्या, पुत्र—केम्पैय्या नागण्णा, पुत्र—केम्पैय्या देवेगौड़ा, पुत्र—सिद्देगौड़ा देवेगौड़ा, पुत्र—दिवंगत सिद्देगौड़ा जी. मरिस्वामी, पुत्र—गोलैय्या बी. सी. बासवाराजू, पुत्र— बासवेगौड़ा पार्वतम्मा, पत्नी—दिवंगत सिद्देगौड़ा बी. सी. बासवाराजू, पुत्र—बासवेगौड़ा के. नेत्रा अवयस्क अभिभावक पिता केम्पैय्या जी. के. किरण कुमार, अवयस्क अभिभावक माँ सरोजम्मा मरिगौड़ा, पुत्र—केम्पैय्या केम्पैय्या, पुत्र—केम्पैय्या मरिगौड़ा, पुत्र—केम्पैय्या
	687	निजी	शुष्क	30	कादिसिद्दैय्या, पुत्र—सुब्बैय्या कुमार, पुत्र—महादेव नायक देवराजू, पुत्र—कालैय्या डी. देवराजू, पुत्र—डोमबलेगौड़ा चन्नाकैय्या, पुत्र—सुब्बैय्या होवम्मना चन्नैय्या, पुत्र—चन्नैय्या सोमसुन्दरा, पुत्र—चिक्कमल्लैय्या बासवाराजम्मा, पत्नी—शिवमलप्पा कादिसिद्दैय्या, पुत्र—सुब्बैय्या देवराजू, पुत्र—कालैय्या बासवाराजू, पुत्र—मल्लेगौड़ा एन. राजेश, पुत्र—पापण्णा रमेश, पुत्र—दिवंगत करियप्पा ई. ए. ओवरटन, पत्नी—दिवंगत बी. जे. ओवरटन विशकांता, पुत्र—महादेवू सिद्दलिंगेगौड़ा, पुत्र—केम्पेगौड़ा मरिगौड़ा जी. रवि, पुत्र—गिरैय्या जी. रवि, पुत्र—गिरैय्या
	686	निजी	शुष्क	200	
	685	निजी	शुष्क	480	ई. ए. ओवरटन, पत्नी—दिवंगत बी. जे. ओवरटन एम.वी. वेंकटप्पा, पुत्र—के. वी. वेंकटप्पा श्रीमति गौरम्मा एम. वी. वेंकटप्पा सर्विस ट्रस्ट सचिव बी. ए. मोहन के पक्ष में

				स्टुवार्ड एशोसिएशन इन इंडिया
				ई. ए. ओवरटन, पत्नी—दिवंगत बी. जे. ओवरटन
684	निजी	शुष्क	545	अमर राम, पुत्र—दीराराम लालाराम उर्फ लालचंद, पुत्र—दीराराम
				अमर राम, पुत्र—दीराराम लालाराम उर्फ लालचंद, पुत्र—दीराराम
683/1	निजी	शुष्क	60	मैय्यम्मा, पत्नी—दिवंगत मायाशेटी
683/4	निजी	शुष्क	85	मीर अब्जल, पुत्र—मीर बहादुर
683/5	निजी	शुष्क	50	के. एच. होन्नगिरिगौड़ा, पुत्र—होन्नगिरिगौड़ा
सड़क.2	सरकारी	सड़क	425	सरकारी जायदाद (सड़क)
681	निजी	शुष्क	360	सुब्बैय्या, पुत्र—कडिसिदैय्या
				एम. वी. वेंकटप्पा, पुत्र—के. वी. वेंकटप्पा
				आर. सुन्दर, पुत्र—रंगैय्या
नाला.2	सरकारी	नाला	90	सरकारी जायदाद (नाला)
302	निजी	नमी	50	एच. कल्लिशेटी, पुत्र—होमबलाशेटी
301	निजी	नमी	30	शिवम्मा, पुत्री—होन्नम्मा उर्फ यशोदाम्मा
				शिवम्मा, पुत्री—श्रीनिवासा
				होन्नम्मा उर्फ यशोदाम्मा, पत्नी—केम्पैय्या
300	निजी	नमी	305	एच. कल्लाशेटी, पुत्र—बोमबलशेटी
				कल्लाशेटी, पुत्र—कल्लाशेटी
299	निजी	नमी	35	एम. वी. मुथैय्या, पुत्र—मादेगौड़ा
				एम. वी. मुथैय्या, पुत्र—एम. बी. वेंकटप्पा
				अंजनेया, पुत्र—नंजप्पा
				एम. वी. मुथैय्या, पुत्र—वेंकटप्पा
298	निजी	नमी	90	अंजनेया, पुत्र—नंजप्पा
				एम. वी. मुथैय्या, पुत्र—एम. बी. वेंकटप्पा
				वेंकटम्मा, पत्नी—एम. बी. वेंकटप्पा
				एम. आर. सरवेशा, पुत्र—एच. राचैय्या
297	निजी	नमी	220	गौरम्मा, पत्नी—मादेगौड़ा
				सुब्बम्मा, पत्नी—कृष्णैय्या
नाला	सरकारी	नाला	80	सरकारी जायदाद (नाला)
नाला-1	सरकारी	नाला	210	सरकारी जायदाद (नाला)
सड़क	सरकारी	सड़क	115	सरकारी जायदाद (सड़क)
262/2	निजी	नमी	300	चिक्कमरी, पुत्र—मरिगौड़ा
				सिद्दलिंगेगौड़ा, पुत्र—कुक्कमरिगौड़ा
				सिद्दलिंगेगौड़ा, पुत्र—कुक्कमरिगौड़ा
262/1	निजी	नमी	175	चिक्कमरी, पुत्र—मरिगौड़ा
				सिद्देगौड़ा, पुत्र—जवरायीगौड़ा
259/1	निजी	नमी	50	बेट्टदारंगम्मा, पत्नी—ट्री.

				मलैय्या
				एम. के. शेशण्णा
				एम. वैदयप्पा, पुत्र—एम. मादैय्या
				एम. वैदयप्पा, पुत्र—एम. मादैय्या
				एम. महादेवैय्या, पुत्र—दिवंगत एम. मादैय्या
				एल. वैदयप्पा, पुत्र—दिवंगत एम. मादैय्या
				मलेयप्पा
				मादेवम्मा
				गंगाधरा
				एम. महादेवैय्या, पुत्र—एम. मादैय्या
				गंगाधरा, पुत्र—मल्लैय्या
				एम. सी. जगदीश, पुत्र—मल्लैय्या
				पुट्टनंजम्मा, पत्नी—एम. सी. जगदीश
				एल. गुंडैय्या, पुत्र—मादैय्या
				एल. गुंडैय्या, पुत्र—शिवनसमुद्रद लिंगैय्या
206	सरकारी	खराब	475	गुण्डुतोपू
184	निजी	नमी	865	मरिचिकैय्या, पुत्र—दिवंगत हुचेगौड़ा
				मादेगौड़ा, पुत्र—दिवंगत हुचेगौड़ा
				होमबलम्मा, पत्नी—वेंकटगौड़ा उर्फ कल्लुवेंकटगौड़ा
89/1	निजी	शुष्क	340	आर टी सी के अनुसार
89/2	निजी	शुष्क	50	आर टी सी के अनुसार
88	सरकारी	खराब	550	सरकारी देवस्थान बोम्मदेवरू
86	निजी	नमी	70	एम. ए. चिक्कराजू, पुत्र—अन्नेगौड़ा
85/1A	निजी	नमी	405	आर टी सी के अनुसार
84	निजी	शुष्क	75	एम. ए. चिक्कराजू, पुत्र—अन्नेगौड़ा
81/2	निजी	नमी	280	एम. सी. पूर्णकांति, पत्नी—एम. बी. राजू
81/1	निजी	नमी	200	एम. सी. पूर्णकांति, पत्नी—एम. बी. राजू
80	निजी	नमी	200	महादेवा, पुत्र—मादैय्या उर्फ तिप्पूरैय्या
				नागण्णा, पुत्र—मादैय्या उर्फ तिप्पूरैय्या
78/2	निजी	नमी	50	जयम्मा, पत्नी—दिवंगत सुब्बाशेट्टी
				नागराजू, पुत्र—सुब्बाशेट्टी
				पाप्पण्णा, पुत्र—सुब्बाशेट्टी
				चिक्कपाप्पण्णा, पुत्र—सुब्बाशेट्टी
76	निजी	नमी	100	एम. एस. नागराजू, पुत्र—सुब्बाशेट्टी
75	सरकारी	खराब	300	सरकारी देवस्थान अमृतेश्वरास्वामी देवरू
67	निजी	नमी	500	मल्लैय्या, पुत्र—सिदैय्या
				नागण्णा, चन्नैय्या
				नागण्णा, चन्नैय्या
सड़क-1	सरकारी	शुष्क	30	सरकारी जायदाद (सड़क)

				8/4.	निजी	शुष्क	350	आनंदस्वामी, पत्नी-चन्नैय्या नागण्णा, पुत्र-चन्नैय्या
				8/3.	निजी / सरकारी	शुष्क	290	कै. कालैय्या, पुत्र-दिवंगत चन्नैय्या नागण्णा, पुत्र-चन्नैय्या
				6/3A.	निजी	शुष्क	510	आर टी सी के अनुसार
				6/2.	निजी	शुष्क	315	कडिसिदैय्या, पुत्र-सुब्बैय्या
				6/1.	निजी	शुष्क	215	एम. एस. सुब्रमण्य, पुत्र-रमैय्या
				1/1	निजी	शुष्क	205	ई. ए. ओवरटन, पत्नी-दिवंगत बी. जे. ओवरटन
				1/2	निजी	शुष्क	50	सुधा, पत्नी-विश्वनाथ
				1/3	निजी	शुष्क	300	संदलि अरना वल्द, पुत्र-डी. सी. जेकब ग्रेस विक्टोरिया उर्फ देवरत्ना
			7. निडघटा	नाला	सरकारी	नाला	355	सरकारी जायदाद (नाला)
				251/3	निजी	बागीचा	114	देवम्मा, पत्नी-पुट्टास्वामी अंधनीगौड़ा, पुत्र-चिक्कबोरेगौड़ा सिंगरीगौड़ा, पुत्र-चलुवेगौड़ा तिम्मैगौड़ा, पुत्र-ईरेगौड़ा महादेवम्मा, पत्नी-सरेशा एच. महादेशा, पुत्र-हनुमैय्या
				251/1C	निजी	शुष्क	85	आर टी सी के अनुसार
				252	निजी	शुष्क	305	एम. वी. सुब्रमणियम एम. एस. मल्लैय्या, पुत्र-सिद्देगौड़ा उर्फ कुल्लमरिगौड़ा मादैय्या, पुत्र-सिद्देगौड़ा उर्फ कुला कै. मल्लैय्या, पुत्र-सिद्देगौड़ा उर्फ कुल्लमरिगौड़ा चन्नैगौड़ा, पुत्र-सोमैगौड़ा सोमैगौड़ा, पुत्र-मुद्देगौड़ा उर्फ करियप्पा सुरेश, पुत्र-होन्नगिरिगौड़ा मुत्थैगौड़ा, पुत्र-करगुडेगौड़ा एम. वी. सुब्रमणियम लिंगराजेगौड़ा, पुत्र-सिद्देय्या श्रीनिवास, पुत्र-वेंकटैगौड़ा अनिल कुमार मनु कुमार अवयस्क अभिभावक माँ नागम्मा मंजुनाथ, पुत्र-दिवंगत तिम्मैगौड़ा लिंगम्मा-को श्रीकांतैगौड़ा तिम्मैगौड़ा, पुत्र-कुंडी होन्नेगौड़ा शिवराजू अवयस्क अभिभावक माँ सुशीलाम्मा चन्नैगौड़ा, पुत्र-लिंगैगौड़ा पुट्टमस्तु, पुत्र-अंगाडी केम्पैय्या बासवाराजू, पुत्र-चिक्ककेम्पैय्या मरिदासैय्या, पुत्र-तिरुमलैय्या

				चिक्कवानु, पुत्र—उम्मतोरैय्या एच. श्रीनिवास, पुत्र—उंतूरैय्या
239/3	निजी	बागीचा	69	लिंगराजगौड़ा, पुत्र—सिदैय्या सिदैगौड़ा उर्फ सिदैगौड़ा चेन्नम्मा, पुत्र—चेन्नगौड़ा
238/2	निजी	शुष्क	46	सुरेशा, पुत्र—होन्नगिरिगौड़ा चन्नेगौड़ा, पुत्र—सिदैगौड़ा
237/3	निजी	शुष्क	88	चन्नेगौड़ा, पुत्र—सिदैगौड़ा चन्नेगौड़ा, पुत्र—सिदैगौड़ा चन्नेगौड़ा, पुत्र—सिदैगौड़ा
237/2	निजी	शुष्क	231	गविगौड़ा, पुत्र—मुत्तेगौड़ा उर्फ होटेकनेगौड़ा
220/7	निजी	बागीचा	184	वेंकटगौड़ा, पुत्र—कुडी होन्नेगौड़ा नागम्मा, पत्नी—के. एल. बासवाराजू
220/3	निजी	शुष्क	116	के. एस. सिद्धराजू, पुत्र—दिवंगत सिदैगौड़ा उर्फ करियप्पा
220/6A	निजी	शुष्क	118	होन्नेगौड़ा, पुत्र—होन्नगिरिगौड़ा
220/5	निजी / सरकारी	शुष्क	250	गविगौड़ा, पुत्र—मुत्तेगौड़ा उर्फ होटेकनेगौड़ा
218	निजी	नमी	180	निंगेगौड़ा, पुत्र—सोमीचलुवना केम्पेगौड़ा चलुवेगौड़ा, पुत्र—सोमीचलुवना केम्पेगौड़ा देवेगौड़ा, पुत्र—सोमीचलुवना केम्पेगौड़ा
सड़क-1	सरकारी	सड़क	125	सरकारी जायदाद (सड़क)
205/2	निजी	शुष्क	248	आर टी सी के अनुसार
204/2	निजी	शुष्क	312	पुट्टनंजम्मा, पत्नी—कादैय्या
203/3	निजी	नमी	148	शांतम्मा, पत्नी—दिवंगत सी. एम. चिक्कलिंगैय्या चिक्कमादैय्या, पुत्र—मंचेगौड़ा पुट्टनंजम्मा, पत्नी—कादैय्या चिक्कमादैय्या, पुत्र—मंचेगौड़ा बाट्टम्मा, पत्नी—कुन्नेगौड़ा
203/2	निजी	नमी	129	चन्नेगौड़ा उर्फ दोडुवानु पुत्र—चन्नेगौड़ा चन्नेगौड़ा उर्फ दोडुवानु, पुत्र—चन्नेगौड़ा मरिलिंगेगौड़ा, पुत्र—लिंगेगौड़ा
200	निजी	नमी	92	देवम्मा उर्फ कुट्टम्मा, पत्नी—चन्नेगौड़ा चन्नेगौड़ा, पुत्र—मरिमुहना लिंगेगौड़ा
199/1B	निजी	शुष्क	105	तिम्मैय्या, पुत्र—मस्तीपुट्टेगौड़ा
199/2C1	निजी	शुष्क	51	आर टी सी के अनुसार
199/2C2	निजी	शुष्क	87	चन्नबासवैय्या, पुत्र—बासेवेगाड़ा
253/1	निजी	शुष्क	200	तिम्मैय्या, पुत्र—मेलैय्या
253/2A1B	निजी	शुष्क	75	आर टी सी के अनुसार
253/2A1A	निजी	शुष्क	305	हनुमेगौड़ा लिंगेगौड़ा, पुत्र—लिंगेगौड़ा नंजुदैय्या, पुत्र—नंजैय्या
253/2B	निजी	शुष्क	50	हनुमेगौड़ा

				253/3A1A	निजी	शुष्क	325	आर टी सी के अनुसार
				253/3A1B	निजी	शुष्क	50	आर टी सी के अनुसार
				253/3A1C	निजी	शुष्क	50	आर टी सी के अनुसार
				253/3A2	निजी	शुष्क	50	आर टी सी के अनुसार
				255/1	निजी	शुष्क	390	तिम्मेगौड़ा उर्फ करियप्पा, पुत्र-गिरिगम्मा तिम्मम्मा, पत्नी-चन्नेगौड़ा तिम्मेगौड़ा उर्फ तिम्मेगौड़ा गौरम्मा, पत्नी-मुत्तेगौड़ा उर्फ वेंकटगिरिगौड़ा तिम्मेगौड़ा, पुत्र-तिम्मेगौड़ा कै.एच. श्रीनिवास, पुत्र-होन्नगिरिगौड़ा
				257	सरकारी	खराब	150	क्यातेगौड़नदाड़ी लोगों का ग्रेव यार्ड
				261	निजी	शुष्क	350	एम. पी. चन्नैय्या, पुत्र-दिवंगत दोड्डुपुट्टेगौड़ा संदरम्मा, पत्नी-मरिस्वामी संदरम्मा, पत्नी-मरिस्वामी संदरम्मा, पत्नी-मरिस्वामी मरिस्वामी, पुत्र-चन्नेगौड़ा मरिस्वामी, पुत्र-चन्नेगौड़ा
				263/1	निजी	शुष्क	200	श्रीनिवास, पुत्र-तिम्मेगौड़ा उर्फ करियप्पा
				264	निजी / सरकारी	शुष्क	990	हालु उत्पाडकार सहकार संघ क्यातेगौड़न दोड़ी होन्नेगौड़ा, पुत्र-चिक्कुन्नेगौड़ा सिहैय्या, पुत्र-सिहैगौड़ा नीलीदासेगौड़ा, पुत्र-नीलीदासेगौड़ा होन्नगिरिगौड़ा, पुत्र-मुत्तेगौड़ा डी. लालचंद उर्फ लालाराम, पुत्र-धीराराम
				189/1A	निजी	शुष्क	75	हनुमेगौड़ा एम.टी., पुत्र-तिब्बेगौड़ा हनुमेगौड़ा एम.टी., पुत्र-तिब्बेगौड़ा
				189/2	निजी	शुष्क	75	हनुमेगौड़ा एम.टी., पुत्र-तिब्बेगौड़ा
				189/3	निजी	शुष्क	75	मादैय्या, पुत्र-केम्पनकैय्या
				189/4	निजी	शुष्क	75	सिहम्मा, पत्नी-दिवंगत मादैय्या नागैय्या, पुत्र-मादैय्या उर्फ हुन्नन्नी रत्नाम्मा, पत्नी-नीलीदासेगौड़ा
				190/1	निजी	शुष्क	900	निंगैय्या, पुत्र-चन्नेगौड़ा तिम्मेगौड़ा, पुत्र-मुत्तेगौड़ा उर्फ होष्टेकनेगौड़ा तिम्मेगौड़ा, पुत्र- मुत्तेगौड़ा उर्फ होष्टेगौड़ा तिम्मेगौड़ा, पुत्र-मुत्तेगौड़ा
				191/1	निजी	नमी	210	नंजम्मा, पुत्र-चिक्कबोरैय्या बी. बासवाराजू, पुत्र-दिवंगत एम. एन. बासवैय्या
				193	निजी	नमी	415	वंकटेगौड़ा, पुत्र-कंडि होन्नेगौड़ा अनिल कुमार अवयस्क अभिभावक माँ नागम्मा

							मनु कुमार अवयस्क अभिभावक माँ नागम्मा
							शिवराजू अवयस्क अभिभावक माँ सुशीलाम्मा
							सुरेश, पुत्र—होन्नगिरिगौड़ा
							मंजुनाथ, पुत्र—दिवंगत तिम्मगौड़ा
			196/1	निजी	शुष्क	150	मुत्तेगौड़ा, पुत्र—तिम्मगौड़ा कै. टी. होन्नगिरिगौड़ा, पुत्र—दिवंगत तिम्मगौड़ा
			196/2	निजी	शुष्क	140	दूसरा नंजैय्या, पुत्र—रामम्मा टी. तिम्मगौड़ा, पुत्र—तिम्मगौड़ा
			196/3	निजी	शुष्क	225	मुत्तेगौड़ा, पुत्र—दिवंगत तिम्मगौड़ा कै. टी. होन्नगिरिगौड़ा, पुत्र—दिवंगत तिम्मगौड़ा वैकटगौड़ा, पुत्र—दिवंगत तिम्मगौड़ा
			198/1	निजी	शुष्क	440	आर टी सी के अनुसार
		8. गोडगेरे	205	निजी	नमी	180	चौदैय्या, पुत्र—दोडुनिंगेगौड़ा चलुवैय्या, पुत्र—चलुवैय्या बासम्मा, पत्नी—चलुवैय्या मेलैय्या, पुत्र—तिम्मैय्या बासम्मा, पत्नी—चलुवैय्या होन्नगिरि, पुत्र—होन्नगिरि मेलैय्या, पुत्र—दोडुमालैय्या
			85	निजी	नमी	540	अब्दुल गन्नी साहेब, पुत्र—गौज साहेब एवं अब्दुल सत्तास उर्फ अमीर महादेवप्पा, पुत्र—कुंडमादप्पा वीरत्तैय्या, पुत्र—कुंडमादप्पा एम. मीनाक्षम्मा, पत्नी—शिवण्णा शिवम्मा, पत्नी—राजण्णा
			81/3	निजी	नमी	120	एस. वजरम्मा, पत्नी—दिवंगत सुब्बण्णा एस. वजरम्मा, पत्नी—दिवंगत सुब्बण्णा एस. वजरम्मा, पत्नी—दिवंगत सुब्बण्णा
			81/4A	निजी	नमी	87	एस. वजरम्मा, पत्नी—दिवंगत सुब्बण्णा एस. वजरम्मा, पत्नी—दिवंगत सुब्बण्णा चिक्कम्मा, पत्नी—मरियप्पा
			81/2	निजी	नमी	68	एस. वजरम्मा, पत्नी—दिवंगत सुब्बण्णा
			80	निजी	बागीचा	456	आर टी सी के अनुसार
			79/1	निजी / सरकारी	नमी / बागीचा	252	एम. कै. केम्पिरैय्या, पुत्र—केम्पिरैय्या निर्मला, पत्नी—दिवंगत कै. एन.शिवतीर्थन
			79/2	निजी	नमी / बागीचा	213	कोट्टप्पा, पुत्र—नंजप्पा चंद्रम्मा, पत्नी—कोट्टप्पा कोट्टप्पा, पुत्र—नंजप्पा चंद्रम्मा, पत्नी—कोट्टप्पा कोट्टप्पा, पुत्र—नंजप्पा

				चंद्रम्मा, पत्नी-कोट्टप्पा
				कोट्टप्पा, पुत्र-नंजप्पा
				चंद्रम्मा, पत्नी-कोट्टप्पा
				कोट्टप्पा, पुत्र-नंजप्पा
				चंद्रम्मा, पत्नी-कोट्टप्पा
				कोट्टप्पा, पुत्र-नंजप्पा
				चंद्रम्मा, पत्नी-कोट्टप्पा
				कोट्टप्पा, पुत्र-नंजप्पा
				चंद्रम्मा, पत्नी-कोट्टप्पा
75/1	निजी	नमी / बागीचा	243	आर टी सी के अनुसार
75/2	निजी	नमी / बागीचा	63	वीरभद्रप्पा, पुत्र-पुट्टलिंगप्पा
				बासवाराजप्पा, पुत्र-लिंगप्पा
75/3	निजी	नमी / बागीचा	60	एच. सी. जयम्मा, पत्नी-एन. ईरैय्या
				एच. सी. जयम्मा, पत्नी-एन. ईरैय्या
75/4	निजी	नमी / बागीचा	147	एच. सी. जयम्मा, पत्नी-एन. ईरैय्या
72/1	निजी	नमी	609	गुरुमल्लप्पा, पुत्र-मल्लप्पा
				गुरुलिंगप्पा, पुत्र-मल्लप्पा
				गुरुलिंगप्पा, पुत्र-मल्लप्पा
125	निजी	नमी / बागीचा	110	थोटी ईनाम
				सिदैय्या, पुत्र-सिरगैय्या
				सुमनैय्या, पुत्र-सुमनैय्या
				दोड्डसिदैय्या, पुत्र-कुल्लैय्या
				हुन्नैय्या, पुत्र-कुल्लैय्या
				मरियैय्या, पुत्र-कुल्लैय्या
				दोड्डकुन्नैय्या, पुत्र-कुंडीसिदैय्या
				केम्पम्मा, पत्नी-वेंकटेश
127/3	निजी / सरकारी	नमी	120	शम्भुलिंगप्पा, पुत्र-बासप्पा
127/2	निजी / सरकारी	नमी	30	सुब्बेगौड़ा, पुत्र-मरलिंगेगौड़ा
				अब्दुल सत्तार, पुत्र-अमीर साब
126/1	निजी	नमी	80	आर टी सी के अनुसार
126/2	निजी	नमी	164	आर टी सी के अनुसार
127/1A	निजी	नमी	60	हनुमम्मा उर्फ गौरम्मा, पत्नी-चौड़ेगौड़ा
				मादैय्या, पुत्र-मरलिंगेगौड़ा
				चलुवेगौड़ा, पुत्र-सोमीचलुवेना केम्पैय्या
				दयावेगौड़ा पुत्र-दिवंगत सोमीचलुवेना केम्पैय्या
				दयावेगौड़ा पुत्र-दिवंगत सोमीचलुवेना केम्पैय्या
				दयावेगौड़ा पुत्र-दिवंगत सोमीचलुवेना केम्पैय्या
				दयावेगौड़ा पुत्र-दिवंगत सोमीचलुवेना केम्पैय्या
				दयावेगौड़ा पुत्र-दिवंगत सोमीचलुवेना केम्पैय्या
सड़क-1	सरकारी	सड़क	30	सरकारी जायदाद (सड़क)
128/1B	निजी / सरकारी	नमी	200	आर. दिलीप कुमार, पुत्र-आर. रूपचंद

				आर. दिनेश कुमार, पुत्र—आर. रूपचंद
				चन्नप्पा, पुत्र—सुब्रह्मणा
				बासवण्णा, पुत्र—मादप्पा उर्फ शिवनंजप्पा
				मादप्पा, पुत्र—सिद्धलिंगप्पा
	सड़क-2	सरकारी	सड़क	सरकारी जायदाद (सड़क)
	130/1	निजी	नमी / बागीचा	वीरप्पा, पुत्र—चिक्कीरैय्या मधु अवयस्क अभिभावक पिता बासवाराजप्पा
	130/2A1	निजी	नमी	सर्वमंगला, पत्नी—महादेवप्पा
	130/2A2	निजी	नमी	एच. एम. अनंतरामू, पुत्र—सी. एच. मुद्दैया
	130/2B	निजी	नमी	शांतम्मा, पत्नी—दिवंगत चिक्कीरप्पा महादेवप्पा, पुत्र—पुट्टीरम्मा
	69/5	निजी	नमी	गिरिजाम्मा उर्फ पुट्टम्मा, पत्नी—मादैय्या रमेश, पुत्र—बासवेगौड़ा उर्फ ताम्मैय्या
	70/4B/1	निजी	नमी	रमेश, पुत्र—बासवेगौड़ा उर्फ तिमैय्या
	70/4A/2	निजी	नमी	गौराम्मा उर्फ पार्वतम्मा, पुत्री—चिक्कलिंगप्पा
	70/3	निजी	नमी	चिक्कलिंगैय्या, पुत्र—बोम्मन्नहल्लि लिंगराजप्पा
	71	निजी	नमी	अन्नपूर्णा, पत्नी—जी. एम. वीरप्पा
9. अटुवनहल्लि	36/1	निजी	नमी	शमीम बेगम, पत्नी—दिवंगत सैय्यद मोहम्मद मतीन
	36/2	निजी	नमी	बासवाराजप्पा, पुत्र—दिवंगत मादप्पा महादेवप्पा, पुत्र—पुट्टीरम्मा महादेवप्पा, पुत्र—पुट्टीरम्मा
	36/3	निजी	नमी	पुट्टमागप्पा, पुत्र—मादप्पा पुट्टमंचेगौड़ा, पुत्र—दिवंगत मंचेगौड़ा
	35/1	निजी	नमी	शिवण्णा, पुत्र—लिंगप्पा पुट्टमंचेगौड़ा, पुत्र—दिवंगत मंचेगौड़ा
	34	निजी	नमी	महादेवप्पा, पुत्र—सिद्धलिंगप्पा उर्फ हुच्चप्पा
	30/1	निजी	नमी	लिंगेगौड़ा, पुत्र—लिंगेगौड़ा नागराजू, पुत्र—लिंगेगौड़ा
	30/2	निजी	नमी	धनगुरु, पुत्र—हुज्जाबोयी
	नाला-1	सरकारी	नाला	सरकारी जायदाद (नाला)
	26/1A1	निजी	नमी	दुण्डमादेगौड़ा, पुत्र—दोड्डमादेगौड़ा
	26/1A2	निजी	नमी	दोड्डमादेगौड़ा, पुत्र—चिक्कहनुमेगौड़ा
	26/1B	निजी	नमी	दोड्डमादेगौड़ा, पुत्र—चिक्कहनुमेगौड़ा
	57	निजी / सरकारी	नमी	चिक्कदेवेगौड़ा, पुत्र—दयावेगौड़ा पुट्टम्मा, पत्नी—दिवंगत बासवेगौड़ा मरिगौड़ा, पुत्र—चिक्कबासवेगौड़ा जवरेगौड़ा,

								पुत्र-चिक्कबासवेगौड़ा				
								प्रकाश, पुत्र-चिक्कबासवेगौड़ा				
								मरिगौड़ा, पुत्र-चिक्कबासवेगौड़ा				
								जवरेगौड़ा, पुत्र-चिक्कबासवेगौड़ा				
								प्रकाश, पुत्र-चिक्कबासवेगौड़ा				
								मादेगौड़ा, पुत्र-चिक्कहनुमेगौड़ा				
								तिम्मैया, पुत्र-दोड्डपुट्टाभोयी				
								56/1	निजी	नमी	190	सी. लिंगेगौड़ा, पुत्र-चिक्कहनुमेगौड़ा
56/2A	निजी	नमी	88	पा. तिम्माभोयी उर्फ तिम्मैया, पुत्र-तिम्माभोयी								
56/2B1	निजी	नमी	180	आर टी सी के अनुसार								
56/3	निजी	नमी	240	तिमम्मा, पत्नी-तिम्माभोयी								
55	निजी	नमी	40	सी. लिंगेगौड़ा, पुत्र-चिक्कहनुमेगौड़ा								
54/1	निजी	नमी	113	सी. लिंगेगौड़ा, पुत्र-चिक्कहनुमेगौड़ा								
								54/2	निजी	नमी	100	गौरम्मा, पत्नी-ए. एल. पुट्टहनुमैया
								53/1A	निजी	नमी	90	बन्देगौड़ा-कंचेगौड़र गोद किया पुत्र बांदीगौड़ा बांदीगौड़ा, पुत्र-पुट्टलिंगम्मा
								53/1B	निजी	नमी	66	बांदीगौड़ा (गोद किया पुत्र), पुत्र-बांदीगौड़ा उर्फ कंचेगौड़ा हनुमेगौड़ा उर्फ चिक्कताम्मैया, पुत्र-लिंगेगौड़ा उर्फ पुट्टैया
								53/1C	निजी	नमी	180	हनुमेगौड़ा उर्फ चिक्कताम्मैया, पुत्र-लिंगेगौड़ा उर्फ पा. पुट्टेगौड़ा हनुमंतैया, पुत्र-हनुभोयी
								53/2	निजी	नमी	60	बेतैया उर्फ करियैया-वदहगलना लिंगैया बिलियैया, पुत्र-वदगल लिंगैया
								नाला-2	सरकारी	नाला	470	सरकारी जायदाद (नाला)
								37/1	निजी	नमी	312	सुब्बण्णा, पुत्र-दिवंगत पुट्टबासप्पा सुब्बण्णा, पुत्र-दिवंगत पुट्टबासप्पा
								37/2	निजी	नमी	72	पुट्टास्वामी, पुत्र-चन्नेगौड़ा
								38/1	निजी	नमी	365	पुट्टास्वामी, पुत्र-चन्नेगौड़ा
								38/2	निजी	नमी	35	वीरप्पा, पुत्र-वीरभद्रप्पा महादेवप्पा, पुत्र-वीरभद्रप्पा
								38/4	निजी	नमी	35	शिवबासप्पा, पुत्र-वीरभद्रप्पा
								38/5	निजी	नमी	30	शिवबासप्पा, पुत्र-वीरभद्रप्पा
								43	निजी	नमी	570	ना. तगडेगौड़ा, पुत्र-लिंगेगौड़ा चिक्कमादेगौड़ा, पुत्र-चिक्कहनुमेगौड़ा
								91	सरकारी	खराब	100	खरजू
								44	सरकारी	खराब	935	सरकारी
								71	निजी	नमी	2495	चौदेगौड़ा, पुत्र-चौदेगौड़ा चौदेगौड़ा, पुत्र-चौदेगौड़ा

					एच. एल. लौकेश, पुत्र-दिवंगत लिंगेगौड़ा उर्फ दोडुतामैय्या
					बी. सिद्देगौड़ा, पुत्र-बासवेगौड़ा
					चौदेगौड़ा, पुत्र-चौदेगौड़ा, तुरगनुरु
					एच. एल. लौकेश, पुत्र-दिवंगत लिंगेगौड़ा उर्फ दोडुतामैय्या
					एल. पुट्टास्वामी, पुत्र-लिंगेगौड़ा उर्फ दाडुतामैय्या
					एच. एल. दिनेश, पुत्र-दिवंगत लिंगेगौड़ा उर्फ दोडुतामैय्या
					एस. कमलाराजू, पुत्र-डोल्लेगौड़ा
	46	निजी	शुष्क	1345	
	48/2	निजी	शुष्क	100	एच. एन. नागराजू, पुत्र-निंगेगौड़ा
	52/1A	निजी	शुष्क	340	मल्लेशा, पुत्र-मल्लेगौड़ा
	52/2	निजी	नमी	150	मादेगौड़ा, पुत्र-जवरायीगौड़ा
					दासेगौड़ा, पुत्र-दिवंगत जवरेगौड़ा
					एच. होन्नेगौड़ा, पुत्र-दासेगौड़ा
					महेश, पुत्र-दासेगौड़ा
					मादेगौड़ा, पुत्र-जवरायीगौड़ा
10. मेगलपूरा	41	सरकारी	शुष्क	152	सरकारी खराब
	42/2	निजी	नमी	140	चिक्कहनुमेगौड़ा, पुत्र-हनुमेगौड़ा
	43/3A	निजी	शुष्क	40	आर टी सी के अनुसार
	43/3B	निजी	शुष्क	46	आर टी सी के अनुसार
	43/7	निजी	बागीचा	76	महादेवप्पा एम. एस.
	43/6	निजी	नमी / बागीचा	96	जयम्मा, पत्नी-बोरेगौड़ा
	43/5	सरकारी	शुष्क	22	वेटरेनरी स्कूल हदली मेगलापुरा-सरकारी
	43/4	निजी	शुष्क	28	शंकरप्पा एम. सी., पुत्र-चन्नमल्लप्पा
	45/3	निजी	नमी / बागीचा	68	एन. एम. महादेवस्वामी, पुत्र-महादेवप्पा
					एम. एस. महादेवप्पा
	46/7	निजी	नमी	265	महादेवप्पा, पुत्र-चेन्नमल्लप्पा
					एम. एस. शंकरप्पा, पुत्र-चेन्नमल्लप्पा
					एम. एस. महादेवप्पा
	46/6A	निजी	नमी	324	कामक्षम्मा (कोडिपुरा), पत्नी-दिवंगत पुट्टास्वामाचारी बांदीगौड़ा, पुत्र-केंचेगौड़ा एम. मरि सिद्देगौड़ा, पुत्र-मुगेगौड़ा
46/5B		निजी	नमी	60	सिद्धम्मा, पत्नी-सिद्धशेटी
					पुट्टसिद्धम्मा, पत्नी-दिवंगत एस. सिद्धैय्या
					लक्ष्मम्मा, पत्नी-दिवंगत चिक्कण्णशेटी
					शिवण्णा, पुत्र-दिवंगत एस. सिद्धैय्या
	46/5A1-B	निजी	नमी	140	आर टी सी के अनुसार

46/5A1-B	निजी	नमी	60	आर टी सी के अनुसार
सड़क-1	सरकारी	सड़क	85	सरकारी जायदाद (सड़क)
47/5A	निजी	बागीचा	28	के. नागराजुमूर्ति, पुत्र-केंचेगौड़ा
47/5B	निजी	बागीचा	24	पुट्टण्णागौड़ा, पुत्र-चिक्केगौड़ा
47/5C	निजी	बागीचा	28	के. नागराजुमूर्ति, पुत्र-केंचेगौड़ा
47/5D2	निजी	शुष्क	28	आर टी सी के अनुसार
47/5D1	निजी	शुष्क	12	सिद्देगौड़ा, पुत्र-सिद्देगौड़ा उर्फ केंचेगौड़ा
47/5E	निजी	नमी	40	सिद्देगौड़ा उर्फ डोल्लेगौड़ा, पुत्र-दोड्डपुट्टेगौड़ा
48/1	निजी / सरकारी	नमी	123	आर टी सी के अनुसार
48/2	निजी / सरकारी	नमी	114	आर टी सी के अनुसार
40/1	निजी	नमी	450	चिक्कहनुमेगौड़ा, पुत्र-हनुमेगौड़ा
40/2A	निजी	नमी	88	आर टी सी के अनुसार
40/2B	निजी	नमी	62	आर टी सी के अनुसार
52/1A	निजी	शुष्क / नमी	300	सन्नमादैय्या, पुत्र-सन्नमादैय्या
52/2	निजी	शुष्क	100	के. एम. भैरगौड़ा, पुत्र-मूगाबेट्टेगौड़ा
51/1	निजी	शुष्क	250	यडूरप्पा
51/2A1	निजी	शुष्क / नमी	25	आर टी सी के अनुसार
51/2A2	निजी	शुष्क / नमी	25	आर टी सी के अनुसार
51/2A3	निजी	शुष्क / नमी	25	आर टी सी के अनुसार
51/2B	निजी	शुष्क / नमी	25	गृह भूमि
51/3A1B	निजी	शुष्क / नमी	25	आर टी सी के अनुसार
51/3B2	निजी	शुष्क / नमी	25	आर टी सी के अनुसार
51/3A1C	निजी	शुष्क / नमी	50	गृह भूमि
51/3A1A	निजी	शुष्क / नमी	50	आर टी सी के अनुसार
51/3A	निजी	शुष्क / नमी	25	मोटेगौड़ा, पुत्र-मादेगौड़ा
				डुंडप्पा, पुत्र-डुंडप्पा
				महादेवम्मा, पत्नी-कादप्पा
				केम्पेगौड़ा, पुत्र-ताम्मैय्या, पुत्र-केम्पेगौड़ा
49/1B	निजी	नमी	25	डुंडप्पा, पुत्र-मादप्पा
49/2A	निजी / सरकारी	शुष्क / नमी	200	आर टी सी के अनुसार
149	निजी	शुष्क	50	एम. सी. नवीन, पुत्र-शिवलिंगम्मा
				एम. सी. चेतन, पुत्र-पुट्टम्मा, पत्नी-चन्नीरेगौड़ा
				वी. एस. एस. एन. हडलि सर्कल
49/3B	निजी	शुष्क	100	गृह भूमि
49/3A	निजी	शुष्क	50	एम. नागराजू, पुत्र-मादेगौड़ा
64/1	निजी	नमी	300	एम. नागराजू, पुत्र-मादेगौड़ा
नाला-1	सरकारी	नाला	70	सरकारी जायदाद नाला

				65/1	निजी	नमी	50	नंजुदैय्या एम. बी. पुत्र-भोगेगौड़ा
				65/2	निजी / सरकारी	नमी	50	नंजुदैय्या एम. बी. पुत्र-भोगेगौड़ा पुल के निर्माण के लिए अर्जित
				65/3	निजी / सरकारी	नमी	50	नंजुदैय्या एम. बी. पुत्र-बोरेगौड़ा पुल के निर्माण के लिए अर्जित
				65/4	निजी / सरकारी	नमी	100	नंजुदैय्या एम. बी. पुत्र-भोगेगौड़ा पुल के निर्माण के लिए अर्जित
				65/5	निजी / सरकारी	नमी	100	नंजुदैय्या एम. बी. पुत्र-भोगेगौड़ा पुल के निर्माण के लिए अर्जित
				65/6	निजी / सरकारी	नमी	100	नंजुदैय्या एम. बी. पुत्र-भोगेगौड़ा पुल के निर्माण के लिए अर्जित
				नाला-2	सरकारी	नाला	100	सरकारी जायदाद (नाला)
				67/1	निजी	बागीचा	100	चौदप्पा एम. एच., पुत्र-होन्नेगौड़ा
				67/2	निजी	नमी	300	चौदप्पा एम. एच., पुत्र-होन्नेगौड़ा
				66/3	निजी	बागीचा	92	हैरेगौड़ा, पुत्र-मोटेगौड़ा यशोदा एम. टी., पुत्री-मादेगौड़ा सिद्दम्मा, पत्नी-मादेगौड़ा
				66/4	निजी	बागीचा	82	मरिस्वामी, पुत्र-चिक्कप्पैय्या
				नाला-3	सरकारी	नाला	60	सरकारी जायदाद (नाला)
				11. हाडिल				लक्ष्मम्मा, पत्नी-दिवंगत भोगेगौड़ा एम. पुट्टप्पा, पुत्र-अन्नैयना मोटेगौड़ा कलीरेगौड़ा, पुत्र-चिक्कन्नैय्या सिद्देगौड़ा, पुत्र-कलीरेगौड़ा शिवरामू, पुत्र-दिवंगत पा. कलीरेगौड़ा
				नाला-1	सरकारी	नाला	45	सरकारी जायदाद (नाला) चन्नम्मा, पत्नी-चिक्कण्णा उर्फ मयीगौड़ा
				69	निजी	बागीचा	441	सिद्देगौड़ा, पुत्र-नागेगौड़ना केंचेगौड़ा कै. नागलिंगैय्या, पुत्र-केंचेगौड़ा
				70	निजी	नमी	200	मादेगौड़ा, पुत्र-मरिगौड़ा
				12. बसवनपूरा				एम. नागराजू, पुत्र-मादेगौड़ा
				83/2	निजी	नमी	70	एम. नागराजू, पुत्र-मादेगौड़ा
				83/3	निजी	नमी	30	आर टी सी के अनुसार
				83/4	निजी	नमी	105	सिद्दम्मा, पत्नी-मादेगौड़ा वीरेगौड़ा अवयस्क अभिभावक माँ एम. टी. यशोदा
				84	सरकारी	खराब	150	सरकारी तालाब सरकारी पी. यू. महाविद्यालय बिल्डिंग बनाने के लिए शिक्षा विभाग से स्थानांतरण
				86	निजी	शुष्क	500	डुंडम्मा,

				पत्नी-चिक्कलिंगेगौड़ा उर्फ गुज्जेगौड़ा
				सिदैय्या, पुत्र-रचैय्या
				सिहराजू, पुत्र-सिदैय्या
				बी. एस. पुट्टराजू, पुत्र-सिदैय्या
				बी. चिक्कचौदेगौड़ा, पुत्र-दिवंगत मेगहलट्टी बासवेगौड़ा
				बी. बासवाराजू, पुत्र-दिवंगत मेगहलट्टी बासवेगौड़ा
87/1	निजी	नमी	110	चौदम्मा, पत्नी-दिवंगत दयावरसेगौड़ा
87/3	निजी	नमी	100	श्रीकांतेगौड़ा, पुत्र-नंजुदैय्या
87/2	निजी	नमी	200	शैलजा, पत्नी-एम.आर. शिवरुद्रस्वामी
				तम्मादिमादप्पा, पुत्र-तम्मादिवीरप्पा
				बासवेगौड़ा, पुत्र-उज्जानी चौदेगौड़ा
				तम्मादि मादप्पा, पुत्र-तम्मादि वीरप्पा
78/1	निजी	नमी	210	बासवेगौड़ा, पुत्र-उज्जानी चौदेगौड़ा
				चौदेगौड़ा, पुत्र-चौदेगौड़ा
				एच. एम. सुनंदम्मा, पत्नी-बी. सी. कृष्णेगौड़ा
78/2	निजी	नमी	175	चौदेगौड़ा, पुत्र-उज्जानी चौदेगौड़ा
				बी. सी. पुट्टरामेगौड़ा, पुत्र-दिवंगत होन्नेगौड़ा उर्फ चिक्कण्णा
77	निजी	नमी	300	पोन्नैय्या उर्फ होनागिरि एक्सएक्स पत्नी-तिम्मैय्या
				नोन्नैय्या उर्फ पुट्टैय्या
				पुट्टैय्या, पुत्र-चिक्कहुच्चैय्या
				दासैय्या
				चिक्कपुट्टैय्या
				पोलैय्या
				तिम्मैय्या
				निंगैय्या, पुत्र-मंतैय्या
				बोरा, पुत्र-बोरैय्या
				सिदैय्या, पुत्र-सिदैय्या
				बोरैय्या, पुत्र-मोरिकुंडैय्या
				चिक्कबोरैय्या
				चिक्कसिद्धम्मा, पत्नी-जोगैय्या
				डोलेय्या, पुत्र-केम्पैय्या
				केम्पम्मा, पत्नी-केंचैय्या
				बी. सी. वंकटेश, पुत्र-सन्नम्मा
76/1	निजी	नमी	80	कै. बासवेगौड़ा, पुत्र-दोड्डमोल्लेगौड़ा
				कै. बासवेगौड़ा, पुत्र-दोड्डमोल्लेगौड़ा
				कै. बासवेगौड़ा, पुत्र-दोड्डमोल्लेगौड़ा
				कै. बासवेगौड़ा, पुत्र-दोड्डमोल्लेगौड़ा
75/1A	निजी	शुष्क / नमी	300	बी. एस. तिमैय्या, पुत्र-सुब्बेगौड़ा

				75/1B	निजी	शुष्क / नमी	125	गृह भूमि के लिए बी. एस. तिम्मैय्या
								मादम्मा, पत्नी— एच. चौदेगौड़ा
				73/1	निजी	शुष्क / नमी	210	पुट्टेगौड़ उर्फ होन्नेगौड़ा, पुत्र—चौदेगौड़ा उर्फ दोड्ड मूगेगौड़ा
				73/2	निजी	शुष्क / नमी	175	रामेगौड़ा, पुत्र—कुरिबासवेगौड़ना चौदेगौड़ा
								निंगम्मा, पत्नी—होन्नेगौड़ा उर्फ चिन्नेगौड़ा
								बी. एच. चौदैय्या, पुत्र—कुरिबासवेगौड़ना होन्नेगौड़ा
								सुब्बेगौड़ा, पुत्र—कुरिबासवेगौड़ा
				73/3	निजी	शुष्क / नमी	410	होन्नेगौड़ा, पुत्र—दिवंगत तिम्मम्मना चौदेगौड़ा
				71/1	निजी	शुष्क / नमी	250	मकबूल अहमद, पुत्र—मोहम्मद मिरन साब
				71/2	निजी	शुष्क / नमी	440	पुट्टलिंगम्मा, पत्नी—बी. चौदेगौड़ा
								पुट्टेगौड़ा उर्फ होन्नेगौड़ा, पुत्र—चौदेगौड़ा उर्फ दोड्डमांगेगौड़ा
								चिक्कसिद्देगौड़ा, पुत्र—हालवेगौड़ा
								पुट्टलिंगम्मा, पत्नी—ओ. चौदेगौड़ा
								पुट्टलिंगम्मा, पत्नी—ओ. चौदेगौड़ा
				71/3	निजी	शुष्क / नमी	225	करियप्पा, पुत्र—मुगेगौड़ना चौदेगौड़ा
								अवयस्क पुत्र बी. एम. साहन, बी. एम. गगन अभिभावक दादा जी. चौदेगौड़ा
				69/3B	निजी	नमी	150	गृह भूमि के लिए बी. एस. ताम्मैय्या, पुत्र—सुब्बेगौड़ा
				सड़क-3	सरकारी	सड़क	65	सरकारी जायदाद (सड़क)
				59/1A1	निजी	नमी	200	मादम्मा, पत्नी—बासवेगौड़ा
				59/1A2	निजी	नमी	25	मादम्मा, पत्नी—बासवेगौड़ा
				59/2	निजी	नमी	170	चिक्कसिद्देगौड़ा, पुत्र—दोड्डसिद्देगौड़ा
								मादेगौड़ा, पुत्र—चिक्केगौड़ा
								सिद्देगौड़ा, पुत्र—दोड्ड सिद्देगौड़ा
								नंजाशेट्टी, पुत्र—लिंगाशेट्टी
								सन्नेगौड़ा, पुत्र—चौदेगौड़ा
				58	सरकारी	खराब	250	सरकारी कब्रिस्तान
				89/2	निजी	नमी / बागीचा	30	मादेगौड़ा, पुत्र— दिवंगत सिद्देगौड़ा
								सिद्देय्या, पुत्र—चिक्कसिद्देगौड़ा
								मादेगौड़ा, पुत्र—दिवंगत सिद्देगौड़ा
								सी. बोरेय्या, पुत्र—चिक्कसिद्देगौड़ा
								शिवलिंगेगौड़ा, पुत्र—चिक्कसिद्देगौड़ा
								सी. बोरेय्या, पुत्र—चिक्कसिद्देगौड़ा
				88/1	निजी	बागीचा	285	चिक्कसिद्देगौड़ा, उर्फ सप्पेगौड़ा, पुत्र—मादेगौड़ना

				बालवेगौड़ा
				सिद्दैय्या, पुत्र—चिक्कसिद्दैगौड़ा
				केम्पम्मा, पत्नी—बी. एस. पुट्टहोन्नैय्या
88/2	निजी	नमी / बागीचा	580	होन्नैगौड़ा, पुत्र—दिवंगत तिमम्मना चौदेगौड़ा
				बी. सी. पुट्टेगौड़ा, पुत्र—दिवंगत तिमम्मना चौदेगौड़ा
110/5	निजी / सरकारी	शुष्क	165	बी. सी. पुट्टेगौड़ा, पुत्र—दिवंगत तिमम्मना चौदेगौड़ा
110/4	निजी / सरकारी	नमी	165	तिम्मम्मा, पत्नी—चौदेगौड़ा उर्फ मोटेगौड़ा
110/3	निजी / सरकारी	नमी	95	नागम्मा, पत्नी—बासवेगौड़ा
111	निजी	शुष्क	370	पोन्नैय्या उर्फ होनागिरि केम्पम्मा, पत्नी—तिम्मैय्या नोनियैय्या उर्फ पुट्टैय्या पुट्टैय्या, पुत्र—चिक्कहुच्चैय्या
				दासैय्या चिक्कपुट्टैय्या पोलेय्या तिमैय्या
				निंगैय्या, पुत्र—मंतैय्या बोरा, पुत्र—बोरैय्या सिद्दैय्या, पुत्र—सिद्दैय्या बोरैय्या, पुत्र—मोरिकुडैय्या चिक्कबोरैय्या
				केम्पम्मा, पत्नी—केंचैय्या
				बी. सी. वंकटेश, पुत्र—सन्नम्मा
				केंचैय्या, पुत्र—चिक्कपुट्टैय्या
				निंगम्मा, पत्नी—डी. सिद्दैय्या
				बासवैय्या
				गौरम्मा
				एच. एस. सुनन्दम्मा, पुत्री—बी. सी. कृष्णगौड़ा
115	निजी	शुष्क	140	बी. होन्नैगौड़ा, पुत्र—दिवंगत भूमि सिद्दैगौड़ा
				बी. सी. नागराजू, पुत्र—दिवंगत तिमम्मना चौदेगौड़ा
				पी. सी. नागराजू, पुत्र—दिवंगत तिमम्मना चौदेगौड़ा
				बी. सी. पुट्टरामगौड़ा, पुत्र—होन्नैगौड़ा उर्फ चिक्कहोन्नैगौड़ा
				लिंगेगौड़ा, पुत्र—दिवंगत डोनेगौड़ा
				आर. लक्ष्मी, पुत्री—ए. वेंकटेश
				बी. एच. बासवेगौड़ा उर्फ चिक्कण्णा, पुत्र—शेशम्मा होन्नैगौड़ा
116/2	निजी	शुष्क	145	देवम्मा होन्नैगौड़ा, पुत्र—केम्पम्मा पुट्टेगौड़ा
				सावित्रम्मा, पत्नी—सी. बासवेगौड़ा सावित्रम्मा, पत्नी—सी.

				बासवेगौड़ा
				बी. सी. नागराजू, पुत्र—दिवंगत तिमम्मना चौदेगौड़ा
				बी. सी. पुट्टरामेगौड़ा, पुत्र—उज्जानी होन्नेगौड़ा
				बी. सी. पुट्टरामेगौड़ा, पुत्र—उज्जानी होन्नेगौड़ा
				बी. होन्नेगौड़ा, पुत्र—दिवंगत भूमि सिद्देगौड़ा
				बी. सी. पुट्टरामेगौड़ा, पुत्र—उज्जानी होन्नेगौड़ा
				जे. एन. भारत, पुत्र—जे. डी. नागराजू
116/1	निजी	शुष्क	130	सावित्रम्मा, पत्नी—सी. बासवेगौड़ा
				बी. सी. नागराजू, पुत्र—दिवंगत तिमम्मना चौदेगौड़ा
117	निजी	शुष्क	130	पुट्टेगौड़ा उर्फ होन्नेगौड़ा, पुत्र—चौदेगौड़ा उर्फ दोड्ड मुगेगौड़ा
नाला	सरकारी	नाला	30	सरकारी जायदाद (नाला)
118/2	निजी / सरकारी	शुष्क	50	बासवाराजू, पुत्र—दिवंगत बासवेगौड़ा
119/4	निजी	शुष्क	85	बी. सी. कृष्णा, पुत्र—दिवंगत बी. चौदैय्या
				बासवाराजू, पुत्र—दिवंगत बासवेगौड़ा
				चिक्कतायम्मा, पत्नी—दिवंगत केंचेगौड़ा
				बासवाराजू, पुत्र—दिवंगत बासवेगौड़ा
119/5	निजी	शुष्क	150	आर टी सी के अनुसार
120/2	निजी	शुष्क	70	पदमा, पत्नी—बासवाराजू
120/3	निजी	शुष्क	70	पदमा, पत्नी—बासवाराजू जयश्री वासुकी राम, पत्नी—एन. एस. वासुकीराम
120/4	निजी	शुष्क	75	मदेगौड़ा उर्फ तम्मगेगौड़ा, पुत्र—मादेगौड़ा
				सी. बोरेय्या, पुत्र—चिक्कसिद्देगौड़ा
121/3	निजी	शुष्क	260	बी. प्रेमा, पुत्री—बासवेगौड़ा
122/5	निजी	शुष्क	285	चौदेगौड़ा, पुत्र—भूमिसिद्देगौड़ा
				पहला चौदेगौड़ा उर्फ करियप्पा, पुत्र—चौदेगौड़ा
				दूसरा होन्नेगौड़ा उर्फ कुल्लप्पा, पुत्र—चौदेगौड़ा
				तीसरा शिवराजू, पुत्र—चौदेगौड़ा
				बी. सी. पुट्टहोन्नेय्या, पुत्र—भूमिसिद्देगौड़ा
				बासवेगौड़ा उर्फ बुल्लेगौड़ा, पुत्र—भूमिसिद्देगौड़ा
				बी. रमेश, पुत्र—दिवंगत पुट्टेगौड़ा
				बी. देवराजू, पुत्र—दिवंगत पुट्टेगौड़ा
123/4	निजी / सरकारी	शुष्क	140	हनुमेगौड़ा, पुत्र—दयावेगौड़ा
123/3	निजी	शुष्क	70	पदमा, पत्नी—बासवाराजू
123/7	निजी	शुष्क	95	कमलाम्मा,

				पत्नी—पुट्टास्वामाचारी
123/2	निजी	शुष्क	70	सिद्दय्या, पुत्र—चिक्कसिद्देगौड़ा नरसम्मा, पत्नी—चिक्कमुगेगौड़ा सावित्रम्मा, पत्नी—सी. बासवेगौड़ा होन्नेगौड़ा, पुत्र—दिवंगत तिम्मम्मा चौदेगौड़ा बी. सी. पुट्टेगौड़ा, पुत्र—दिवंगत तिम्मम्मा चौदेगौड़ा
124/1A	निजी	शुष्क	308	सिद्दय्या, पुत्र—चिक्कसिद्देगौड़ा सी. बोरैय्या, पुत्र—चिक्कसिद्देगौड़ा शिवलिंगेगौड़ा, पुत्र—चिक्कसिद्देगौड़ा
124/1B	निजी	शुष्क	104	नरसम्मा, पत्नी—चिक्कमुगेगौड़ा सावित्रम्मा, पत्नी—सी. बासवेगौड़ा होन्नेगौड़ा, पुत्र—दिवंगत तिम्मम्मा चौदेगौड़ा बी. सी. पुट्टेगौड़ा, पुत्र—दिवंगत तिम्मम्मा चौदेगौड़ा
124/2	निजी	शुष्क	100	शिवलिंगेगौड़ा, पुत्र—चिक्कसिद्देगौड़ा महादेवा, पुत्र—सिद्देगौड़ा
124/3	निजी	शुष्क	45	महादेवा, पुत्र—सिद्देगौड़ा शिवण्णा, पुत्र—सिद्देगौड़ा
सड़क-1	सरकारी	सड़क	210	सरकारी जायदाद (सड़क)
57/1	निजी	शुष्क	165	बी. एम. बोरैय्या, पुत्र—ला मोरिकुंडैय्या बी. एम. बोरैय्या, पुत्र—ला मोरिकुंडैय्या तीसरा शिवराजू, पुत्र—चौदेगौड़ा चौथा, शांताराजू, पुत्र—चौदेगौड़ा होन्नेगौड़ा, पुत्र—चिक्कहोन्नेगौड़ा
57/2	निजी	शुष्क	180	बोरैय्या उर्फ पिद्देय्या, पुत्र—निंगैय्या चौदेगौड़ा, पुत्र—भूमिसिद्देगौड़ा चौदेगौड़ा बी. एस. पुट्टहोन्नैय्या बासवेगौड़ा उर्फ बुल्लैगौड़ा, पुत्र—भूमिसिद्देगौड़ा
57/3	निजी	शुष्क	270	सन्ना, पुत्र—बोरा कुल्लैय्या, पुत्र—बोरा चौदेगौड़ा, पुत्र—भूमिसिद्देगौड़ा चौदेगौड़ा, पुत्र—करिगौड़ना भूमिसिद्देगौड़ा
54/3	निजी	शुष्क	228	एस. नागराजू, पुत्र—सिद्दप्पाजी वी. चंद्रकला शोनी, पत्नी—वासुदेव सोनी वेंकटेश, पुत्र—चौदेगौड़ा वी. चंद्रकला सोनी, पत्नी—वासुदेव सोनी होमबम्मा, पत्नी—दिवंगत

					बासवेगौड़ा
					वी. चंद्रकला सोनी, पत्नी—वासुदेव सोनी
					होमबम्मा, पत्नी—दिवंगत बासवेगौड़ा
					वी. चंद्रकला सोनी, पत्नी—वासुदेव सोनी
	54/2	निजी	शुष्क	315	पुट्टेगौड़ा, पुत्र—कडेहट्टी पुट्टेगौड़ा
					दूसरा पुत्र मरिस्वामी, पुत्र—दिवंगत सन्नेगौड़ा
					तीसरा पुत्र शिवरामू, पुत्र—दिवंगत सन्नेगौड़ा भूमिसिद्देगौड़ा, पुत्र—कडेहट्टी पुट्टेगौड़ा
	53/1	निजी	शुष्क	75	चौदेगौड़ा, पुत्र—दिवंगत चौडेगौड़ा
					चौदेगौड़ा, पुत्र—दिवंगत चौडेगौड़ा
	53/2	निजी	शुष्क	150	वी. के. भाग्य, पत्नी—बी.एच. चौडेगौड़ा
	53/3C	निजी	शुष्क	224	तिम्मेगौड़ा डी. एस., पुत्र—तिम्मेगौड़ा
					वीरैय्या, पुत्र—होमबलैय्या
					मादेगौड़ा, पुत्र—मादेगौड़ा
					डी. तिम्मेगौड़ा, पुत्र—तिम्मेगौड़ा
13. हलसहल्लि	40/1	निजी	शुष्क	50	पुट्टास्वामी, पुत्र—बासवेगौड़ा
					चिक्कबासवेगौड़ा, पुत्र—बासवेगौड़ा
					शिवलिंगेगौड़ा, पुत्र—बासवेगौड़ा
	40/2	निजी	शुष्क	200	बी. एच. होन्नेगौड़ा, पुत्र—होन्नेगौड़ा
					होन्नेगौड़ा, पुत्र—भूमिसिद्देगौड़ा
					चिक्कतायम्मा, पत्नी—भूमिसिद्देगौड़ा
	41/1	निजी	शुष्क	175	बी. एच. होन्नेगौड़ा, पुत्र—होन्नेगौड़ा
					बासवेगौड़ा, पुत्र—बासवेगौड़ा तम्मालिंगेगौड़ा
					चौदेगौड़ा, पुत्र—करिगौड़ा उर्फ भूमिसिद्देगौड़ा
	41/2	निजी	शुष्क	225	महादेवु, पुत्र—मयिगौड़ा
	41/3	निजी	शुष्क	240	चिक्कबासवेगौड़ा, पुत्र—बासवेगौड़ा
					चिक्कतायम्मा, पुत्र—बासवेगौड़ा
					पुट्टास्वामी, पुत्र—बासवेगौड़ा
					नागराजू, पुत्र—सिद्धचारी
					नागराजू, पुत्र—सिद्धचारी
					शिवलिंगेगौड़ा, पुत्र—बासवेगौड़ा बासवानपुरा
					पुट्टास्वामी, पुत्र—बासवेगौड़ा बासवानपुरा
					शिवलिंगेगौड़ा, पुत्र—बासवेगौड़ा बासवानपुरा
					राजू, पुत्र—बासवेगौड़ा बासवानपुरा
					होन्नेगौड़ा, पुत्र—चिक्कहोन्नेगौड़ा

				एल. सुशीलाम्मा, पत्नी-लिंगेगौड़ा
				चौदेगौड़ा, पुत्र-भूमिसिद्देगौड़ा
44/1B	निजी / सरकारी	शुष्क	75	हलसहल्लि बासवेश्वरा उच्च विद्यालय महालिंगास्वामीगडु
44/1A	निजी / सरकारी	शुष्क	650	माडम्मा, पत्नी-बेट्टेगौड़ा
				हलसहल्लि बासवेश्वरा उच्च विद्यालय महालिंगास्वामीगडु
53	निजी / सरकारी	शुष्क	375	के. सी. शिवकुमार, पुत्र-चौदाशेट्टी केम्पैय्यना दाड्डी
				के. सी. शिवकुमार, पुत्र-चौदाशेट्टी
				वी. रमेश, पुत्र-सी. वेंकटेशैय्या
				के. सी. शिवकुमार, पुत्र-चौदाशेट्टी
				के. सी. शिवकुमार, पुत्र-चौदाशेट्टी
214	निजी / सरकारी	शुष्क / नमी / बागीचा	800	आर. तायप्पा, पुत्र-दिवंगत रामण्णा
				एन. राजप्पा, पुत्र-दिवंगत नरसिम्हारेड्डी
				आर. तायप्पा, पुत्र-दिवंगत रामण्णा
				एन. राजप्पा, पुत्र- दिवंगत नरसिम्हारेड्डी
				शिवरूद्रम्मा, पत्नी-वीरैय्या
				शिवरूद्रम्मा, पत्नी-वीरैय्या
				वीरैय्या, पुत्र-बसवालिंगप्पा
				एच. सी. शिवण्णा, पुत्र-चन्नावीरैय्या
				बासवालिंगास्वामी, पुत्र-दिवंगत एच. सी. महादेवस्वामी
215	निजी / सरकारी	नमी	575	गुरुलिंगप्पा, पुत्र-चिक्कमादप्पा
				आर. तायप्पा, पुत्र-दिवंगत रामण्णा
				एन. राजप्पा, पुत्र-दिवंगत नरसिम्हारेड्डी
				गुरुलिंगप्पा, पुत्र-दिवंगत चिक्कमादैय्या
				शिवरूद्रम्मा, पत्नी-वीरैय्या
				कग्गलिपुरदा वीरभद्रप्पा
				एच. सी. शिवण्णा, पुत्र-चन्नावीरैय्या
				कग्गलिपुरदा वीरभद्रप्पा
				एच. सी. शिवण्णा, पुत्र-चन्नावीरैय्या
				कग्गलिपुरदा वीरभद्रप्पा
51/1	निजी / सरकारी	नमी	200	एन. उदय, पुत्र-दिवंगत नरसिम्हारेड्डी
				सुब्बप्पा, पुत्र-हालगप्पा
51/2	निजी / सरकारी	नमी	125	शिवस्वामी, पुत्र-चिक्कवीरैय्या
51/3	निजी / सरकारी	नमी	275	शिवस्वामी, पुत्र-चिक्कवीरैय्या
212	निजी / सरकारी	नमी / बागीचा	550	चौदेगौड़ा, पुत्र-भूमिसिद्देगौड़ा
				दोडुताम्पैय्या, पुत्र-चिक्कण्णा
				होन्नेगौड़ा, पुत्र-भूमिसिद्देगौड़ा

					होन्नेगौड़ा, पुत्र—चिक्कहोन्नेगौड़ा
					भूमिसिद्देगौड़ा, पुत्र—चिक्कहोन्नेगौड़ा
	217/1	निजी / सरकारी	शुष्क	225	राजू, पुत्र—बासवेगौड़ा
					चिक्कबासवेगौड़ा, पुत्र—बासवेगौड़ा
					शिवलिंगेगौड़ा, पुत्र—बासवेगौड़ा
					पुट्टास्वामी, पुत्र—बासवेगौड़ा
					चिक्कताम्पैया, पुत्र—बासवेगौड़ा
					चिक्कताम्पैया, पुत्र—बासवेगौड़ा
					चिक्कताम्पैया, पुत्र—बासवेगौड़ा
	49/1	निजी / सरकारी	नमी	370	बासवालिंगास्वामी, पुत्र—दिवंगत एच. सी. महादेवस्वामी
					बासवालिंगास्वामी, पुत्र—दिवंगत एच. सी. महादेवस्वामी
	49/2A	निजी	नमी	200	हलगैय्या, पुत्र—कंचप्पना मादप्पा
	49/2B	निजी	नमी	200	नागम्मा, पत्नी—मादैय्या
	50	निजी	नमी	30	शिवबासवैय्या, पत्नी—कंचप्पना मादप्पा
					हलगप्पा, पुत्र—कंचप्पना मादप्पा
14. बानसमुद्रा	100	निजी / सरकारी	नमी	2860	बासवेगौड़ा, पुत्र—लिंगेगौड़ा
					लिंगेगौड़ा, पुत्र—दोड्डेगौड़ा
					बी. एच. चौदैय्या, पुत्र—शेषम्मा होन्नेगौड़ा
					चौदैय्या, पुत्र—होन्नेगौड़ा
					लिंगेगौड़ा, पुत्र—दोड्डेगौड़ा
					लिंगेगौड़ा, पुत्र—दोड्डेगौड़ा
					बासवेगौड़ा, पुत्र—चौदैय्या
					नागप्पा, पुत्र—लिंगेगौड़ा
					बासवेगौड़ा, पुत्र—लिंगेगौड़ा
					बी. एस. नागराजू, पुत्र—नंजप्पा
					बी. एच. चौदैय्या, पुत्र—होन्नेगौड़ा
					श्रीमती सुंदरम्मा, पत्नी—बी. एच. चौदैय्या
					अब्दुल सूबन, पुत्र—दिवंगत डॉ. अब्दुल अजीज
					अब्दुल सूबन, पुत्र—दिवंगत डॉ. अब्दुल अजीज
					बाशा, पुत्र—हीमासाब
					अब्दुल सूबन, पुत्र—दिवंगत डॉ. अब्दुल अजीज
					अली अकबर, पुत्र—अब्दुल गपूर
					सी. तायम्मा, पत्नी—बी. मरिगौड़ा
					सी. तायम्मा, पत्नी—बी. मरिगौड़ा
	101/1	निजी	नमी	375	सिद्देगौड़ा, पुत्र—कृष्णेगौड़ा
	101/2	निजी	नमी	310	एच. एन. रामचन्द्रेगौड़ा, पुत्र—एच. नरसिम्हेगौड़ा

				एच. एन. रामचन्द्रगौड़ा, पुत्र—एच. नरसिम्हगौड़ा डुण्डम्मा, पत्नी—दिवंगत कृष्णगौड़ा मायप्पा, पुत्र—लिंगेगौड़ा
51	निजी	नमी	640	एन. आनन्द, पुत्र—दिवंगत नरसिम्हारेड्डी के. नरसिम्हामूर्ति, पुत्र—दिवंगत करियप्पा डी. आर. वीरुपक्ष, पुत्र—डी. रामप्पा एम. वेंकटेश, पुत्र—मुदलप्पा
नाला-1	सरकारी	नाला	40	सरकारी जायदाद (नाला)
50	निजी	नमी	75	एच. सी. कैलाशामूर्ति, पुत्र—चन्नबासप्पा
30/1	निजी	नमी	435	प्रेमा, पत्नी—मरिमादैय्या रमेश अवयस्क अभिभावक माँ लक्ष्मम्मा पुट्टास्वामी, पुत्र—सिद्देगौड़ा प्रेमा, पत्नी—मरिमादैय्या रमेश अवयस्क अभिभावक माँ लक्ष्मम्मा प्रेमा, पत्नी—मरिमादैय्या प्रेमा, पत्नी—मरिमादैय्या प्रेमा, पत्नी—मरिमादैय्या बानसमुद्रा
30/2	निजी / सरकारी	नमी	275	रामकृष्णगौड़ा, पुत्र— कुल्लेगौड़ा चन्नेगौड़ा, पुत्र—कुल्लेगौड़ा गौरम्मा, पत्नी—कालेगौड़ा चिक्कराजू, पुत्र—कुल्लेगौड़ा प्रेमा, पत्नी—ईरणा भाग्यम्मा, पत्नी— दिवंगत बासवाराजू बी. सी. होम्बेगौड़ा, पुत्र—चन्नेगौड़ा बासवाराजू, पुत्र—मायप्पा उर्फ कुल्ला होट्टेगौड़ा राजू, पुत्र—कुल्लेगौड़ा वेंकटेश, पुत्र—होन्नेगौड़ा बी. एस. इन्द्राणी, पत्नी—बी. बी. बासवाराजू
सड़क-1	सरकारी	सड़क	30	सरकारी जायदाद (सड़क)
29	निजी / सरकारी	नमी	260	गौरम्मा, पत्नी—राजणा सिद्धरामू, पुत्र—तिरुमलेगौड़ा राजम्मा, पत्नी—शांताराजू
26/1	निजी / सरकारी	नमी	155	गौरम्मा, पत्नी—बी. एन. तिम्मेगौड़ा वेंकटप्पा, पुत्र—बुंदेगौड़ा गौरम्मा, पत्नी—बी. एन. तिम्मेगौड़ा
26/2	निजी / सरकारी	नमी	120	शारदाम्मा, पुत्री—चिक्कतायम्मा शिद्धरामू, पुत्र—तिरुमलेगौड़ा बी. टी. बासवाराजू, पुत्र—तिरुमलेगौड़ा
26/3	निजी / सरकारी	नमी	60	वेंकटप्पा, पुत्र—बूंदेगौड़ा गौरम्मा, पत्नी—दिवंगत बी. एन. तिम्मेगौड़ा

						यशोदाम्मा, पत्नी-बी. के. दोरेस्वामी				
						यशोदाम्मा, पत्नी-बी. के. दोरेस्वामी				
						26/4	निजी / सरकारी	नमी	380	बी. एस. महादेव, पुत्र-सिद्देगौड़ा
										बी. एस. महादेव, पुत्र-सिद्देगौड़ा
						सड़क-2	सरकारी	सड़क	35	सरकारी जायदाद (सड़क)
						24/1	निजी	शुष्क	135	कृष्णा, पुत्र-सिद्देगौड़ा डी. बी. जी. नागेन्द्र, पुत्र-सिद्देगौड़ा
						24/2	निजी	नमी	110	चिक्कसिद्देगौड़ा, पुत्र-बूंदेगौड़ा
						24/3	निजी / सरकारी	नमी	630	सिद्देगौड़ा, पुत्र-दोड्डसिद्देगौड़ा
										शिवलिंगैय्या, पुत्र-दोड्डसिद्देगौड़ा
										एस. नागराजू, पुत्र-दोड्डसिद्देगौड़ा
										तम्मैगौड़ा, पुत्र-दोड्डसिद्देगौड़ा
										बी. एस. महादेव, पुत्र-सिद्देगौड़ा
						23/1	निजी / सरकारी	नमी	280	चन्नेगौड़ा, पुत्र-दिवंगत दासेगौड़ा
										श्यानेगौड़ा, पुत्र-दिवंगत दासेगौड़ा
										वेंकटम्मा, पुत्री-दिवंगत वेंकटेगौड़ा
										एच. सुमंगलम्मा, पत्नी-वी. बासप्पा
										सी. बासवेगौड़ा, पुत्र-चन्नेगौड़ा
										सी. नंजुंदेगौड़ा, पुत्र-चन्नेगौड़ा
										सी. श्यानेगौड़ा, पुत्र-चन्नेगौड़ा
						21/1	निजी / सरकारी	नमी	495	सुमंगलम्मा, पत्नी-वी. बासप्पा
										एच. सुमंगलम्मा, पत्नी-वी. बासप्पा
						नाला-2	सरकारी	नाला	130	सरकारी जायदाद (नाला)
						174/1	निजी / सरकारी	नमी	385	बी. टी. नागरलम्मा, पुत्री-दिवंगत कुदरे हट्टी तिमप्पा
						173/1	निजी / सरकारी	नमी	240	बी. टी. नागरलम्मा, पुत्री-दिवंगत कुदरे हट्टी तिमप्पा
						173/2	निजी / सरकारी	शुष्क / नमी	520	रामास्वामी, पुत्र-कृष्णेगौड़ा
										महादेवम्मा, पत्नी-रंगास्वामी
168/1A	निजी / सरकारी	शुष्क	800	राजप्पा, पुत्र-होन्नेगौड़ा उर्फ चिक्कस्वामीगौड़ा						
168/1B	निजी / सरकारी	शुष्क	50	सी. सीतारमैय्या, पुत्र-सीतारामेगौड़ा						
168/1C	निजी / सरकारी	शुष्क	100	भद्रेगौड़ा, पुत्र-भद्रेगौड़ा						
168/2	निजी / सरकारी	नमी	200	पुट्टास्वामीगौड़ा, पुत्र-सिद्देगौड़ा						
168/3A	निजी / सरकारी	नमी	100	के. गणेश कुमार, पुत्र-एच. एम. केंचप्पा						
168/3B	निजी	नमी	50	निंगम्मा, पत्नी-चिक्कलिंगैय्या						
				एच. एम. केंचप्पा, पुत्र-मंचेगौड़ा						
168/3C	निजी	नमी	250	एच. एम. केंचप्पा,						

				पुत्र-मंचेगौड़ा
167/1	निजी / सरकारी	नमी	200	सरकारी तम्मैगौड़ा, पुत्र-होन्नेगौड़ा उर्फ तम्मैगौड़ा पी. नागेश, पुत्र-अप्पाजीगौड़ा कुल्लेगौड़ा, पुत्र-होन्नागौड़ा
104	निजी / सरकारी	खराब	1500	सरस्वताम्मा, पत्नी-दिवंगत वेंकटप्पा सरस्वताम्मा, पत्नी-दिवंगत वेंकटप्पा अंदनैय्या, पुत्र-सिद्धैय्या (दडमल्लि) मंजुला, पत्नी-शिवराम तिम्मैय्या, पुत्र-दिवंगत तिम्मरायप्पा वीरेगौड़ा, पुत्र-दिवंगत बासवेगौड़ा रत्नम्मा, पुत्रि-दिवंगत बासवेगौड़ा देवम्मा, पत्नी-दिवंगत बासवेगौड़ा
102/2	निजी	नमी	240	एच. एन. रामचन्द्रेगौड़ा, पुत्र-एच. नरसिम्हेगौड़ा डुण्डममा, पत्नी-दिवंगत कृष्णेगौड़ा एच. एन. रामचन्द्रेगौड़ा, पुत्र-एच. नरसिम्हेगौड़ा
103	निजी	नमी	700	एम. जयम्मा, पत्नी-एम. मेलेगौड़ा एम. जयम्मा, पत्नी-एम. मेलेगौड़ा
नाला-4	सरकारी	नाला	40	सरकारी जायदाद (नाला)
281	निजी / सरकारी	नमी	70	लंकेगौड़ा, पुत्र-बासवेगौड़ा जबिन ताज, पत्नी-हबिबुल्ला शरीफ बी. एल. बासवेगौड़ा, पुत्र-लंकेगौड़ा अब्दुल हमीद, पुत्र-मोहम्मद ईस्माइल अब्दुल हमीद, पुत्र-मोहम्मद ईस्माइल बी. ई. मरिगौड़ा, पुत्र-ईरेगौड़ा (भूवल्लि)
114/1	निजी	नमी	12	सिद्देगौड़ा, पुत्र-चेन्नेगौड़ा उर्फ होम्बेगौड़ा अब्दुल हमीद, पुत्र-मोहम्मद ईस्माइल
114/2	निजी / सरकारी	नमी	150	लंकेगौड़ा, पुत्र-बासवेगौड़ा बी. ई. मरिगौड़ा, पुत्र-ईरेगौड़ा एम. जे. डैविड, पुत्र-एम. डी. जोसेफ
114/3	निजी / सरकारी	नमी	108	शिवराम, पुत्र-गविसिद्देगौड़ा
115/2	निजी / सरकारी	नमी	108	एम. श्रीनिवास-मुनियप्पा मांगप्पणा पाल्या कुमार, पुत्र-वीरेगौड़ा रघु, पुत्र-एच. वीरेगौड़ा एन. रविन्द्र, पुत्र-एन. नागराजू
116/2	निजी	नमी	44	एल. नरेनगौड़ा, पुत्र-दिवंगत लक्ष्मणामूर्ति

				117/3	निजी / सरकारी	नमी	330	एल. नरेनगौड़ा, पुत्र-दिवंगत लक्ष्मणामूर्ति
				119	सरकारी	शुष्क	256	सरकारी
				130/1	निजी / सरकारी	नमी	80	ताम्मैय्या गौड़ा, पुत्र-दोड्डसिद्देगौड़ा
				130/2	निजी / सरकारी	नमी	280	सिद्दलिंगेगौड़ा, पुत्र-चिक्कसिद्देगौड़ा सिद्देगौड़ा, पुत्र-बूंदेगौड़ा शिवनागम्मा, पत्नी-राजू सिद्देगौड़ा, पुत्र-बूंदेगौड़ा शिवनागम्मा, पत्नी-राजू नागम्मा, पत्नी-सिद्देगौड़ा शिवलिंगेगौड़ा, पुत्र-दिवंगत कालेगौड़ा नागराजू, पुत्र-दिवंगत कालेगौड़ा पी. के. पूवम्मा, पत्नी-कारियप्पा पी. के. पूवम्मा, पत्नी-कारियप्पा
				133/3	निजी / सरकारी	शुष्क	90	वेंकटप्पा, पुत्र-दिवंगत चन्नेगौड़ा बोरेगौड़ा, पुत्र-बासवेगौड़ा
				नाला-3	सरकारी	नाला	45	सरकारी जायदाद (नाला)
				158	निजी / सरकारी	शुष्क	70	हलगेगौड़ा, पुत्र-वीरेगौड़ा रामास्वामी, पुत्र-वेंकटेगौड़ा रामास्वामी, पुत्र-वेंकटेगौड़ा चिंदेगौड़ा, पुत्र-होन्नेगौड़ा
				159/3A	निजी / सरकारी	शुष्क	75	चिंदेगौड़ा, पुत्र-होन्नेगौड़ा चिंदेगौड़ा, पुत्र-होन्नेगौड़ा चिंदेगौड़ा, पुत्र-होन्नेगौड़ा चिंदेगौड़ा, पुत्र-होन्नेगौड़ा
				159/2	निजी / सरकारी	शुष्क	72	चिंदेगौड़ा, पुत्र-होन्नेगौड़ा निंगम्मा, पत्नी-चिंदेगौड़ा निंगम्मा, पत्नी-चिंदेगौड़ा
				160/1	निजी / सरकारी	शुष्क	50	निंगम्मा, पत्नी-दिवंगत होन्नेगौड़ा
				160/6	निजी	शुष्क	27	जी. गिरियप्पा, पुत्र-दिवंगत गिरिगौड़ा
				161/1	निजी / सरकारी	शुष्क	110	एस. सीतारमैय्या, पुत्र-सीतारमैय्या होन्नेगौड़ा, पुत्र-करियप्पा करियप्पा, पुत्र-करियप्पा केम्पेगौड़ा, पुत्र-सुब्बेगौड़ा गोलीगौड़ा, पुत्र-मरगूलिगौड़ा
				161/2	निजी	शुष्क	200	के. नागराजू, पुत्र-कृष्णेगौड़ा रामास्वामी, पुत्र-कृष्णेगौड़ा
				163	निजी / सरकारी	शुष्क	2000	एस. सीतारमैय्या, पुत्र-सीतारामेगौड़ा नीलेगौड़ा, पुत्र-वेंकटेगौड़ा सरकारी मुद्देगौड़ा, पुत्र-मुद्देगौड़ा
				166	सरकारी	खराब	320	सरकारी खराब
				15. तोरेकदन हल्लि	कादम्बा नदी	नदी	2400	कादम्बा नदी
				74/1	निजी	शुष्क	220	लिंगैय्या, पुत्र-जावरैय्या
				74/2A	निजी	शुष्क	125	केम्पदासेगौड़ा,

				पुत्र-कम्पदासेगौड़ा उर्फ करगेगौड़ा होन्नम्मा, पत्नी-मुनियैय्या
74/2B	निजी	शुष्क	235	वेंकटगौड़ा उर्फ शिव कुमार अवयस्क अभिभावक माँ पदमम्मा होन्नम्मा, पत्नी-मुनियैय्या
75/2B	निजी	शुष्क	50	शोभा, पुत्री-कृष्णा
75/2C	निजी	शुष्क	50	टी. वी. नागवैणी, पत्नी-एम. नारायणस्वामी
81/2A1	निजी	शुष्क	50	टी. वी. कनकगिरि, पुत्र-टी. वेंकटदासप्पा वेंकटगौड़ा उर्फ पुट्टेगौड़ा, पुत्र-दिवंगत पा. तिममा दासेगौड़ा
81/2B2	निजी	शुष्क	25	आर टी सी के अनुसार
76	निजी / सरकारी	शुष्क	30	चिक्कताम्मैय्या, पुत्र-दासेगौड़ा मोटम्मा, पत्नी-सन्नैय्या देवम्मा, पत्नी-कीनैयना सिद्धैय्या दोड्डसिद्धैय्या, पुत्र-होन्नसिद्धैय्या मुनियैय्या, पुत्र-बोरा उर्फ कोदला सिद्धरम्मैय्या, पुत्र-बोरैय्या सिद्धराजू, पुत्र-सन्नैय्या ताम्मैय्या, पुत्र-चिक्कदैय्या सिद्धराजू, पुत्र-बोरैय्या मुनिस्वामी, पुत्र-मुनियैय्या
सड़क-1	सरकारी	सड़क	55	सरकारी जायदाद (सड़क)
80/1	निजी	शुष्क	25	शिवण्णा
80/2B	निजी / सरकारी	शुष्क	75	जी. मादप्पा, पुत्र-गुरुमादप्पा
80/2A	निजी / सरकारी	शुष्क	150	पुट्टदासेगौड़ा, पुत्र-कम्पदासेगौड़ा उर्फ करगेगौड़ा
12/5B1	निजी / सरकारी	शुष्क	25	आर टी सी के अनुसार
12/6A1A	निजी / सरकारी	शुष्क	25	आर टी सी के अनुसार
12/6A1B	निजी / सरकारी	शुष्क	25	आर टी सी के अनुसार
12/7.	निजी	शुष्क	50	चौदैय्या, पुत्र-सिद्ध उर्फ कुल्ला मरिदासा, पुत्र-करिमुथैय्या देवीरम्मा, पत्नी-बी. सी. होम्बेगौड़ा लिंगम्मा, पत्नी-चिक्कपुट्टैय्या लिंगम्मा, पत्नी-चिक्कपुट्टैय्या के. एस. राजशेखरप्पा, पुत्र-कोडगल्लि सुब्बण्णा के. एस. राजशेखरप्पा, पुत्र-कोडगल्लि सुब्बण्णा लिंगैय्या, पुत्र-नंजैय्या लिंगैय्या, पुत्र-नंजैय्या मुनिस्वामी, पुत्र-मुनियैय्या मुनियैय्या, पुत्र-काटकैय्या
79/1A	निजी / सरकारी	शुष्क	120	शिवम्मा, पत्नी-टी. मादैय्या गौरम्मा, पत्नी-वेंकटप्पा

				79/1B	निजी	शुष्क	30	केम्पम्मा, पत्नी—लिंगेगौड़ा
				64/4	निजी	शुष्क	30	कावेरी जल आपूर्ति बंगलौर
				64/3	निजी	शुष्क	156	कावेरी जल आपूर्ति बंगलौर
				64/1A	निजी	शुष्क	186	आर टी सी के अनुसार
				64/1B	निजी	शुष्क	156	आर टी सी के अनुसार
				63/2	सरकारी	शुष्क	114	कावेरी जल आपूर्ति बंगलौर
				63/1	सरकारी	शुष्क	480	कावेरी जल आपूर्ति बंगलौर
				13/2	निजी	शुष्क	40	आर टी सी के अनुसार
				13/1B	निजी / सरकारी	शुष्क	280	आर टी सी के अनुसार
				13/1C	निजी / सरकारी	शुष्क	160	आर टी सी के अनुसार
				62/1	सरकारी	शुष्क	114	कावेरी जल आपूर्ति बंगलौर
				62/2	सरकारी	शुष्क	20	कावेरी जल आपूर्ति बंगलौर
				16/2B2	निजी	शुष्क	176	के. सरस्वती, पत्नी—एस. एन. राजू बी. वी. सिद्देगौड़ा, पुत्र—वीरेगौड़ा
				17/2	निजी	शुष्क	40	रेनुकाम्मा, पुत्री—दिवंगत रामचंद्र दास, पुत्र—दोड्डेमोल्ले शिवण्णा, पुत्र—मादेगौड़ा ऐलिनेटेड मंगला, पुत्री—महाबालेश्वर नायर मंगला, पुत्री—महाबालेश्वर नायर
				17/4	निजी / सरकारी	शुष्क	60	ग्रामताणा मुनियैय्या, पुत्र—होनेय्या
				17/3	निजी / सरकारी	शुष्क	192	एच. टी. यशोदाम्मा, पुत्री—तिम्मगौड़ा केपीटीसीएल (टी. के. हल्लि) सुशीलाम्मा, पत्नी—चौदैय्या
				58/1	सरकारी	शुष्क	132	कावेरी जल आपूर्ति बंगलौर
				58/2	सरकारी	शुष्क	228	कावेरी जल आपूर्ति बंगलौर
				57	निजी / सरकारी	शुष्क	306	बाँटा गया केनल इग्लूर बांध के लिए अर्जित एन. सम्पत, पुत्र—टी. एस. नारायणन बाँटा गया केनल इग्लूर बांध के लिए अर्जित एच. आर. शिव कुमार, पुत्र—रुद्रप्पा टी. तिम्मगौड़ा, पुत्र—चिक्क तिम्मगौड़ा
				18	निजी	शुष्क	375	के. एस. परमेश, पुत्र—सुब्बण्णा केपीटीसीएल (टी. के. हल्लि) माल्लण्णा, पुत्र—सुब्बण्णा केपीटीसीएल (टी. के. हल्लि) के. एस. सुंदरप्पा, पुत्र—सुब्बण्णा के. एस. परमेश, पुत्र—सुब्बण्णा केपीटीसीएल (टी. के. हल्लि)
				नाला-1	सरकारी	नाला	165	सरकारी जायदाद (नाला)
				31	निजी / सरकारी	शुष्क	320	मुद्दाशेटी उर्फ कूरशेटी, पुत्र— मुद्दा शेटी मुद्दाशेटी उर्फ कूरशेटी, पुत्र—मुद्दा शेटी

16. चिल्लपुरा	34	निजी	शुष्क	1055	निर्मला, पत्नी—गोपाल चन्नेगौड़ा, पुत्र—केम्पेगौड़ा शिवम्मा, पत्नी—रमेश शिवस्वामी, पुत्र—दिवंगत मादेगौड़ा
	35	सरकारी	शुष्क	70	सरकारी
	सड़क-1	सरकारी	सड़क	45	सरकारी जायदाद (सड़क) एम. शिवरुद्रप्पा, पुत्र—मादप्पा उर्फ करियप्पा
	28/1	निजी / सरकारी	शुष्क	690	बाँटा गया केनल इग्लूर बांध के लिए अर्जित जयम्मा, पत्नी—दिवंगत एम. नागराजप्पा
	27/1	निजी / सरकारी	शुष्क	1500	एच. आई. हबीबुल्ला, पुत्र—दिवंगत एच. आर. ईपाक साहेब एस. मल्लेश, पुत्र—शिवण्णा एम. महादेवस्वामी, पुत्र—एम. सी. मादप्पा
	27/2	निजी	शुष्क	160	आर टी सी के अनुसार
	सड़क-2	सरकारी	सड़क	75	सरकारी जायदाद (सड़क)
	5	निजी / सरकारी	शुष्क	456	बी. उमाशंकर, पुत्र—दिवंगत जी. बासप्पा पार्वतम्मा, पत्नी—दिवंगत एम. बासवराजप्पा डी. एल. मादेगौड़ा, पुत्र—दिवंगत सी. लिंगेगौड़ा डी. एल. मादेगौड़ा, पुत्र—दिवंगत सी. लिंगेगौड़ा
	12/2	निजी / सरकारी	शुष्क	1000	एच. के. गंगाधरस्वामी, पुत्र—कन्नप्पा बाँटा गया केनल इग्लूर बांध के लिए अर्जित
	12/3	निजी / सरकारी	शुष्क	915	नंजम्मणियम्मा, पत्नी—नंजुंदप्पा बाँटा गया केनल इग्लूर बांध के लिए अर्जित
	11	निजी / सरकारी	शुष्क	910	रेवम्मा, पत्नी—दिवंगत बासवराजप्पा एच. सी. एच. सी. सुग्रीवप्पा, पुत्र—दिवंगत एस. चिक्कबासप्पा बोज्जैय्या, पुत्र—दिवंगत शेटी दोड्डताम्मैय्या एच. के. ताम्मैय्या, पुत्र—कादशेटी एच. एस. ताम्मैय्या एवं करियप्पा, पुत्र—दिवंगत सिद्दशेटी राजू पत्नी चिक्कतायम्मा (संयुक्त) एच. डी. पुट्टास्वामी, पुत्र—दिवंगत दोड्डमूगा
	10/1.	निजी / सरकारी	शुष्क	128	नंजम्मणि, पत्नी—एच. जे. नंजुंदप्पा
	10/4.	निजी / सरकारी	शुष्क	60	महादेश्वरा चावल गोदाम प्रबंधक—एच. एम. शिवस्वामी
17. हूल्लगरु	219/3	निजी	शुष्क	225	आर टी सी के अनुसार
	219/2	निजी	शुष्क	3600	आर टी सी के अनुसार
	229/2C	निजी / सरकारी	शुष्क	425	एच. एम. नागेश, पुत्र—दिवंगत एच. एम. मल्लिकार्जुनप्पा
	226	निजी / सरकारी	नमी	2200	बी. बासवण्णा, पुत्र—बोजप्पना

				बासप्पा
				एम. नागराजू, पुत्र—दिवंगत मादप्पा
225	निजी / सरकारी	नमी	1260	भोगेगौड़ा, पुत्र—केंचेगौड़ा
224/1	निजी / सरकारी	नमी	780	चिक्कतायम्मा, पत्नी—भोगेगौड़ा एच. एम. नागेश, पुत्र—दिवंगत एच. एम. मल्लिकार्जुनप्पा
223/2	निजी / सरकारी	शुष्क	2160	भोगेगौड़ा, पुत्र—केंचेगौड़ा बौटा गया केनल इग्लूर बांध के लिए अर्जित
193	निजी / सरकारी	शुष्क	4850	शाम्भ्रम श्री रुद्रमणि शिवचर्या स्वामीगलू — हूल्लगरु
194	निजी / सरकारी	शुष्क	1185	एम. प्रभुस्वामी, पुत्र—मल्लण्णा ईग्लुरु नाला के लिए अर्जित चंद्रम्मा, पत्नी—बासप्पा
190	निजी / सरकारी	शुष्क / बागीचा	30	सिदैय्या, पुत्र—मोल्लैय्या ईरैय्या, पुत्र—केंचैय्या कालम्मा, पत्नी—चिक्कनैय्या चन्नेगौड़ा, पुत्र—एच. सी. बोगेगौड़ा मादैय्या, पुत्र—बोमैय्या उर्फ ईरैय्या एच. एस. महादेवैय्या, पुत्र—कुडैय्या ईरैय्या, पुत्र—ईरैय्या उर्फ रायमणि शिवमादैय्या, पुत्र—दोडुवीरैय्या (संयुक्त) शिवण्णा, पुत्र—सिदैय्या ईरैय्या, पुत्र—सिदैय्या
नाला-1	सरकारी	नाला	1280	सरकारी जायदाद (नाला)
185	निजी / सरकारी	शुष्क	50	मादैय्या, पुत्र—बोमैय्या उर्फ ईरैय्या ईग्लुरु नाला के लिए अर्जित
186/1	निजी / सरकारी	बागीचा	3435	पा. मादेगौड़ा, पुत्र—मादेगौड़ा उर्फ अन्नैय्या नागण्णा, पुत्र—दिवंगत चिक्क मादेगौड़ा ईग्लुरु नाला के लिए अर्जित
186/2	निजी / सरकारी	बागीचा	3485	बी. एम. शिवण्णा, पुत्र—पा. बी. मादेगौड़ा बी. एम. हुचेगौड़ा उर्फ सोमू, पुत्र—बी. मादेगौड़ा बी. एच. शिवप्रसाद, पुत्र—दिवंगत बी. एम. हुचेगौड़ा
नाला-2	सरकारी	नाला	4250	सरकारी जायदाद (नाला)
183	सरकारी	खराब	30	सरकारी
182	निजी / सरकारी	शुष्क	80	वीरभद्र देवरु वीरभद्र देवरु बी. एम. शिवण्णा, पुत्र—बी. मादेगौड़ा
सड़क-1	सरकारी	सड़क	465	सरकारी जायदाद (सड़क)
179	निजी / सरकारी	बागीचा	1135	एच. एस. बोगेगौड़ा उर्फ श्रीधर, पुत्र—शिवभोगेगौड़ा
नाला-3	सरकारी	नाला	335	सरकारी जायदाद (नाला)

				152/1	निजी / सरकारी	शुष्क	2400	बी. के. चिक्कस्वामी, पुत्र—करियप्पा
				152/2	निजी / सरकारी	शुष्क	715	गिद्देगौड़ा, पुत्र—गुरुवेगौड़ा उर्फ पुट्टास्वामी रमैया, पुत्र—गुरुवेगौड़ा उर्फ पुट्टास्वामीगौड़ा गिद्देगौड़ा, पुत्र—गुरुवेगौड़ा गुरप्पा, पुत्र—गुरुवेगौड़ा उर्फ पुट्टास्वामीगौड़ा
				152/3	निजी	शुष्क	795	वैकटेश, पुत्र—गुरुवेगौड़ा उर्फ पट्टास्वामीगौड़ा बी. के. चिक्कस्वामी, पुत्र—करियप्पा
			18. शिवनहल्लि	1	निजी / सरकारी	शुष्क / नमी / बागीचा	1620	प्रेमम्मा, पत्नी—एच. एस. मंचेगौड़ा शिवराजू, पुत्र—लिंगेगौड़ा प्रेमम्मा, पत्नी—एच. एस. मंचेगौड़ा प्रेमम्मा, पत्नी—एच. एस. मंचेगौड़ा
			19. हगडूरु	नाला-1	सरकारी	नाला	485	सरकारी जायदाद (नाला)
				58	निजी	शुष्क	3460	जयम्मा, पत्नी—दिवंगत चन्नेगौड़ा मयीगौड़ा—जयम्मा, पत्नी—चन्नेगौड़ा महेशा, पुत्र—दिवंगत मादेगौड़ा निंगेगौड़ा, पुत्र—दिवंगत डोनेगौड़ा
				57/1	निजी	शुष्क	1639	मादेगौड़ा, पुत्र—कुंदूरेगौड़ा राजू, पुत्र—जूंजेगौड़ा महादेव, पुत्र—सिद्देगौड़ा सी. महादेवेगौड़ा, पुत्र—कुंदूरेगौड़ा उर्फ चिक्कमूगा सिद्देगौड़ा, पुत्र— बद्देगौड़ा
				57/2A	निजी	शुष्क	1285	आर टी सी के अनुसार
				56	निजी / सरकारी	शुष्क	1980	एम. एम. शिवमाडू, पुत्र—मंचेगौड़ा राजू, पुत्र—जूंजेगौड़ा
				55/1A	निजी / सरकारी	शुष्क	1010	एच. बी. पवित्रा, पत्नी—एच. योगेश
				59	निजी / सरकारी	शुष्क / बागीचा	5800	सरोजाम्मा, पत्नी—ताम्मैय्या निर्मला जगदीश लौकेश एम. एम. सुरेश अशोक, पुत्र—मंचेगौड़ा श्रीमति प्रमिला, पुत्र—बी. बासवैया
				60/2	निजी / सरकारी	शुष्क / बागीचा	1955	आर टी सी के अनुसार
				60/1	निजी / सरकारी	शुष्क	320	पुट्टमादम्मा, पत्नी—दिवंगत भोगेगौड़ा उर्फ करियप्पा चन्नम्मा (संयुक्त) श्री श्रीनिवास, पुत्र—तम्मन्नागौड़ा एच. टी. श्रीनिवास एच. टी. मोहनदास, पुत्र—एच. सी. ताम्मैय्या

					रमेशा, पुत्र-दिवंगत सिद्देगौड़ा
					पुट्टास्वामी, पुत्र-दिवंगत सिद्देगौड़ा
					रवि, पुत्र-तम्मगौड़ा ऐलिनेटेड
					रवि, पुत्र-तम्मगौड़ा
				80	रमेशा, पुत्र-दिवंगत सिद्देगौड़ा
					पुट्टास्वामी, पुत्र-दिवंगत सिद्देगौड़ा
					रवि, पुत्र-तम्मगौड़ा
					मुत्तू, पुत्र-तम्मगौड़ा
					पुट्टास्वामी, पुत्र-दिवंगत सिद्देगौड़ा
				65/1	एच. एम. सतीश, पुत्र-मादेगौड़ा
					रामू, पुत्र-ईरगौड़ा
				64/1	कलमरेगौड़ा, पुत्र-शिवानेगौड़ा उर्फ सन्नेगौड़ा
					शिवण्णा, पुत्र-चिक्क वीरेगौड़ा उर्फ ताम्मैय्या
				64/2	के. शिवण्णा, पुत्र-केम्पेगौड़ा
				3	वासुदेव सोनी, पुत्र-मिश्रीमल जी
					वासुदेव सोनी, पुत्र-माश्रीमाला जी
					मादेगौड़ा, पुत्र-ईरगौड़ा
					गीता, पत्नी-दिवंगत डी. नंजेगौड़ा
					एच. एम. मादेगौड़ा, पुत्र-मादेगौड़ा उर्फ चिक्कण्णा
					नंजेगौड़ा, पुत्र-ईरगौड़ा
					गीता, पत्नी-दिवंगत डी. नंजेगौड़ा
					एच. एम. मादेगौड़ा, पुत्र-मादेगौड़ा उर्फ चिक्कण्णा
					नंजेगौड़ा, पुत्र-ईरगौड़ा
					मादेगौड़ा, पुत्र-ईरगौड़ा
					जयम्मा, पत्नी-देवम्मा
					एच. पी. प्रसन्ना, पुत्र-नरसिम्हेगौड़ा उर्फ पुट्टास्वामीगौड़ा
				नाला-1	सरकारी जायदाद (नाला)
				5	एच. आर. श्रीनिवास, पुत्र-रामेगौड़ा
					एच. टी. नारायणा, पुत्र-गुरुवेगौड़ा शशिकला, पत्नी-एच. टी. नारायणा
					एच. टी. राजू, पुत्र-गुरुवेगौड़ा
					इंद्रा, पत्नी-एच. टी. राजू
					निर्मला, पत्नी-दिवंगत एच. टी. चंद्रशेखर
					एच. टी. श्रीनिवास, पुत्र-गुरुवेगौड़ा
					एच. टी. रामचन्द्र, पुत्र-गुरुवेगौड़ा
					उमा, पुत्री-दिवंगत एच. टी. अश्वत्त
					मासुदेव सोनी, पुत्र-मालाजी

					हेमलता, पुत्री—जी. रामचंद्र
20. होसपेटे बसवपुरा	नाला-1	सरकारी	नाला	295	सरकारी जायदाद (नाला)
	5/1	निजी	शुष्क	255	आर. टी. सी. खारिज
	6/1	निजी	शुष्क	508	एच. एस. कृष्णा, पुत्र—शिवलिंगेगौड़ा
					शिवम्मा, पत्नी—करियप्पा
	6/2	निजी	शुष्क	392	एच. वी. श्रीकांत, पुत्र—दिवंगत विश्वांतेगौड़ा
	6/3	निजी / सरकारी	शुष्क	2272	एच. वी. श्रीकांत, पुत्र—दिवंगत विश्वांतेगौड़ा
	6/4	निजी / सरकारी	शुष्क	1880	श्रीमति कमलाम्मा, पत्नी—केम्पेगौड़ा
					ए. के. मरिगौड़ा, पुत्र—दिवंगत केम्पुगौड़ा
					कमलाम्मा, पत्नी—केम्पेगौड़ा
					ए. के. मरिगौड़ा, पुत्र—दिवंगत केम्पुगौड़ा
	6/5.	निजी / सरकारी	शुष्क	1800	एच. एस. कृष्णा, पुत्र—शिवलिंगेगौड़ा
					पुट्टलिंगेगौड़ा, पुत्र—दिवंगत लिंगेगौड़ा उर्फ करिगौड़ा
					जे. सुजाता, पत्नी—के. सिंहय्या
	सड़क-1	सरकारी	सड़क	560	सरकारी जायदाद (सड़क)
	24	निजी / सरकारी	शुष्क	3100	नागलिंगाशेट्टी, पुत्र—सुब्बाशेट्टी उर्फ मूगाशेट्टी
					नागलिंगाशेट्टी, पुत्र—सुब्बाशेट्टी उर्फ मूगाशेट्टी
					देवेगौड़ा, पुत्र—देवेगौड़ा
					नागलिंगाशेट्टी, पुत्र—द्यावशेट्टी उर्फ मूगाशेट्टी
					मंजम्मा, पत्नी—सुब्बाशेट्टी
	23	निजी / सरकारी	शुष्क	1927	बसुराजम्मा, पुत्री—पार्वतम्मा
					रमेशा, पुत्र—बासवेगौड़ा उर्फ ताम्मय्या
	16/2	निजी	बागीचा	175	बासवेश
					भैरप्पा
					एच. डी. महादेव, पुत्र—बी. देवीसिद्देगौड़ा
					आर. कोण्डपपा, पुत्र—रामण्णा
					के. टी. वेंकटरामू, पुत्र—तिम्मगौड़ा
	सड़क-2	सरकारी	सड़क	30	सरकारी जायदाद (सड़क)
	17/1	निजी	बागीचा	80	एच. डी. महादेव, पुत्र—बी. देवीसिद्देगौड़ा
					एच. डी. महादेव, पुत्र—देवीसिद्देगौड़ा
	17/4	निजी	बागीचा	155	बी. शिवलिंगेगौड़ा, पुत्र—बासवेगौड़ा
					एच. बी. सुधाकर, पुत्र—पुट्टस्वामीगौड़ा
					शिवलिंगेगौड़ा, पुत्र—लिंगेगौड़ा
					शिवलिंगेगौड़ा, पुत्र—लिंगेगौड़ा
					एच. बी. सुधाकर, पुत्र—पुट्टस्वामीगौड़ा
	17/2	निजी	शुष्क / बागीचा	255	शंकरेगौड़ा, पुत्र—गोविंदेगौड़ा
					कृष्णेगौड़ा, पुत्र—गोविंदेगौड़ा
					शकुंतला, पत्नी—कृष्णेगौड़ा
					शकुंतला, पत्नी—कृष्णेगौड़ा

				17/3	निजी	बागीचा	50	एच. बी. सिद्धरामगौड़ा, पुत्र-बासवेगौड़ा उर्फ ताम्मैय्या
				22	निजी / सरकारी	शुष्क / बागीचा	740	अनुराधा, पत्नी-एच. बी. सुधाकर
				नाला-2	सरकारी	नाला	90	बी. लक्ष्मीकांत, पुत्र-बी. बासवाराजेगौड़ा
				19	निजी	शुष्क / बागीचा	275	सरकारी जायदाद (नाला)
								बी. शिवलिंगेगौड़ा, पुत्र-बासवेगौड़ा
								के. पालिनी, पुत्र-कानन
								के. पालिनी, पुत्र-कानन
								एच. डी. श्रीनिवास, पुत्र-बी. देवी सिद्देगौड़ा
								के. पालिनी, पुत्र-कानन
								एच. डी. श्रीनिवास, पुत्र-बी. देवी सिद्देगौड़ा
				18	निजी / सरकारी	शुष्क	340	सुवर्णादेवी, पत्नी-कालेगौड़ा
								श्रीनिवासा, पुत्र-गोविंदेगौड़ा
								सुवर्णादेवी, पत्नी-कालेगौड़ा
			21. गुंडपुरा	नाला-1	सरकारी	नाला	340	सरकारी जायदाद (नाला)
				111/1	निजी	शुष्क	200	सी. वेंकटेश गौड़ा, पुत्र-दिवंगत पा चौदे गौड़ा
				111/2	निजी	शुष्क	85	जे. नन्दीश, पुत्र-कमलाम्मा
				111/3	निजी	शुष्क	105	जे. नन्दीश, पुत्र-कमलाम्मा
				111/4	निजी	शुष्क	280	यशोदाम्मा, पत्नी-लिंगेगौड़ा
								सुंदरराजे उर्स, पुत्र-बासवाराजे उर्स
								देवराजे उर्स, पुत्र-बासवाराजे उर्स
								डी. सुवर्णादेवी, पत्नी-कालेगौड़ा
				111/5	निजी	शुष्क	75	सिद्देगौड़ा उर्फ कुल्लेगौड़ा, पुत्र-कालेगौड़ा
								सिद्देगौड़ा उर्फ कुल्लेगौड़ा, पुत्र-कालेगौड़ा
				111/6C	निजी	शुष्क	30	आर टी सी के अनुसार
				111/6A	निजी	शुष्क	65	जयम्मा, पत्नी-दिवंगत चिक्कमुद्दिरेगौड़ा
				111/7A	निजी / सरकारी	शुष्क	110	आर टी सी के अनुसार
				111/8	निजी	शुष्क	30	यशोदाम्मा, पुत्री-होन्नेगौड़ा
				112	निजी	शुष्क	310	गौरम्मा, पत्नी-शिवण्णा
				113	निजी	शुष्क	190	प्रथम पुत्र नंजुंदाराध्या
								द्वितीय पुत्र मल्लाराध्या, पुत्र-नंजप्पाराध्या
								नंजुंदाराध्या, पुत्र-दिवंगत नंजप्पाराध्या
								प्रथम पुत्र नंजुंदाराध्या, पुत्र-नंजप्पाराध्या
								द्वितीय पुत्र मल्लाराध्या, पुत्र-नंजप्पाराध्या
				123	निजी / सरकारी	शुष्क	30	मयिगौड़ा, पुत्र-मयिगौड़ा
								बासवेगौड़ा, पुत्र-मयिगौड़ा
								एच. एम. आनन्द, पुत्र-एच. पी. महादेवप्पा
								नंजुंदाराध्या, पुत्र-नंजप्पाराध्या
								मल्लाराध्या, पुत्र-नंजप्पाराध्या
								मल्लाराध्या, पुत्र-दिवंगत नंजप्पाराध्या

				नंजुंदाराध्या, पुत्र—नंजप्पाराध्या
				गौरम्मा, पत्नी—दिवंगत
				सिद्देगौड़ा उर्फ चिक्कमरिगौड़ा
				जी. एस. कलराजेगौड़ा,
				पुत्र—सिद्देगौड़ा उर्फ
				चिक्कमरिगौड़ा
				जी. एस. कलराजेगौड़ा,
				पुत्र—सिद्देगौड़ा उर्फ
				चिक्कमरिगौड़ा
				सावित्राम्मा, पत्नी—सिद्देगौड़ा
				केम्पेगौड़ा, पुत्र—केम्पेगौड़ा
				ईरिगौड़ा, पुत्र—केम्पेगौड़ा
सड़क-1	सरकारी	सड़क	155	सरकारी जायदाद (सड़क)
107/1A1	निजी	शुष्क	685	बी. बासवाराजू, पुत्र—दिवंगत
				पुट्टसिद्धम्मा
107/1A2	निजी	शुष्क	100	बी. बी. विजयगौड़ा,
				पुत्र—बासवेगौड़ा उर्फ ताम्मैय्या
107/1B1	निजी	शुष्क	100	बी. बी. विजयगौड़ा, पुत्र—बी.
				बासवेगौड़ा उर्फ ताम्मैय्या
107/1B2	निजी	शुष्क	225	भाग्यम्मा, पत्नी—बी. शिवैय्या
107/2	निजी	शुष्क	300	मादप्पा, पुत्र—चिक्कण्णा
124/8	निजी	शुष्क	50	होन्नरामेगौड़ा, पुत्र—दिवंगत
				होन्नेगौड़ा
				एम. रमेश, पुत्र—मुनियप्पा
				जयलक्ष्मी, पत्नी—एम. रमेश
124/1	निजी	शुष्क	175	मादप्पा, पुत्र—चिक्कण्णा
				बी. के. शिवहोन्नेगौड़ा,
				पुत्र—केम्पेगौड़ा
				कंचेगौड़ा, पुत्र—होन्नेगौड़ा
124/2	निजी / सरकारी	शुष्क	125	एच. वी. सरोजम्मा,
				पत्नी—दिवंगत एच. डी. रमेश
124/3	निजी / सरकारी	शुष्क	150	एच. वी. सरोजम्मा,
				पत्नी—दिवंगत एच. डी. रमेश
124/4	निजी / सरकारी	शुष्क	300	एच. वी. सरोजम्मा,
				पत्नी—दिवंगत एच. डी. रमेश
124/5	निजी / सरकारी	शुष्क	145	एच. एन. रामचंद्रगौड़ा,
				पुत्र—दिवंगत नरसिम्हेगौड़ा
				हलगुरु
124/6	निजी	शुष्क	120	एच. एन. रामचंद्रगौड़ा,
				पुत्र—दिवंगत नरसिम्हेगौड़ा
				एच.
106/1	निजी	शुष्क	200	मादप्पा, पुत्र—चिक्कण्णा
सड़क-2	सरकारी	सड़क	115	सरकारी जायदाद (सड़क)
126/5	निजी	शुष्क	45	गौरम्बिका, पत्नी—बासवाराध्या
126/4	निजी	शुष्क	30	एस. सिद्देय्या, पुत्र—सिद्देगौड़ा
				उर्फ करिगौड़ा
161	निजी	शुष्क	340	ए. एम. अमृताम्मण्णी,
				पत्नी—दिवंगत देवराजे उर्स
160/1B	निजी	शुष्क	75	कुल्लैय्या, पुत्र—कुल्लैय्या
160/2	निजी / सरकारी	शुष्क	300	एम. बासवाराजू,
				पुत्र—मुनियैय्या
				एम. बासवाराजू,
				पुत्र—मुनियैय्या
163/1B1	निजी / सरकारी	शुष्क	30	महादेवस्वामी, पुत्र—दिवंगत
				शिवनंजप्पा
163/1B2	निजी	शुष्क	55	एस. शशिकुमार, पुत्र—श्रीधर
				भट्ट
163/1B3	निजी	शुष्क	60	एस. शशिकुमार, पुत्र—श्रीधर
				भट्ट
163/1A2	निजी	शुष्क	95	शशिकुमार एस., पुत्र—श्रीधर

					भट्ट
	163/1A1	निजी	शुष्क	120	भाग्यम्मा, पुत्री-पुट्टलिंगम्मा भाग्यम्मा, पुत्री-दिवंगत पुट्टलिंगम्मा अरसम्मा, पुत्री-दिवंगत पुट्टलिंगम्मा
	6	निजी / सरकारी	शुष्क	30	जी. डी. बासवाराजे उर्स, पुत्र-देवराजे उर्स
	नाला-2	सरकारी	नाला	180	सरकारी जायदाद (नाला)
	7	निजी / सरकारी	शुष्क	600	जी. चन्नैय्या, पुत्र-चन्नैय्या गौरम्मा, पत्नी-के. एन. नागराजैय्या पुट्टसुन्दाम्मणि, पत्नी-प्रेमराजे उर्स प्रमराजेउर्स, पुत्र-दिवंगत देवराजे उर्स पुट्टस्वामी, पुत्र-चामेगौड़ा प्रमराजेउर्स, पुत्र-देवराजे उर्स पुट्टस्वामी, पुत्र-चामेगौड़ा
	158	निजी / सरकारी	शुष्क	520	नागराजू, पुत्र-तम्माडी मादप्पा गिरिजाम्मा, पुत्री-ताम्बाडी मादप्पा
					देवम्मा, पत्नी-लिंगयाना नागराजू, पुत्र-तम्माडी मादप्पा प्रेमम्मा, पत्नी-नागण्णा
	8/1.	निजी	शुष्क / बागीचा	85	पुट्टस्वामी, पुत्र-चामेगौड़ा
	8/2.	निजी	शुष्क	100	पुट्टराजेउर्स, पुत्र-पुट्टराजेउर्स
	8/3B	निजी	शुष्क	120	एच. एम. आनन्द, पुत्र-एच. पी. महादेवप्पा
	8/3A	निजी	शुष्क	110	एम. सी. पुट्टस्वामी, पुत्र-ए. मास्तिगौड़ा जी. एन. सुब्रमण्यराजे उर्स, पुत्र-जी. नंजराजे उर्स
22. दलवाई कोडिहल्लि	87/1	निजी	शुष्क	184	जयशंकरप्पा, पुत्र-महादेवप्पा
	87/2	निजी	शुष्क	714	अन्नेगौड़ा, पुत्र-चिक्कलिंगेगौड़ा
	85	निजी	शुष्क	1155	एस. शिवलिंगेगाड़ा, पुत्र-शिवलिंगेगौड़ा चौदम्मा, पत्नी-निंगैय्या
	124	ईनाम	शुष्क	105	बासवेश्वरा देवरु
	74/1	निजी	शुष्क	120	मल्लिकार्जुनप्पा, मल्लण्णा
	74/2	निजी	शुष्क	130	आर टी सी के अनुसार
	74/3C	निजी	शुष्क	75	मादेगौड़ा, पुत्र-चौदेगौड़ा
	74/3B	निजी	शुष्क	70	आर टी सी के अनुसार
	74/3A	निजी	शुष्क	60	आर टी सी के अनुसार
	74/4	निजी	शुष्क	185	मादेगौड़ा, पुत्र-चौदेगौड़ा रामलिंगेगौड़ा, पुत्र-के. लिंगेगौड़ा कृष्णा, पुत्र-दोड्डवैकटैय्या
	125/1	निजी	शुष्क	60	आर टी सी के अनुसार
	125/2	निजी	शुष्क	35	मुद्दुमरियप्पा, पुत्र-मुद्देगौड़ा
	127/1	निजी	शुष्क	85	शिवलिंगेगौड़ा, पुत्र-चन्नेगौड़ा चन्नेगौड़ा, पुत्र-हनुमम्मा मोटेगौड़ा पहला लिंगेगौड़ा,

				पुत्र-हनुमम्मा मोटेगौड़ा
127/2	निजी	शुष्क	130	जी. मरिगौड़ा, पुत्र-गूलिगौड़ा
				बी. नागराजप्पा, पुत्र-नागराजप्पा
				बी. प्रभुस्वामी, पुत्र-शिवनंजा
				जी. मरिगौड़ा, पुत्र-गूलिगौड़ा
				बी. शिवनन्दा, पुत्र-बासवण्णा
				कलसेगौड़ा, पुत्र-दिवंगत मुद्दनकेगौड़ा
				शिवलिंगेगौड़ा, पुत्र-मादेगौड़ा
				पुट्टास्वामीगौड़ा, पुत्र-चौदेगौड़ा
73/1B	निजी / सरकारी	शुष्क	30	केम्पम्मा, पुत्री-मल्लिकार्जुन
73/1A1	सरकारी / निजी	शुष्क	45	ग्रामीण
73/1C	निजी / सरकारी	शुष्क	90	आर टी सी के अनुसार
73/3	निजी / सरकारी	शुष्क	216	रुद्रम्मा, पुत्री-रुद्रम्मा
				नंजप्पा, पुत्र-नंजप्पा
73/4A	निजी / सरकारी	शुष्क	90	मादप्पा, पुत्र-चिक्कबासप्पा
73/5A	सरकारी / निजी	शुष्क	80	ग्रामीण
128/2C	निजी / सरकारी	शुष्क	40	ग्रामठाणा एन ए के
128/1A1	निजी	शुष्क	35	आर टी सी के अनुसार
128/2B	सरकारी / निजी	शुष्क	35	ग्रामठाणा एनएके
129/8B	सरकारी / निजी	शुष्क	45	आर टी सी के अनुसार
129/7	सरकारी / निजी	शुष्क	45	पुट्टीराम्मा, पत्नी-लिंगेगौड़ा
				लिंगेगौड़ा उर्फ मरिगौड़ा, पुत्र- दोड्डलिंगेगौड़ा
129/3A1	सरकारी / निजी	शुष्क	56	डी. केम्पेगौड़ा, पुत्र-देवेगौड़ा
129/2	सरकारी / निजी	शुष्क	60	हलगुरम्मा, पुत्री-केम्पण्णा
129/4B2	सरकारी / निजी	शुष्क	65	आर टी सी के अनुसार
130/2	निजी / सरकारी	शुष्क	80	शिवकेंचेगौड़ा
131/2	निजी / सरकारी	नमी / बागीचा	60	ग्रामठाणा एन ए के
132/1	निजी	बागीचा	138	मरिगौड़ा, पुत्र-पा. वीरेगौड़ा
				श्रीकांतैय्या
132/2B	निजी	बागीचा	60	आर टी सी के अनुसार
132/3A	निजी	बागीचा	12	जयरामू, पुत्र-कुल्लेगौड़ा
7/1B	निजी / सरकारी	शुष्क	45	आर टी सी के अनुसार
7/1A	निजी / सरकारी	शुष्क	230	आर टी सी के अनुसार
7/1C	निजी / सरकारी	शुष्क	55	आर टी सी के अनुसार
7/2.	निजी	शुष्क	60	आर टी सी के अनुसार
1/1A	निजी	खराब	150	आर टी सी के अनुसार
6/5E	निजी / सरकारी	खराब	48	बेट्टैय्या, पुत्र-पिक्लाभोयी
				वेंकटैय्या उर्फ सोतैय्या
6/5D	निजी /	शुष्क	44	मादैय्या, पुत्र-केंचबेट्टैय्या

		सरकारी			
	6/5C	निजी / सरकारी	खराब	48	एनएसी
	6/5B	निजी / सरकारी	खराब	50	एनएसी
	6/5A	निजी / सरकारी	खराब	70	जेडयप्पा, पुत्र-महादेवा महादेवप्पा, पुत्र-मादप्पा मादैय्या उर्फ महादेवैय्या, पुत्र-बेट्टैय्या
	5/1.	निजी / सरकारी	खराब	40	केम्पम्मा, पत्नी-चिक्कहैदा मादा, पुत्र-मादा उर्फ मूगा सिदैय्या, पुत्र-जोगी सिदैय्या
	5/2.	निजी / सरकारी	शुष्क	60	हुच्चैय्या उर्फ कल्लामेल्ला, पुत्र-हुचा भोयी
	5/3.	निजी / सरकारी	शुष्क	65	शिवप्पा, पुत्र-हुचैय्या उर्फ मोटा किट्टैय्या
	नाला-1	सरकारी	नाला	945	सरकारी जायदाद (नाला)
	39	सरकारी	खराब	70	सरकारी ग्रेव यार्ड
	38/2	निजी	शुष्क	148	डी. एल. मादेगौड़ा, पुत्र-सी. लिंगेगौड़ा सी. पुट्टेगौड़ा, पुत्र-चन्नेगौड़ा
	40/1	निजी	शुष्क	309	श्रीकांतास्वामी, पुत्र-नंजुदैय्या एम. नागराजू, पुत्र-दिवंगत मल्लप्पा महादेवस्वामी, पुत्र-शंकलगेरे बासवण्णा मुरगेन्द्रस्वामी, पुत्र-दिवंगत सुब्बण्णा एम. हेमा, पुत्र-मुरगेन्द्रस्वामी सन्नम्मा, पत्नी-महादेवप्पा गोरम्मा, पुत्री-दासैय्या पुट्टास्वामी, पुत्र-दोन्नेगौड़ा लिंगेगौड़ा पुट्टास्वामीगौड़ा, पुत्र-दोन्नेगौड़ा
	40/2	निजी / सरकारी	शुष्क / नमी	216	गूलिगौड़ा, पुत्र-करिगौड़ा मरिमादैय्या, पुत्र-सोनेगौड़ा नागराजेगौड़ा, पुत्र-सन्नेगौड़ा शिवलिंगेगौड़ा, पुत्र-सन्नेगौड़ा बासवाराजेगौड़ा, पुत्र-सन्नेगौड़ा एनएके
	41	निजी / सरकारी	शुष्क / बागीचा	220	जी. बासप्पा, पुत्र-नंजप्पा पुट्टास्वामी, पुत्र-लिंगेगौड़ा उर्फ करियप्पा बेट्टैय्या, पुत्र-बिलचैय्या डी. एम. लिंगेगौड़ा उर्फ करियप्पा, पुत्र-मंचीलिंगेगौड़ा डी. एम. लिंगेगौड़ा उर्फ करियप्पा, पुत्र-मंचीलिंगेगौड़ा
	34/2	निजी	शुष्क	66	लिंगेगौड़ा, पुत्र-लिंगेगौड़ा
	34/3	निजी	शुष्क	30	डी. जी. बासवाराजू, पुत्र-गूलिगौड़ा
	34/5	निजी	शुष्क	30	भारती, पत्नी-एम. महादेवगौड़ा
	33	निजी / सरकारी	शुष्क	110	मल्लैय्या, पुत्र-प्रथम बेट्टैय्या नंजैय्या, पुत्र-द्वितीय मल्लैय्या लिंगेगौड़ा,

								पुत्र-कोलिचन्नेगौड़ा
								लिंगेगौड़ा, पुत्र-कोलिचन्नेगौड़ा
								लिंगेगौड़ा, पुत्र-कोलिचन्नेगौड़ा
								लिंगेय्या, पुत्र-जवरैय्या-मारैय्या
								चिक्कसिदैय्या चौदैय्या, पुत्र-लिंगेय्या
								चौदैय्या, पुत्र-चिक्कदोड्डैय्या
								लिंगम्मा, पत्नी-चन्नेगौड़ा
								लिंगेगौड़ा, पुत्र-कोलीचन्नेगौड़ा
				32/4	निजी	शुष्क	230	मरियप्पा, पुत्र-गूलिगौड़ा
								जी. शिवलिंगेगौड़ा, पुत्र-गूलिगौड़ा
				25/1	निजी/सरकारी	शुष्क	136	पुट्टेगौड़ा, पुत्र-चन्नेगौड़ा
								गूलिगौड़ा, पुत्र-लिंगेगौड़ा
				25/2	निजी	शुष्क	356	कादम्मा, पत्नी-गूलिगौड़ा
								लिंगेगौड़ा उर्फ कुल्लेगौड़ा, पुत्र-गूलिगौड़ा
								पुट्टलिंगेगौड़ा उर्फ चिक्कण्णा, पुत्र-गूलिगौड़ा
								पुट्टलिंगेगौड़ा उर्फ चिक्कण्णा, पुत्र-गूलिगौड़ा
								पदमम्मा, पत्नी-दिवंगत मरिगौड़ा
								एल. गूलिगौड़ा, पुत्र-लिंगेगौड़ा
				24/4	निजी	शुष्क	60	सिद्धमल्लेगौड़ा, पुत्र-मादेगौड़ा
				24/1	निजी	शुष्क	90	सिद्धमल्लेगौड़ा
				24/2	निजी	शुष्क	104	ईरैगौड़ा उर्फ राजू, पुत्र-ईरैगौड़ा
								सिद्देगौड़ा उर्फ स्वामी, पुत्र-ईरैगौड़ा
				24/3	निजी	शुष्क	60	सिद्धमल्लेगौड़ा, पुत्र-मादेगौड़ा
				24/6	निजी/सरकारी	शुष्क	120	सिद्धमल्लेगौड़ा, पुत्र-मादेगौड़ा
				नाला-2	सरकारी	नाला	240	सरकारी जायदाद (नाला)
			23. देवीराहल्लि	108/1	निजी	शुष्क	210	आर टी सी के अनुसार
				108/2	निजी	शुष्क	175	आर टी सी के अनुसार
				108/3	निजी	शुष्क	130	आर टी सी के अनुसार
				108/4	निजी	शुष्क	125	आर टी सी के अनुसार
कुल							713697	

[फा. सं. भाराराप्रा/27015/2011-12/पीआईयू-बीएनजी/एलए/एनएच-209]

माया प्रकाश, उपसचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2013

S.O.3816 (E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O.61(E) dated 7th January, 2013 Published in the Gazette of India, extraordinary, Part II, Section 3, Sub-suction(ii) and issued under sub-suction (1) of Section 3(A) of the National Highways Act, 1956(48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.209 on the stretch of land from KM-266.530 to KM-397.726 (Tamilnadu/Karnataka Border to Deveerahalli Section) in Districts Chamarajanagara and Mandya District in the State of Karnataka;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Times of India” and “Vijaya Karnataka” both dated the 13th February, 2013 under sub-section (3) of Section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the some have been partially allowed and some have been disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the power conferred by sub-suction (1) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, the pursuance of the Sub-section(2) of the Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the said schedule shall vest absolutely in Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure falling with the stretch of land from KM-321.560 to KM-397.726 (Duggahatti to Deveerahalli Section) of the National Highway No.209 in the state of Karnataka.

Serial No.	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area in sq. mtrs	Name of the land owners/Interested Persons
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Chamara nagar	1.Yelandur	1.Duggahatti	NALA-1	Govt	Nala	160	Government Property (Nala)
				ROAD-1	Govt	Road	70	Government Property (Road)
			2.Avalkandalli	44/1	Private	Wet	160	Houses
				44/2	Private	Wet	50	Madamma
								Ranganayka
								Basavanayka - Madanayka
				44/3	Private	Wet	65	Uma W/o Late Biligiriranganayka
								Basavanayka Ranganayka Madanayaka S/o Nanjundanayaka
				45/1	Private	Wet	128	Rangashetty Adopt son Ankashetty
				45/5	Private	Wet	60	Puttasiddanayka - Puttanayka
								Devamma W/o Late Madanayka
				47	Private	Wet	272	Siddashetty - Madashetty

				NALA-2	Govt	Nala	435	Government Property (Nala)
			3. Doyamkandalli	77/6	Private	Dry	96	Mahadevamma W/o Late Marinayka
				77/5	Private	Dry	45	Shankaranayka - Mahadevanayka
				77/4	Private	Dry	42	Shankaranayka - Mahadevanayka
				77/3	Private	Dry/Wet	48	Shankaranayka - Mahadevanayka
				77/2	Private	Wet	136	Shankaranayka - Mahadevanayka
				77/1	Private	Wet	140	Nanjashetty
				NALA-3	Govt	Kharab	295	Kharab
				78	Private	Wet	120	Siddaiah Nanjaiah
								Puttaiah Madaiah S/o Late Chananjaiah M.Bhaskar S/o Late Chakramallaiah
				79/2	Private	Wet	100	Nanjashetty - Nanjashetty
				79/1	Private	Wet	30	Rathnamma W/o Nanjanayka
				84/2	Private	Wet	150	K.M.Jogashetty K.M.Puttamadeshetty
			4.Yelandur Rural	NALA-4	Govt	Nala	30	Government Property (Nala)
				166	Private	Wet	138	S.Nagaraju - Sanjeevanayka
				168	Private	Wet	204	Thalavara Muddanayka Padma W/o Y.D.Biligiriranganayka Rathnamma W/o V.Murthy Ambale
				154	Private	Wet	354	Hanumanthanayka Basavanayka
				117/2	Private	Wet	66	Balasundara Mudhaliyar K.M.Rangaswamy Sharafe urf Nur
				189/1	Private	Wet	30	Narasamma W/o B.P.Mahdeva
				190	Private	Wet	465	Nagarajashetty Basavarajashetty Chikkamadeshetty
				116	Private	Wet	148	Jayamma W/o Mahadeva P.Mahadev S/o Puttamadanayka Puttanna S/o Puttamadanayka Mahadevaswamy S/o Puttamadanayka Hanumanthanayka
				191/2B	Private	Wet	342	Chikkaranganayka Basamma
				191/1	Private/ Govt	Wet	261	Veerabhadranayka Chennanayka
				202/3	Private	Wet	192	Mangalamma W/o Late P.Rachappaji

				202/2	Private	Wet	264	Nanjaiah S/o Late Madaiah
				202/1	Private	Wet	896	Mahadevaswamy - Biligiriranganayka
				203/7	Private	Wet	576	Chikkaranganayka Dasaiah Ranganayka - Chikkaranganayka
								B.Basavaraju S/o Biligiridas
				204/1	Private	Wet	280	Hanumanthanayka
								Basamma W/o Late Ranganayka
								Lakshamma - Venkataranganayka
								Shanthamma W/o B.Mahadevaswamy
				204/2	Private	Wet	30	Madanayka - Hanumanthanayka
								Shanthamma
								B.Mahadevaswamy
				206	Private/ Govt	Wet	2500	Y.N.Lingaiah - Nanjaiah
				262	Private/ Govt	Wet/ Garden	2640	Y.K.Baskar S/o Late Y.P.Krishnajoyees
				263	Private	Wet/ Garden	2500	Y.K.Baskar S/o Late Y.P.Krishnajoyees
				264	Private	Wet	2600	Y.K.Baskar S/o Late Y.P.Krishnajoyees
				265	Private	Wet	1570	S.Anantharamu Basavanayka
				267	Private	Wet	355	S.Anantharamu Basavanayka
				258	Private	Wet	1820	Basavaiah S/o Nanjaiah
								K.Mallaiah S/o Krishnaiah
				273	Private	Garden	230	C.Vishwanatha
				274	Private	Garden	1590	C.Vishwanatha
				275	Private	Garden	1685	C.Vishwanatha
				296	Private	Wet	335	Y.B.Doreswamy S/o Late Basavanayka
				279/1	Private	Wet	115	R.Madaiah
				279/2	Private	Wet	198	J.Nagaraju S/o R.Javaraiah
				295/1	Private	Wet	95	Puttabasamma W/o Late Basavanayaka
				295/2	Private/ Govt	Wet	120	Lakshmiddevamma W/o Y.P.Basavanna
				282/1	Private	Wet	225	R.Javaraiah
								R.Madaiah
				293	Private	Wet	1785	Chikkabasavanayka
								Sowbhagyamma
								Padamma W/o Vishakantamurthy
				292	Private	Wet	174	Y.V.Venkataranganya
				291/1	Private	Wet	2070	Gowramma W/o Hanumanthanayka
				603	Private	Wet	30	R.Javaraiah R.Madaiah
				605/3	Private	Wet	816	Gowramma W/o Hanumanthanayka

				605/2	Private	Wet	1104	Gowramma W/o Hanumanthanayka
				605/1	Private	Wet	700	Gowramma W/o Hanumanthanayka
				625/2	Private	Wet	265	H.Ravikumara S/o Late Hanumantha
				606	Private	Wet	516	Fareen Taj W/o Nisar Ahamad
				622	Private	Wet	1015	M.Athavullakhan S/o Mahamad Khan
				621	Private	Wet	1204	M.Athavullakhan S/o Mahamad Khan
				620	Private	Wet	485	Y.S.Lokesha S/o Late B.Shivaswamy Y.N.Nagendra -Late B.Nanjundaswamy
				618/3	Private	Wet	1791	M.Athavullakhan S/o Mahamad Khan
				618/1	Private	Wet	320	G.Anwarpasha - M.Saalarmuzood ugazisaba
				618/2	Private	Wet	192	Chikkaningaiah S/o Doddasiddaiah
				616/1	Private	Wet	480	M.Athavullakhan
				616/2	Private	Wet	604	Chikkalingaiah
				616/3	Private	Wet	378	M.Athavullakhan
				647/6	Private	Wet	630	Siddaiah Madaiah
				647/5	Private	Wet	265	Siddaiah Madaiah
				648/2	Private	Wet	56	MadaiahS/o Doddasiddaiah Siddaiah S/oDoddasiddaiah Nanjaiah S/o Doddasiddaiah Mallikarjuna S/o Chikkalingaiah
				648/1	Private	Wet	140	Siddaiah Madaiah Nanjaiah S/o Doddasiddaiah Mallikarjuna S/o Chikkalingaiah
				647/4	Private	Wet	25	Siddaiah Madaiah
				649	Private	Wet	2318	Y.N.Umesha S/o Late Y.M.Nagarjappa Y.N.Prakasha S/o LateY.M.Nagarajappa
				650/1	Private	Wet	1739	Afiz khan S/o Lathif Khan Nayaz Khan S/o Afiz Khan Pameed Begam W/o Afish Khan
				651/1	Private	Wet	105	Muneerabegam W/o Riyaz Ahamad
				651/2	Private	Wet	513	Gowramma
				652	Private	Wet	2121	Gowramma Y.V.Srinivasarao
				644	Private	Wet	410	C.Nagaraju S/o Chikkalingaiah

							Gowramma D/o Golaganjidevara Guddana Mallaiah Y.V.Srinivasarao
			643	Private/ Govt	Garden	385	Nayazkhan S/o Afiz Khan Nala
			Road-3	Govt	Road	1250	Government Property (Road)
		5.Maddur	91/2	Private	Dry	570	Basavaraju S/o Late Muddashetty
			91/1	Private	Dry	30	Y.B. Ramanayka Y.B. Basavanna Y.B. Puttaswamy
			Nala-1	Govt	Nala	1605	Government Property (Nala)
			Road-1	Govt	Road	85	Government Property (Road)
			1130/1	Private/ Govt	Wet	28	J. Manjunatha S/o C. Jayanna
			1132/4	Private	Wet	170	Suresha S/o Hanumanthu Kumara S/o Hanamanthu Puttavenkatamma Rangaswamy S/o Nanjundanayka
			1132/3	Private	Wet	100	Chikkaranga Nayka- Venkata Nayka Rangaswamy - Venkata Nayka
			1132/2	Private	Wet	100	Rangadasaiah
			1132/1	Private	Wet	150	Suresha S/o Hanumanthu Kumara S/o Hanumanthu Sanjeeva Nayka - Ranga Nayka
			1131/2	Private	Garden	105	J. Manjunatha S/o Late C. Jayanna
			1131/1	Private	Garden	120	J. Manjunatha S/o C. Jayanna
			1133	Private/ Govt	Garden	250	Kolimuthana Ranga Ranga Nayka Rangamma
			1134	Private	Garden	210	M. Mallikarjunaswamy S/o Late M. Mallanna
			1143/4	Private/ Govt	Garden	100	Ranga Nayaka
			1143/1	Private	Dry	95	Devamma Ningamma W/o Sidda Nayka
			1142/5	Private/ Govt	Dry	90	M. Mallikarjunaswamy S/o Late M. Mallanna
			1142/4	Private	Garden	100	Narasipurada Linga
			1142/3	Private	Garden	230	M. Raghavendra Babu S/o Mada Nayka M. Raghavendra Babu S/o Mada Nayka Bangara Nayka S/o

								Dasa Nayka
				1142/2	Private	Dry	265	Ranga Nayka - Venkataranga Nayka
				1142/1	Private	Dry	144	Kalla Nayka - Dasa Nayka
				1144/7	Private	Dry	30	Hanumanthaiah
				1144/6	Private	Dry	30	Puttamadamma W/o Dasa Nayka
				1144/5	Private	Dry	50	B. Ramu S/o Bangara Nayaka
				1144/4	Private	Dry	225	Lakshmamma W/o Ranga Nayaka
				1144/3	Private	Dry	315	R. Hanumantha Nayka S/o Ranga Nayaka
				1144/1	Private	Dry	235	Maasthi Nayka S/o Narasipurada Linga Nayka
								Nanjunda Nayka S/o Narasipurada Linga Nayka
				1156	Private	Garden	210	Chinnaswamy S/o Venkataranga Nayka
				Road-2	Govt	Road	220	Government Property (Road)
				1157	Private	Dry/Wet/ Garden	152	Nanjunada Nayka - Venkataranga Nayka
								N. Nanjaiah
								Sidda Nayka N. Nanjaiah - Marinnanjaiah Nayka
								Mangalamma D/o Siddappa
				1155	Private	Wet	160	Ranganayka Venkataranganayka
				1160/1	Private/ Govt	Wet/ Garden	240	M.N. Usha D/o M.S. Nagaraju
				1160/2	Private	Wet/ Garden	108	Lakshmamma W/o Dasa Nayka
				Nala-2	Govt	Nala	60	Government Property (Nala)
				1163	Govt	Kharab	565	Government Property (Grave Yard)
				1170/5	Private	Wet	1150	Jayamma W/o C. Mahadevaiah
								Nanjaiah S/o Chikkahanumaiah
				1170/4	Private	Wet	250	M. Nataraj - Late Madaiah
				1/1.	Private/ Govt	Dry	530	Rangamma W/o Venkataranga Nayka
								V. Rangamma W/o Late Chikkavenkata Ranga Nayka
				1/2	Private/ Govt	Dry	1325	Gramatana
				6	Private/ Govt	Dry	1545	M.N. Narasimhaiah
				Road-3	Govt	Road	1535	Government Property (Road)
				11	Private	Wet	775	J. Nataraju - H. Javaraiah
				12/1.	Private	Wet	750	Kamalamma D/o T. M. Madaiah

					Kamalamma D/o T. M. Madaiah
	12/2.	Private	Wet	700	M.B. Basavaiah - Mallagalaiah
	20/1	Private	Garden	165	Hanumantharaju S/o Basavaiah
					Mahadevaswamy S/o Basavaiah
					Ramachandra S/o Basavaiah
					Doreswamy S/o Basavaiah
	20/2	Private	Garden	30	Srinivasamurthy S/o Basavaiah
	21/7	Private	Dry	775	Kempaiah Muddalingaiahna Nanjaiah
	21/6	Private	Dry	30	Bandigaiah
					Puttananjamma W/o Sannaiah
	21/5	Private	Dry	300	Shivaramu S/o Mallaiah
					Mahadevaiah S/o Late Muddamallaiah Madduru
	21/10	Private	Dry	30	M.N. Basavanna
					Chikkamadamma W/o Late Nanjaiah
	21/4	Private	Dry	400	M.B. Basavaiah - Mallagalaiah
	21/2	Private	Dry	100	M.S. Rangaiah - Siddaiah
					M.S.Nagaraju - Siddaiah
					C. Nagaiah - Chennaiah
	21/1	Private	Dry	175	Maneyaiah - Yedesiddana Basavaiah
	Nala-3	Govt	Nala	375	Government Property (Nala)
	806/1	Private	Dry	180	Dasinanjamma Rangadasi
	806/2	Private	Dry	75	Basava
	806/3	Private	Garden	75	Kuli Madna Sanna
	806/4	Private	Garden	50	Pothebasavananja
	806/5	Private	Garden	125	Janglee Siddaiah
					Chikkabasavaiah S/o Janglee Siddaiah
	802	Private	Garden	70	Basava urf Chikkabasavaiah
					Honnaiah
					Mallikarjuna S/o Late Basavaiah
					Basavaiah S/o Kunnamma
	801	Private	Dry/ Garden	550	Puttananjamma W/o Gurusiddaiah
					Siddaiah
					Mahadevamma W/o Siddaiah
					Nanjamma W/o Javaraiah
					Rajinamma W/o Late

							Maraiah
							Shantharaju S/o Siddaiah
			Nala-4	Govt	Nala	700	Government Property (Nala)
			758/5	Private	Dry	85	Basava Nanja
			758/4	Private	Dry	72	N. Siddananjaswamy S/o Nanjaiah
			758/3	Private	Dry	97	N. Siddananjaswamy S/o Nanjaiah
			735/5	Private	Dry	30	Siddaiah S/o Janglee Siddaiah
			735/2	Private	Dry	30	Siddaiah S/o Janglee Siddaiah
			735/1	Private	Dry	30	Chikkabasavaiah S/o Janglee Siddaiah Siddaiah S/o Janglee Siddaiah Siddaiah S/o Janglee Siddaiah
			739	Private	Dry	310	Siddaraju S/o Rangaiah
			740/4A	Private	Dry	75	Mallanna Shivaiah - Kalidasaiah Nanjaiah S/o Kullaiah Rangaiah - Kullaiah
							K. Sarojamma W/o Puttabasavaiah Shivaiah D. Narayana Nanjundaiah Mallanna Shivaiah - Kalidasaiah Rangaiah - Kullaiah
			740/3	Private	Dry	29	Anandaraju S/o Late Kenchaiah Shantharaju S/o Kenchaiah
			740/2	Private	Dry	60	Anandaraju S/o Late Kenchaiah Shantharaju S/o Kenchaiah
			740/1	Private	Dry	205	Sanna Madaiah S/o Sannaiah
		6. Agara	Nala-1	Govt	Nala	110	Government Property (Nala)
			1092/1	Private	Dry/W et	114	Basavaiah S/o Chikka Siddaiah M. Siddaraju S/o Mari Siddaiah
			1090	Private	Dry/W et	54	G. Nagaraju Mahadevegowda Manjula-Nanjegowda
			1094	Private	Dry	115	Mahadevegowda Manjula W/o Nanjegowda Marisidda
			1084/4	Private	Dry	90	R. Veeranna - Late Rudrappa K. Somanna S/o

								Kempegowda
				1084/2	Private	Dry/Wet/ Garden	215	C. Guddegowda
								K. Somanna S/o Kempegowda
				1084/1	Private	Garden	320	G. Chikkanegowda S/o Late C. Guddegowda
				1083	Private	Garden	264	K. Somanna S/o Kempegowda
				1082	Private	Dry/ Garden	135	K. Somanna S/o Kempegowda
				1080/2	Private	Dry	32	K. Somanna S/o Kempegowda
				1065/3	Private/ Govt	Wet/ Garden	172	A.N. Gururajachar
								P. Srinivasa
				1065/1	Private	Garden	265	Narayana Gowda- Dasegowda
				1065/4	Private	Wet/ Garden	272	C. Devanna
				1062/2	Private	Wet	240	C. Devanna
				1061/3	Private/ Govt	Wet	72	Marithayamma W/o Vrushabendra Murthy
				1061/2	Private	Wet	40	B. Basavanna Chinnathayamma
				1060/2	Private	Wet	120	V. Veerabhadraswamy S/o Late Vrushabendramurthy
				1060/1	Private	Wet/ Garden	174	Nanjundaswamy
				1059/2A	Private	Wet	105	Lingamma W/o Dasa Shetty
				1059/2B	Private	Wet	36	Rajamma Kumara-Veerathappa Kempadevamma W/o Nanjundappa
				1059/1B	Private	Wet	96	Shivaswamy - Shivalinga Devaru
				1059/1A	Private	Wet	18	Shivaswamy - Shivalinga Devaru
				1058	Private	Wet	344	Suvarnamma
				1121	Private	Wet	370	Siddamari Nayka S/o Kama Nayka
				Road-1	Govt	Road	55	Government Property (Road)
				Road-2	Govt	Road	95	Government Property (Road)
				1189/2	Private	Wet	90	R. Nagarajamurthy S/o M. S. Revannadevaru
				1189/1	Private	Dry	60	R. Nagarajamurthy S/o M. S. Revannadevaru
				1095/12	Private	Wet	137	R. Basavanna
				1095/11	Private	Wet	56	R. Basavanna
				1095/13	Private	Dry	60	R. Basavanna
				1095/10	Private	Dry	150	R. Basavanna - Late Rudrappa
				1095/7	Private	Dry	289	R. Basavannanavaru
				1095/15	Private	Dry	108	G. Nagaraju - Late Ammannammana Guddegowda
				1095/6	Private	Dry	662	A.B. Rathnamma S/o

								Parashivamurthy-Alienated
				1126/3	Private	Wet	84	K. Somanna S/o Kempegowda
				1126/2	Private/ Govt	Wet	64	Thammegowda-Devisannegowda
				1127	Private	Wet	605	Anka Nayka S/o Era Nayka
								Chowda Nayka W/o Kunduru Nayka
								E. Anka Nayka S/o Late Era Nayka
								Racha Nayka S/o Pasale Sidda Nayka
				1134/2	Private	Wet	90	S. Govinda Nayka - Sidda Nayka
				1134/1	Private	Wet	104	S. Govinda - Siddanayka
				1135	Private	Wet	120	Maara Nayka - Sanjeeva Nayka
				1136	Private	Garden	104	Maranayka S/o Sanjeevanayka
				1141	Private	Garden	234	Maara Nayka S/o Sanjeevanayka
				1205	Private	Wet	4000	A.N. Shivananda
				1204	Private	Wet	120	A.N. Shivananda
								P. Desharaju
				1216/1	Private	Wet	2000	S. Balakrishna S/o Late A. Srinivasaupadhyaya
				1215	Private/ Govt	Wet	2500	Nagaraju S/o Thayi Rangamma
				1219/2	Private/ Govt	Wet	535	C. Kappanna Channabasappa
				1219/1	Private	Wet	780	Nanjundanayka S/o Late Sannanayka
								Rangaswamy S/o Late Nanjanayka
				1214	Private	Garden	400	R. Govindanayka S/o Late Ranganayka Urf Guliranganayka
				1220/2	Private	Wet	975	A.S. Nagaraju Srinivasaayengar
				1220/1	Private	Wet	1110	Mahadevanayka - Eranayka Mahadevamma W/o Rajanayka
				Road-3	Govt	Road	785	Government Property (Road)
				1221	Private/ Govt	Wet/ Garden	1940	Ranganayka - Guli Ranganayka
								Karagananjaiiah Ranganayka
				1222	Private	Wet	810	M. Shivanna
				Nala-2	Govt	Nala	995	Government Property (Nala)
				1227	Private	Wet	360	M. Shivanna-Mallikarjunaiah
				58	Private	Wet	2015	Srinivasamurthy S/o Late A.S. Anandarao
				49	Private/ Govt	Wet	3130	Basavaiah S/o Dodda Honnana Basavaiah
								M. Puttamadaiah S/o Late Manchaiah

								M. Puttamadaiah S/o Late Manchaiah		
								M. Puttamadaiah S/o Late Manchaiah		
								M. Puttamadaiah S/o Late Manchaiah, Mamballi Village.		
								Mudda Nayka S/o Rangaswamy		
				46/2	Private	Wet	1150	L. Shivawamy S/o Lingegowda		
				46/1	Private	Wet	300	S. Sathyanarayanarao S/o Srinivasamurthy		
				47	Private	Wet	1540	L. Lingaraju S/o Lingegowda L. Shivaswamy		
				48	Private/ Govt	Garden	240	R. Lakshmana S/o Late Ramaiah		
								R. Lakshmana S/o Late Ramaiah		
								Gangamma W/o Late Maneaiah		
								Dundindamma W/o Late Parade Basavaiah		
				41	Private	Wet	2200	Bettamma W/o Kadi Chamaiahna Basavaiah		
				31	Private	Wet	350	Prabhavathi W/o Late B. Ravalaiah		
				Road-4	Govt	Road	430	Government Property (Road)		
				809	Private	Dry	2300	S. Ananda S/o Late D. Swamy		
				Nala-3	Govt	Nala	605	Government Property (Nala)		
				Nala-4	Govt	Nala	620	Government Property Nala		
				Road-5	Govt	Road	465	Government Property (Road)		
				Road-6	Govt	Road	272	Government Property (Road)		
				869/1	Private	Dry	1562	B. Nataraju		
								Basamma W/o Hindaiah		
								Favour of Karnataka Governor		
								Siddananjaiah S/o Late Neelaiah		
								B. Chikkannaswamy		
				868/3	Private	Garden	160	C.H. Basavaiah		
				868/2	Private	Garden	496	Madamma W/o Late Siddamadaiah		
				868/1	Private	Garden	480	Puttananjamma W/o Siddamadaiah		
								M. Siddamadaiah		
				873	Private/ Govt	Garden	600	Siddamadaiah		
								Isak S/o Abraham		
				2. Kollegal	1. Uttamballi	189/A2	Private	Dry	410	M. Madaiah S/o Late Madaiah Mamballi
						189/A1B	Private/ Govt	Dry	100	Kabini Nala Kabini Nala
						189/A1A	Private	Dry	40	Puttamadamma W/o Late G.M.Madaiah

							M. Jayakumara M. Vijayakumara M. Venugopala M. Vedamurthy M. Lakshmikanth
							Kabini Nala
			190/B	Private	Dry	520	Muddaiah S/o Late Basavaiah
			194	Private	Dry	235	T.D.B. Kafi Muddaiah S/o Late Kafi Basavaiah
							M. Suddaiah S/o Mallaiah
							Meena D/o K.M. Linganna
			196/A2	Private/ Govt	Dry	50	Puttamadamma W/o G.M. Madaiah M. Jayakumar M. Vijayakumar M. Venugopala M. Vedamurthy M. Lakshmikanth
			196/C1	Private	Dry	445	Kapanaiah S/o Kapaninanjaiiah
							Kunnaiah S/o Karagananjaiiah
			196/A1	Private/ Govt	Dry	185	M. Lingaraju S/o Madaiah
							Acquired for Kabini Nala
			198/A	Private/ Govt	Dry	230	Chikkathayamma W/o Rangaiah
							Acquired for Kabini Nala
			198/C1	Private	Dry	510	M.V. Nagarajappa S/o Virupakshamurthy Mudigundam
			171/A2	Private/ Govt	Dry	360	S. Rangaiah S/o Siddaiah Uttamballi
							S. Rangaiah S/o Siddaiah Uttamballi Alienated
			171/A1	Private/ Govt	Dry	435	Chikkarachegowda S/o Rachegowda
							Acquired for Kabini Nala
			198/C2	Private	Dry	220	R. Gurumallappa S/o Rachappa
							Madhu S/o Minor Guardian Father Vishwanath
							Manu S/o Minor Guardian Father Vishwanath
			199/B2	Private	Dry	230	R. Mahadevaswamy S/o Rachappa Bharathi W/o Mahadevaswamy
							Manu S/o Minor Guardian Father Vishwanath
							Madhu S/o Minor Guardian Father Vishwanath

				199/B1	Private	Dry	285	N.Hombale S/o Late Nanjaiah
				200/B	Private	Dry	2410	S.Puttaraju S/o Late Shivappa
								M.Nagappa S/o Maridevaru
				202/B2	Private	Dry	580	M.Nagappa S/o Maridevaru Uttamballi
				202/A	Private/ Govt	Dry	150	T.D.B.
				202/B1	Private	Dry	100	M.Lingappa M.Shivananjappa
				169/4A	Private	Dry	100	AS Per RTC
				169/4B	Private	Dry	280	AS Per RTC
				169/3	Private	Dry	175	Puttamallegowda S/o Gurubasaweshavara
								Acquired for Kabini Nala
				169/2	Private/ Govt	Dry	330	Basammanni W/o R.Naganna
								Acquired for Kabini Nala
				169/1	Private/ Govt	Dry	960	Basamma W/o R.Naganna Acquired for Kabini Nala
				203/A	Private/ Govt	Kharab	1245	AS Per RTC
				203/B	Govt	Kharab	25	AS Per RTC
				164 (Road)	Govt	Kharab	2135	L.F.Road
				163/A2	Private	Dry	570	M.Madesha S/o Mahadeva
				163/A1	Private/ Govt	Dry	4068	M.Madesha S/o Mahadeva
								Kabini Nala
								S.Mahadevappa S/o Shivappa
								Shivaswamy S/o Rachappa
				123 (Road)	Govt	Kharab	795	C.T.
				122	Private/ Govt	Dry	695	G.Shivamurthy S/o Kullappa
								Acquired for Kabini Nala
				121/2	Private/ Govt	Dry	2224	Mahadevappa S/o Kempappa
								Acquired for Kabini Nala
				121/1	Private/ Govt	Dry	2475	M.Nataraju S/o Mahadevappa
								M.Mariswamy
								Basavanna
								Acquired for Kabini Nala
118/2	Private/ Govt	Dry	1150	P.Nagendra S/o Late Puttasubbappa				
				Acquired for Kabini Nala				
118/1	Private/ Govt	Dry	1475	Acquired for Kabini Nala				
				M.Nagaraju S/o Late				

								Mahanthadevaru Theramballi
								Malangi Nagarajappa S/o Gurumallappa
								G.Shivamurthy S/o Gurumalledevru
								N.Prabhuswamy S/o Nagaraju
								N.Sharan
								N.Kumara
								Acquired for Kabini Nala
				111	Private/ Govt	Dry	6030	Jayashankarappa S/o Gurumallappa
								Prasanna Murthy S/o Late Shivabasava devarau
								Madappa S/o Late Channabasavadevaru
								B.Nagaraja S/o Basavanna
								Ningammani W/o Late Nagaraju
				109/3	Private/ Govt	Dry	1350	Gurubasappa S/o Late Mante Lingappa
								Acquired for Kabini Nala
								P.Mahaprabhu S/o K.Puttaswamaiah
				109/2	Private/ Govt	Dry	1295	Puttaswamaiah S/o Nanjundaswamy late Nanjappa
								Acquired for Kabini Nala
				109/1	Private/ Govt	Dry	1125	Acquired for Kabini Nala
								P.Vidyashankar S/o Late K.Puttaswamaiah
				108/4	Private/ Govt	Dry	940	AS Per RTC
				108/3	Private	Dry	1020	AS Per RTC
				108/2	Private/ Govt	Dry	1125	Huchegowda S/o Nanjegowda
								Acquired for Kabini Nala
								P.Vidyashankar S/o Late K.Puttaswamaiah
				107/B	Private/ Govt	Dry	495	Acquired for Kabini Nala
								P.Vidyashankar S/o Late K.Puttaswamaiah
				108/1	Private/ Govt	Dry	2775	Acquired for Kabini Nala
								P.Vidyashankar S/o Late K.Puttaswamaiah
				104/A	Private	Dry	7250	N.Kumar S/o N.S.Narayanaiah, Kollegala
								Chief Officer Pattana Panchayathi

								Yelanduru
								N.Kumara S/o
								N.S.Narayana
								N.Kumara S/o Late
								N.S.Narayana
				101/1	Private/ Govt	Dry	35	Kum.e.214 Bhu.swa.my. 2001 no: LAQ CR 20/2000-01 Date: 11-05-2001 Acquired for Kabini Nala 0.15
								P.Paranjyothi D/o Late K.Puttaswamaiah
				103/B	Private/ Govt	Dry	70	Kum.e.214 Bhu.swa.my. 2001 no: LAQ CR 20/2000-01 Date: 11- 05-2001 Acquired for Kabini Nala 0.15
								P.Paranjyothi D/o Late K.Puttaswamaiah
				104/B	Govt	Kharab	1140	C.T.
				104/C	Private	Dry	440	N.Kumara S/o N.S.Narayanaya
				46	Govt	Kharab	990	S.Tree
								Basavashetty S/o Doddabasavashetty
				45/2	Private/ Govt	Dry	3840	Kum.e.214 Bhu.swa.my. 2001 no: LAQ CR 20/2000-01 Date: 11-05-2001 Acquired for Kabini Nala 0.23
				45/1	Private/ Govt	Dry	3710	M.Nanjundaswamy S/o Late Mahadevappa M.Chandrashekaram urthy S/o Late Mahadevappa Parvathamma W/o Late Mahadevappa
				44/3	Private/ Govt	Dry	2250	AS Per RTC
				44/2	Private/ Govt	Dry	2455	AS Per RTC
				42/1	Private	Dry	1440	AS Per RTC
				42/2	Private	Dry	1110	AS Per RTC
				42/3	Private	Dry	585	AS Per RTC
				41/1	Private	Dry	400	AS Per RTC
				41/2	Private	Dry	1261	AS Per RTC
				41/3	Private	Dry	3490	AS Per RTC
				40	Private	Dry	200	Late Madegowdara Childrens Rajamma W/o Nanjundegowda Masanegowda Mahadevegowda
				32 (Road)	Govt	Kharab	450	L.F.Road C.T.Bandidhari
				27/C2	Private	Dry	4634	Rangashetty S/o Kempakaamashetty V. Kumara S/o Late

								K. Venkataschetty Mulluru
				27/C1	Private	Dry	560	Savukaiah
				26/2	Private	Dry	350	Nanjundashetty S/o Siddashetty
				26/1	Private	Dry	1245	Siddashetty S/o Kaamashetty
				24	Private/ Govt	Dry	4825	J.Basavashetty S/o Javarashetty
								Karagashetty S/o Doddakamashetty
								Chikkashetty
								R.Nagaraju
								K.Venkataschetty S/o Kempakamashetty
								Kum.e. 214 Bhu. Swa. My. 2001 no: LAQ CR 20/2000-01 Date: 11-05-2001 Acquired for Kabini Nala 0.30
								Puttashetty S/o Late D.Rachaashetty
								K.Venkataschetty S/o Kempakaamashetty
								Kamashetty S/o Kaamashetty
				Nala-1	Govt	Nala	2840	Government Property (Nala)
			2.Hampapura	166	Private	Dry	440	Kalamma W/o Subbaiah
								Ningaiah S/o Nanjamma
								Shivamallu S/o Chikkamalliah
				165/A1	Private	Dry	3100	Madaiah S/o Madaiah
								Maradaiah S/o Madaiah
								Siddaiah S/o Madaiah
								Mallikarjuna S/o Madaiah
				165/A2	Private	Dry	3720	N.Lingaraju S/o Late Nanjunda
				165/A3	Private	Dry	1110	M.Kantharaju S/o Late R.Madanayka
				165/A4	Private	Dry	30	Manchaiah S/o Lingaiah
								Nanjammani W/o Mallaiah
				164 (Nala)	Govt	Kharab	760	P.W.D. Nala
				163/1	Private	Dry	4925	A.Shekar S/o Krishnashetty
								K.Shekar S/o Late A.Krishnashetty
								K.Shekar S/o Late A.Krishnashetty
								Prabhakara S/o Maramma
								Jayamma D/o Late Maligaiah
								Abdhul afeej Saheb S/o Khadar Saheb Kollegala

				163/2	Private	Dry	1275	K.Shekar S/o Late A.Krishnashetty
				162/A	Private	Dry	2690	K.Thimmamma S/o Chikkarange Gowda
				162/B	Private	Dry	1765	Abdul Hafeez Saheb S/o Abdul Khadar Saheb
								M.A.Eliyas S/o Abdhual Khadar Saheb
				161/1	Private	Dry	305	Abdhul Hafeez Saheb S/o Abdul Khadar Saheb
				147/B	Private	Dry	30	S.M.Parameshwara S/o Late S.Madaiah Kollegala
								S.M.Lakshmana S/o Madaiah Kollegala
								S.M.Parameshwara S/o Late S.Madaiah Kollegala
								S.M.Lakshman S/o Late S.Madaiah Kollegala
				146/B	Private	Dry	585	S.M.Ramalingaiah S/o Madaiah Kollegala
								S.M.Parameshwara S/o S.Madaiah
								S.M.Lakshmana S/o Madaiah Kollegala
				146/A	Private/ Govt	Dry	1260	Acquired to Nala as per R.D. 88 A.Q.M. 89 Dated: 21-02-1989
								Bhagyamma W/o Mahadev kollegal
				143/A2	Private	Dry	880	K.Mahadevaiah Shetty S/o Kaamashetty
								V.Siddaraju S/o Late Venkatarangaiah Hosahampapura
				143/A1	Private	Dry	690	M.Nagaraju S/o B. Mahadevu
				141	Private	Dry	1650	M.Nagaraju S/o B. Mahadevapu
				140/1	Private	Dry	750	B.Mahadeva
								Neelesiddaiah S/o Neelesiddashetty
								M.Nagaraju S/o B.Mahadevu
								Dundamma W/o Late Mahadeva Kollegala Mole
				139	Govt	Kharab	370	Nala
				138/1	Private	Dry	560	P.Krishnappagowda S/o Perumalagowda
				137/A2	Private	Dry	30	R.Krishnappagowda S/o Late Therumalagowda
				137/A3	Private/ Govt	Dry	900	D.Krishnappagowda S/o Parumalugowda
								Chinnaswamy S/o Poojari Chennanayka

					Kempanna S/o Chenaiah
					Kabini Nala
	137/A1	Private/ Govt	Dry	1270	Kempanna S/o Chennaiah
					Kabini Nala
	136	Private	Dry	1990	P.Krishnappagowda S/o Perumalagowda
					Rachashetty S/o Late Rachashetty Kollegal
					D.Krishnappagowda S/o Perumalagowda
	135/B	Private	Dry	800	Doddashetty S/o Madashetty
	135/C/1	Private	Dry	1120	Lakshmiddevamma W/o Siddashetty
	133/B	Private	Dry	125	Madashetty S/o Late Siddashetty
					Doddashetty S/o Madashetty
	133/C/1	Private/ Govt	Dry	2208	Lakshmiddevamma W/o Siddashetty
					Acquired for Kabini Nala
	133/C/2	Private/ Govt	Dry	3300	R.Madanayka
					Lakshmiddevamma W/o Siddashetty
					Acquired for Kabini Nala
	133/D	Private/ Govt	Dry	1700	N.Nataraju S/o Nanjashetty
					Acquired for Kabini Nala As per R.D. 158 A.Q.M. 2008 Dated: 11-03-2009
	132/B3	Private	Dry	476	T.Mahadeva S/o Late Thandashetty Kollegala Mole
	132/B2	Private	Dry	1020	T.Mahadeva S/o Late Thandashetty Kollegala Mole
	130/A	Private/ Govt	Dry	450	Shambashetty S/o Kullashetty
					Shambulingashetty S/o Late Siddashetty
					Acquired for Kabini Nala
3.Harale	232	Private	Dry	1170	Lakshmi W/o Kopaalaiah
	233	Private	Wet	1475	Lakshmi W/o Late Kopaala
	231/A2	Private	Dry	65	Lakshmi W/o Kopaalaiah
	231/B	Private	Wet	1475	Subramanyam
					Lakshmi W/o Kopala
	234/C2	Private	Wet	4425	Lingamma W/o Channabalavashetty
	234/C1B	Private	Wet	560	Lakshmi W/o Late Madasheety
	234/C1A	Private	Wet	775	As Per RTC
	236/B	Private	Wet	55	Lingamma W/o Channabasavashetty
236/C	Private	Wet	150	Mada S/o Doddajoga	
				L. Doddaswamy S/o	

								Lankashetty
				236/A	Private	Wet	2910	Jayalakshamma W/o Rangaswamy
				237	Private	Wet	2260	Madamma
				238/1	Private	Wet	2280	Veeramma K.G.L.
				244/1	Private	Wet	350	M.Nanjundaswamy S/o Mahanthadevaru
								Basavanna S/o Mahanthadevaru
				244/2	Private	Wet	950	Basavalingappa
				248/A3	Private	Wet	385	Basavanna S/o Mahanthadevaru
								M.Shivalankarappa S/o Mahanthadevaru
				248/C1	Private	Wet	720	Siddappa S/o Papamma
								Gurusiddamma W/o Chikkashetty
				248/E	Private	Wet	1300	Basavanna S/o Mahanthadevaru
								M.Shivalankarappa S/o Mahanthadevaru
				248/D	Private	Wet	1425	Basavanna S/o Mahanthadevaru
								M.Shivalankarappa S/o Mahanthadevaru
				245/A	Private	Wet	875	H.Puttamallaiah S/o Channamallaiah
								Rachamma W/o Muthaiah
				245/B2	Private	Wet	1860	M.Rangaiah Devamma
			4.Agrahara	67/B/2	Private	Dry	1080	Vidhiyamma
				67/B/1	Private	Dry	1030	Po.Madhi W/o Po.Javarayee Kollegala
				67/A/3	Private	Dry	450	Rachaiah
				67/A/2	Private	Dry	25	S.Maranayka S/o Late Savakaiah
				102/B/1	Private	Wet	325	Nanjegowda S/o Rachegowda Naripura
				102/A/3	Private	Wet	1650	Bettaiahyaana Mada S/o Shambanayaka
				102/A/1	Private	Wet	1830	Bettaiah S/o Late Madanayka
				102/A/2	Private	Wet	1875	Chikkasiddaiah S/o Puttasidda Naga S/o Puttasidda Revanna S/o Puttasidda
								Ninga S/o Puttasidda C.Sampathkumar S/o Late Channegowda
				103	Private	Wet	30	Devamma W/o Puttasiddaiah Sampathkumar S/o Late Channegowda
				101	Private	Wet	1950	C. Sampathkumar S/o Late Channegowda
				104	Private	Wet	1945	Sannamma W/o Late Veerabhadraiah
				99/A	Private	Wet	140	Saroja Mahadeva W/o S.Mahadeva

				99/B	Private	Wet	4300	Sannamma W/o Late Veerabadraiah
								C.P.Syed Kabeerahamad
				98/2	Private	Wet	55	Ka.Madhi
				98/1	Private	Wet	1025	Ku.Venkata
								Kharab
				109	Private/ Govt	Wet	920	Syed Parveez Ahammed S/o Syed Mahammad
								Suriyazabeen S/o Syed Ahammed
								Siddaiah
				97/B	Private	Wet	1790	Nanja S/o Sheera Harale
				96	Private	Wet	2060	Chikkalingaiah S/o Nurabhalugaiah
				95/A	Private	Wet	1175	M.Babu S/o Khadhar Saheb
				95/B	Private	Wet	2720	M.Babu S/o Madhar Saheb
								Mada S/o Sanna Naripura
				94/B	Private	Wet	2160	M.Babu S/o Madhal Saheb
				118 (Road)	Govt	Kharab	30	Government Property (Road)
				115/1	Private	Dry	90	Malagarasamma W/o Late Basavaiah Naripura
				115/3	Private	Dry	125	Malagarasamma W/o Late Basavaiah Naripura
				115/4	Private	Dry	315	Boramma
				110/B4	Govt	Wet	910	Government Order No: 46
				114	Govt	Kharab	75	Govt Kharab
			5.Jinakanahalli	Nala-2	Govt	Nala	100	Government Property (Nala)
				158/2	Private	Dry	120	Venkatarama S/o Krishnashetty
			6.Saragur	Nala-3	Govt	Nala	95	Government Property (Nala)
				246	Govt	Kharab	1675	Government Property (Road)
				247	Private	Dry	468	G. Umashankar S/o Gunnaswamy G. Ramachandran Nagaraju Gopal Subramanya
				245/D	Private	Dry	160	Malagarasamma W/o Late Kallubasavaiah
				245/C	Private	Dry	70	Basava
				245/B	Private	Dry	55	Javara
				245/A	Private	Dry	65	Basava
				147/A	Private	Dry	210	Nanjegowda
				148	Private	Dry	450	R. Govindashetty S/o T. Ramachandrashetty
				144/B	Private	Dry	280	Huchegowda S/o Ramegowda Ramaiah S/o Siddaramegowda

				144/A	Private	Dry	270	R. Raju S/o Ramegowda
				244/2	Private	Dry	115	Madegowda S/o Late Sannegowda Jayaraju Marichikkegowda S/o Late Kunnamadegowda
				244/1	Private	Dry	170	Marichikkegowda S/o Late Kunnamadegowda Puttamadegowda S/o Late Kunnamadegowda
				243/B	Private	Dry	135	Rachegowda S/o Puttamallegowda Shivamadu S/o Puttamallegowda
				242/D	Private	Dry	56	K. Mallanayka S/o Kavademallanyka I-nur Mahammed S/o G.M. Iqbal Kollegala
				242/C	Private	Dry	25	Siddarajamma W/o Madegowda I-nur Mahmmed S/o G.M. Iqbal Kollegala
				242/B	Private	Dry	45	Siddarajamma W/o Madegowda I-nur Mahmmed S/o G.M. Iqbal Kollegala I-nur Ahammed S/o G.M. Iqbal Kollegala
				241	Private	Dry	8	Shiddaraju S/o Doesiddanayka
				143/2	Private	Dry	300	Boramma W/o Ramegowda R.Raju S/o Ramegowda
				143/1	Private	Dry	130	Siddarajamma W/o Madegowda
				142/A1	Private	Dry	155	S.M. Raju S/o Late Kenchamadashetty
				150/F1	Private/ Govt	Kharab	280	Parampoku School Play Ground
				166/1	Private	Dry	500	V. Saraswathi W/o Chaluvaraju R. Puttaswamy S/o Late V.Cha. Rudrappa, Acquired for Site.
				164	Private	Dry	300	Mallappa Kaniya M. Chandrashekaradhaya R. Raju S/o Ramegowda R. Raju S/o Ramegowda Gurusomaradya S/o GuruswamyAradhya Gurubasavaradhya S/o Late Guruswamaradhya Gurusomaradhya S/o

							Guruswamyaradhaya
							Parvathamma Emba
							Chandramma W/o
							Guruswamyaradhaya
			166/2	Private	Dry	96	P. Nagarajappa S/o Late S. Prabhuswamy P.G.Palya
			166/3	Private	Dry	35	B.Manjula W/o C.Suresh
			166/1	Private	Dry	60	V. Saraswathi W/o Chaluvaraju
							R. Puttaswamy S/o Late V.Cha. Rudrappa Acquire for Site.
			162/B	Private	Dry	160	Siddalingamma Etc.
			162/A1	Private	Dry	25	Basamma Gurubasavegowda Etc.
			162/A2	Private	Dry	130	Basamma Gurubasavegowda Etc.
			170/B	Private	Dry	165	V. Saraswathi W/o Cheluvaraju C.Purushothama S/o Cheluvaraju
			170/A2	Private	Dry	120	Doddamadanayka S/o Puttamada
							Madesha S/o Marashetty
							Chikkamadanayka S/o Subbanayka
							Degegowda S/o Poojarimadegowda
							Rathnamma W/o Basavanna
							S. L. Rachaiah S/o Lingegowda
							Sannamma W/o Madappa
							Siddaraju S/o Rajachari
							Siddaraju S/o Lingegowda
							Chikkathayamma W/o Maheshi
							Rachamma W/o Rachachari
							Raju S/o Nagaraju
							Somachari S/o Rajachari
							Thayamma W/o Siddachari
			170/A1	Private	Dry	30	Puttamadanayka S/o Puttamara
			171/B1	Private	Dry	55	Puttamadanayka S/o Puttamada
			171/B2	Private	Dry	132	Y.P. Moulasha S/o Late Fakruddin Saheb Kollegala
			171/A	Private	Dry	255	Mahadeva S/o Late Mahadevappa
			172	Govt	Kharab	28	Government Property (Nala)

				179/7	Private	Dry	60	R. Kapanappa S/o Kapanaiiah Emba Rajiya							
								Chandramma W/o Nanjundappa							
								N. Shivamurthy S/o Nanjundappa							
								Bhogananjappa S/o Rachappa							
								Siddamma W/o Late Rachaiah							
								184/F2	Private	Dry	350	Minor Guardian D. Velumani Guardian Mother Rukminiyamma D/o Rangaswamy Naidu			
												Mahadevamma			
												Gowramma			
												Parvathamma			
								185/B	Private	Dry	30	Mallamma			
				Balalochana Aradhya											
				Podu S/o G. Chandrashekaradhya											
				Parvathamma W/o G. Panditharadhya											
				Panditharadhya S/o G.Panditharadhya G.Chandrashekaradhya											
				Umesharadhya S/o G. Panditharadhya Nandisharadhya S/o G. Panditharadhya											
				7.Dhanagere							Government Property (Road)				
											81/A	Govt	Road	2000	Government Property (Road)
											Nala-4	Govt	Nala	4545	Government Property (Nala)
											299/B	Private	Wet	615	Muthamma emba Subbamma
											298	Private	Dry	260	Muthaiah S/o Muthaiah
Mahadevamma W/o Muthaiah															
297/B/2	Private	Dry	117								Mahadeva S/o Late Madaiah				
297/B/1	Private	Dry	133								Sundra S/o Muddaiah				
											Rajanna S/o Muddaiah				
297/A/1b	Private	Dry	230								Marisavuka S/o Savuka				
296/C	Private	Dry	130	Madamma Dhanagere											
296/A	Private	Dry	95	Arasi											
295	Private	Dry	145	K.Mada											
				Sidda											
				Chikka Mada Minor Guardian Mother Chenni											
294/D	Private	Dry	95	Gavisidda											
294/A	Private	Dry	70	Kumaraswamy											

							M. Chikkamadaiah S/o Madaiah Hottemada
			293	Private	Dry	87	Sidda vagaire 6 People
			292/B	Private	Dry	135	C. Chandaiah S/o Chanda
			292/A/5	Private	Dry	75	Karuga vagaire 9 people Nanjamma W/o Gunananja
			105/A	Govt	Kharab	200	Government Road
			221	Govt	Kharab	230	Parampoke
			125/A	Govt	Kharab	50	Parampoke
			126/A	Private	Dry	1130	Road
			127/B	Govt	Kharab	1290	Parampoke
			220/B	Private	Dry	70	Doddamaridevaru
			219/3	Private	Dry	90	M.Guruswamy S/o Mahadevappa M.Guruswamy S/o Mahadevaiah
			219/2	Private	Dry	91	M. Siddamallappa S/o Mahadevaiah M. Guruswamy S/o Mahadevaiah M. Basavaraju S/o Mahadevaiah M. Kumaraswamy S/o Mahadevaiah M. Prabhuswamy S/o Mahadevaiah
			128	Private/ Govt	Kharab	30	Parampoke Nanjaiah S/o Dasaiah K.Swamy S/o Kempaiah Sakamari S/o Bunde Savukaiah M.Siddamallappa S/o Mahadevaiah M. Shivamallu S/o B. Madashetty
			134/A/4	Private	Dry	400	Venkatanayka S/o Ranga
			134/A/3	Private	Dry	280	Madamma W/o Venkataramana Mahadevanayka
			134/A/2	Private	Dry	150	Rangamma W/o Gavirangaiah
			134/A/1	Private	Dry	75	Mahadevaswamy S/o Nanjashetty Shivashankara S/o Nanjashetty
			213	Private	Dry	318	T.Veeraiah S/o Rudradevaru R. Mahadevu S/o Rudradevaru Basavaraju S/o Rudradevaru
			166	Private	Dry	20	K. Mahadevaswamy S/o Late Kempashetty Dhanagere Somaraju urf Manjunath S/o Late

								Kendashetty
				151	Govt	Kharab	1515	Parampoku
				165/B	Private	Dry	109	Raghavendra S/o Sa.Srinivasarao
				165/A	Private	Dry	78	Raghavendra S/o Srinivasa Anantha padmanabha
				164/B	Private	Dry	88	Raghavendra S/o Srinivasarao Anantha padmanabha S/o Srinivasarao
				164/A	Private	ALN	257	Isarath Banu W/o Irshad Pasha
				163/3	Private	Dry	104	Irshad Pasha S/o Abdul Samad
				163/2	Private	Dry	104	Irshad Pasha S/o Abdul Samad
				163/1A	Private	Dry	120	Irshad Pasha S/o Abdul Samad
				163/1B	Private	Dry	124	S. R. Sanjeevareddy S/o Late M. Ramaiah Reddy Sadaramangala Bangalore
				162/B	Private	Dry	164	S.R. Sanjeevareddy S/o Late M. Ramaiah Sadaramangala Bangalore. R. Dinesh Gupta S/o Late S. Ramashetty Kollegala S.R. Sanjeeva reddy S/o Late M. Ramaiahreddy Sadaramangala Bangalore.
				162/A3	Private	Dry	112	Mahadeva S/o Late S. Madashetty
				162/A2	Private	Dry	118	Mahadeva S/o Late S. Madashetty
				162/A1	Private	Dry	129	Kempaiah S/o Kempaiah
				153/4	Private	Dry	103	Kempa S/o Kempa
				153/3	Private	Dry	125	Savuka S/o Savuka Dhanagere
				153/2	Private	Dry	140	J. Gavirangaiah
				152	Govt	Kharab	135	Halla parumpoku
				141/1	Private	Dry	30	Chowdashetty S/o Puttashetty
				142/2	Private	Dry	100	Ganesha S/o C. Puttamadu Ganesha S/o C. Puttamadu
				142/3	Private	Dry	30	Ganesh S/o C. Puttamadu - Alienated
				142/1	Private	Dry	10	Ganesha S/o C. Puttamadu - Alienated
				142/4	Private	Dry	100	Sarojamma Suresh W/o Suresh Kollegala
				143	Private	Dry	185	Sarojamma W/o Suresh Kollegala
				144/B/2	Private	Dry	30	Kempaiah S/o Mutta

				144/B/1	Private	Dry	30	Pillesavukana Kempaiah
				144/A/1	Private	Dry	120	K. Swamy S/o Kempaiah
				149/B	Private	Dry	205	R.Gowramma W/o T.S.Shivaswamy
				149/A/4	Private	Dry	60	Shivamma W/o Late Dundaiah
				149/A/3	Private	Dry	40	C.Prabha Surendra W/o Late Surendra Kollegala
				149/A/2	Private	Dry	40	C.Prabha Surendra W/o Late Surendra Kollegala
				150	Govt	Dry	305	Hallada Parumpoke
			8.Uganiya	1/1	Private	Dry	3800	Pu. Mallappa Sattedgala
								P.Devegowda S/o Puttegowda Emba Devegowda
				1/2	Private	Dry	360	K.Chikkamayigowda S/o Late Jo.Kempegowda
			9.Sathegala	1378	Govt	Kharab	335	Government Kharabu
				725	Private	Dry	875	Karugaiah S/o Kenchaiah
								Chikkaputtaiah S/o Kencharasaiah
								Venkataiah S/o Giriyana Dasaiah
								Chikkarangaiah S/o Giriyana Dasaiah
								Mariya S/o Giriyana Dasaiah
								Rachaiiah S/o Nanjedevara Guddaiah
								Chikkarangegowda S/o Chikkalingegowda
								Siddegowda S/o Nanjegowda
				1377	Private	Dry	400	Manchamma W/o Eleragi Nanjaiah
								Nanjundaiah S/o Eleragi Manchaiah
								M. Mahadeva S/o Manchaiah
								Manchaiah S/o Manchaiah
								Chikkamallaiah S/o Eleragi Manchaiah
				724	Private	Dry	740	Madamma W/o Late Muthaiah Agrahara
								Puttaiah S/o Kenchaiah
								Arasaiah S/o Madaiah
Puttamadaiah S/o Madaiah								
Kullaiah S/o Madaiah								
Chikkamadaiah S/o Madaiah								
Arasaiah S/o								

								Madaiah
								Puttamadaiah S/o Madaiah
								Sannaiah S/o Kencharasaiah
								Karugaiah S/o Kencharasaiah
								Chikkaputtaiah S/o Kencharasaiah
				1376	Private	Dry	450	S. Siddaiah S/o Soshiyana Nanjaiah
				1375	Private	Dry	750	Jayamma W/o Kempegowda
				715	Private	Dry	725	C. Bhaskara S/o Chinnimuttaiah
								Jayaswamy S/o Rangaiah
				1371	Govt/ Private	Kharab	200	Government Property Kharabhu
								M. Madegowda S/o Mayigowda
				714	Private	Dry	425	H. R. Upendra Kumar S/o Late H. Rangaiah
								Chinnimutta
				1370	Private	Dry	400	Archakara Shivarudrappa S/o Rudrappa
								R. Nagaraju S/o Rudrappa
								V. Basavaraju S/o Late Veerabhadrappa
								V. Nagaraju S/o Veerappa
								H. Veerappa S/o Hosameravappa
								J.Veerabhadrappa S/o Gangadaraiah
				712	Private	Dry	700	Lakshamma W/o Shivanna
				1363	Private	Dry	350	Basavaraju S/o Chikkava Emba Siddegowda
								Shantharaju
				711	Private	Dry	650	Jogisidda S/o Hottesidda
				1362	Private	Dry	350	K. Nataraju S/o Late Kallare
				1361	Private	Dry	800	Marinanjamma W/o Late M. Siddaiah
								Kenchaiah S/o Siddaiah
				689	Private	Dry	450	Doddakempaiah
				688	Private	Dry	475	D. Shivashankara S/o Manaiahna Doddanna
				687	Private	Dry	475	Javaraiah S/o Late Puttamaramesthri
								Mallaiah S/o Kuntasiddaiah
								Maraiah S/o Kuntasiddaiah
								Kenchaiah S/o Ku. Siddaiah
				686	Private	Dry	450	Muddulingaiah S/o

								Ponarikempaiah
								Javaraiah S/o Late Puttamaramesthri
								Javaraiah S/o Puttamadamesthri
				681	Private	Dry	3750	Dundamma W/o Dodda kempaiah
								Kempaiah S/o Muddalingaiah
				1324	Private	Dry	800	C.Jai Shankar S/o Late M. Chikkasiddegowda
								Mahadevamma W/o D. Nanjundaswamy
								C.JaiShankar S/o Late M. Chikkasiddegowda
				680	Private	Dry	2100	Mothanakempaiah
								Muddulingaiah S/o Muddulingaiah
				679	Private	Dry	1230	Jolanakempaiah
				678	Private	Dry	325	Jogisiddiah S/o Kuntajogaiah
								Jolanakempaiah
				664	Private	Dry	30	Shivanaiah S/o Late Lakshmaiah
								Ramaiah S/o Shivanaiah
								M. Mallesha S/o Late S. Madaiah
								Remaining land As per Akarbhand
				682	Private	Dry	590	Marisiddiah S/o Marisiddaiah
								Doddasiddaiah
								Kempamma
				ROAD-3	Govt	Road	8365	Government Property (Road)
				463	Private	Dry	50	K. Krishnegowda urf Shivanegowda S/o Late Jo Kempegowda
								K. Chikkamayigowda S/o Late Jo. Kempegowda
								S.M. Rajugowda S/o K.P. Mallegowda
				550	Private	Dry	30	P. Somanna
								P. Krishnegowda S/o Late Puttegowda
								P. Somanna S/o Late Puttegowda
								P. Krishnegowda
				NALA-5	Govt	Nala	3120	Government Property (Nala)
				543	Private	Dry	1830	Chikkirashetty S/o Chikkarashetty
				540	Private	Dry	685	Devegowda S/o Kenchegowda
								Shekhar Gowda S/o Kenchegowda
								Shivappa S/o Kenchegowda
								Pushpa W/o D. Jayaramegowda

				D. Jayaramgowda S/o M. Devarajegowda
				Manchegowda
				Basavegowda
				Devegowda S/o Kenchegowda Shekhar Gowda S/o Kenchegowda Shivappa S/o Kenchegowda
				Pushpa W/o Jayaramgowda
				D. Jayaramgowda S/o M. Devarajegowda
				Pushpa W/o D. Jayaramgowda
				Mahadevagowda
				V. Guruswamy S/o Late J. Veeregowda
				J. Mayigowda S/o V. Javarayigowda Kabini Nala
				Channamma W/o Gurumadappa And Jayashankaraswamy
				Nagarajashetty S/o Late Gannilishetty
				M. Shivaramgowda Nanjashetty
				Puttaswamyshtetty
				M. Shivaramgowda S/o Meradegowda
				Nanjashetty
				M. Mahadevappa S/o Ningamma
				Kantharajegowda S/o Maralli Puttegowda
				Mahadevegowda S/o Maralli Puttegowda
				Rajesh S/o Maralli Puttegowda
				Mariswamygowda Chikkamarigowda
				As per RTC
				Raped Factory
				P. Subramanyam S/o Palaniswamy
				Devegowda
				Shambhugowda S/o Devegowda
				B. Puttaswamygowda S/o Bommegowda
				Kunnegowda S/o Bommegowda
				Channegowda S/o Bommegowda
				Puttamara Meshtri Son Puttamara Meshtri Saragur
				S. Chikkasiddegowda S/o Kunnegowda
				Shivogigowda

				995	Private	Wet	4290	Shivogigowda
				1004	Private	Wet	1815	Ramanaputtanaika
				1005	Private	Wet	2860	Siddaiah - Maramma
								R. Janardhana S/o V. Ranganada Modaliyar
				1006	Private	Wet	204	L. Kenchegowda S/o Lingegowda
				1007	Private	Wet	1344	L. Kenchegowda S/o Lingegowda
				1008/1	Private	Wet	3150	D. Narayanaswamy S/o Doddakampaiah
				971	Private	Wet	4400	Chikkalingegowda S/o Madegowda
								Ma. Devegowda
								Mu Lingegowda Son-in-Law "E" Siddegowda
				970	Private	Wet	30	Kempaiah S/o Muddulingaiah
				976	Private	Wet	2296	Mayigowda S/o Javaregowda
								Kempaiah S/o Muddulingaiah
				KAVERI RIVER	Govt	Kaveri River	29590	Cauvery River
2	Mandya	1. Malavalli	1. Belakavadi	412/1	Private	Dry/ Wet	4800	Kalashetty S/o Kodihalli Kempashetty
								Kalashetty S/o Late Kodihalli Kempashetty
								Revanna S/o Late Kodihalli Kempashetty
								Kempashetty S/o Late Kodihalli Kempashetty
								Chowdamma W/o Late Siddaiah
								Siddashetty S/o Late Siddaiah
				Road	Govt	Road	1205	Government Property (Road)
				414	Private	Dry	2300	V.Leelavathi W/o V.Mariswamy
				505	Private/ Govt	Dry	200	Kempaiah S/o Kolathuru Muddaiah
								Sannaiah S/o Kolathuru Muddaiah
								Government
				427/2	Private/ Govt	Dry	530	Government
				427/1	Private	Dry	3288	Ramegowda S/o Appajigowda
				426/3	Private	Dry	6850	S.Shivakumaraswamy S/o Late M.S.Somanna
				426/2	Private	Dry	270	Ramegowda S/o Appajigowda
				425	Private	Dry	4125	Muthathi Anjaneyaswamy enam Muthathi Sri Anjaneyaswamy'

				Road1	Govt	Road	355	Government Property (Road)
				422/2	Private	Dry	1690	Ningamma W/o Late Ningaiah
				423/2	Private	Dry	2475	T.R. Sukumar S/o Late Rangaswamy
				423/1	Private	Dry	6350	T.R. Sukumar S/o Late Rangaswamy
				421/1	Private	Dry	275	S.B.Geetha W/o N.Sathish
				326	Govt	Dry	395	Police Station (Rotti katte)
				327	Private	Dry	2950	Shashikala W/o Nagaraju
				328/2	Private	Dry	430	Thyagaraju S/o D.Madashetty
				328/1	Private	Dry	150	Yashodamma W/o Late Sille Lingegowda
				Road2	Govt	Road	95	Government Road
				336	Private	Dry	75	H.C.Pilleppa S/o H.M.Chikkannashetty
				338/1	Private	Dry	75	H.Ravishankara S/o H.Honnagangappa
				338/2	Private	Dry	40	H.Ravishankara S/o H.Honnagangappa
			2.Hosahalli	146	Private	Dry	30	Puttamadashetty S/o Lingamma
				145/3	Private	Dry	1095	Shajmanibhanu.M.S. W/o Dr. Mohammed Sayeed Ahamed
				145/2	Private	Dry	468	Shajmanibhanu.M.S. W/o Dr. Mohammed Sayeed Ahamed on Behalf of GPA Holder Saiyad Shafi Ula S/o Late Saiyed Ibrahim
				124	Private	Dry	5303	M.Narayan Bhat S/o M.Shankar Bhat
								M.Narayan Bhat S/o M.Shankar Bhat
								H.S.Guruswamy S/o Siddachari
								Rachappaji S/o Late Siddappaji urf Rachachari
								Dr. Narayan Bhatt S/o Shankar Bhatt
								Nagaraju S/o Late Boregowda
				112	Private/ Govt	Dry	4635	As Per RTC
				122	Private	Dry	1530	Dr. M.Narayanabhatt S/o Shankar bhat
				123	Private	Dry	2017	Harish Pu.Num S/o S.Nanjappa
								Mallikarjunaiah S/o Dhundaiah
				121	Private	Dry	465	Naganna S/o Channabasappana Siddappa
								H.S.Naganna Minor Guardian mother

								Siddalingamma Minor Guardian mother Siddalingamma W/o Channabasappana Siddappa
								Mahadevappa S/o Bogappa
								Doddaputtaiah S/o Shivanaiah
								Dyavaiah S/o Siddappa
								Nagamma W/o Mahadevappa
								Gowdara Siddappa S/o Gowdara Sannappa
								Mahadevappa S/o Bogappa
								H.S.Naganna S/o Minor Guardian mother Siddalingamma
								Siddamallappa S/o Siddappa
				120/2	Private	Dry	725	Dundaiah S/o Dundaiah
				Nala	Govt	Nala	125	Government Nala
				Nala-1	Govt	Nala	145	Government property (Nala)
				50	Private	Dry	580	Siddamma W/o Marananjaiah
								Shivamma W/o Late Siddaiah
								Manchaiah S/o Kem.Nim.Dundaiah
								Maramma W/o K.Dundana Marimaddaiah
								Manchaiah S/o K.Num.Dundaiah
				52/2	Private	Dry	30	Basha S/o Emam Sab
								Maramma W/o Rachaiah
								Basha S/o Emam sab
				52/1	Private	Dry	150	Puttamadappa S/o Mishan Balappa
								Puttamadappa S/o Mishan Balappa
								Puttamadappa S/o Mishan Balappa
								Bhadrappa S/o Puttappa
								Puttamadappa S/o Mishan Balappa
Puttamadappa S/o Mishan Balappa								
Puttamadappa S/o Balappa								
Rudrappa S/o Saraguru Siddappa								
				Puttamadappa S/o Mishan Balappa				
				Mariswamy S/o				

								Maridevaru
								H.M.Mahadevappa S/o Mallikarjunaiah
				Road	Govt	Road	70	Government Property (Road)
				53/1	Private	Dry	55	AS PER RTC
				53/2	Private	Dry	50	AS PER RTC
				54/1	Private	Dry	30	Chikkanna S/o Late Maraiah
				55/1	Private	Dry	55	Marimadaiah S/o Kurinanjaiah
				Nala	Govt	Nala	115	Government property (Nala)
				310/1	Private	Dry	385	Nanjundaswamy S/o Nanjundanamadappa
								Rathnamma W/o Hosahalli
								Badhrappanaputta
								Rathnamma W/o Nanjundaswamy
								Nanjundaswamy S/o Madappa
				310/2	Private	Dry	204	Rathnamma S/o Hosahalli
								Bhadrappanaputta
								Mahadevaiah S/o Chikkamadegowda
								Mantelingappa S/o Siddappa
				310/3	Private	Dry	310	B.R.Basavanna S/o Rachappa
								B.R.Basavanna S/o Rachappa
								Mahadevaiah S/o Chikkamadegowda
								B.R.Basavanna S/o Rachappa
				310/4	Private	Dry	225	Mantelingappa S/o Siddappa
								Rachappa S/o Siddappa
				314	Private	Dry	195	G.Mahadev S/o Gurumallappa
								Mahalingappa urf Sannappa S/o
								Chikkempilingappa
								H.G.Vishakantamurth y S/o Gurumallappa
								Siddappa S/o Chikkempilingappa
								Kempanna S/o Chikkempilingappa
								H.M.Shivamurthy S/o
								H.N.Mahadevappa
								H.M.Mahadevappa S/o
								H.N.Mahadevappa
								Nagamma D/o H.N. Mahadevappa
								Mahadevamma D/o H.N. Mahadevappa
								H.N. Mahadevappa S/o Chikkakempi

					M. Mahalingappa S/o H.N. Mahadevappa
					C.M.G.Subanna
					Jayamma S/o Bachanahalli Mahadevappa Na family
					Jayamma W/o Mahadevappa
					Puttsubbegowda
					Pappanna S/o Devarajappa
					Gowramma W/o Lingappana mahadevappa
					D.Shivalingaswamy S/o Devarajappa
					Manjunath S/o Mahadevappa
					Jayamma W/o Mahadevappa
					B.Lingegowda S/o Boralingegowda
					Shankara S/o Chikkegowda
					D.Lingaiah S/o Boraiah
					Chikkegowda S/o Doddammaiah
					Padmamma W/o Bairashetty
					Beelu
					B.C.Chandrashekarappa S/o Chikkamadappa
					B.C.Chandrashekarappa S/o Chikkamadappa
					H.M..Puttaswamy S/o H.M.Mahadevappa
					B.C.Chandrashekarappa S/o Chikkamadappa
					Siddalingappa urf Maridevaru S/o D. Maridevaru
					Padmamma W/o Bairashetty
					Padmamma W/o Bairashetty
					Padmamma W/o Bairashetty
					Padmamma W/o Bairashetty
					Doddanadakerigowda S/o Doddathimmegowda
					H.Swamy S/o Hombalegowda
					Hombalegowda urf Papanna S/o Hombalegowda
					H.Siddegowda S/o Hombalegowda
					H.Siddegowda S/o Hombalegowda
					H.K.Kempegowda

								S/o Kempegowda
								Government
								H.Swamy S/o Hombalegowda
				92/3	Private	Dry	130	Nadakerigowda S/o Hombalegowda
				92/2	Private	Dry	300	Nadakerigowda S/o Hombalegowda
								Nadakerigowda S/o Late Hombalegowda
				92/1	Private	Dry	430	Hombalegowda urf Papanna S/o Hombalegowda
								Manchamma W/o Thimmegowda
				96/2	Private	Dry	190	Thimmaiah S/o Chikkathimaiah
				Road	Govt	Road	1015	Government Property(Road)
				Nala	Govt	Nala	55	Government Property (NALA)
				Nala-1	Govt	Nala	210	Government Property (NALA)
				187/1	Private	Dry	120	Chowdamma W/o Boregowda
				188/4	Private	Dry	220	Suresh S/o Late Ningegowda
								Narayana S/o Muthegowda
				188/3	Private	Dry	150	Prakasha S/o Late Boraiah
				188/2	Private	Dry	35	Rama Prasad S/o Kempegowda
								D.K.Shankaregowda S/o Kempegowda
				188/1	Private	Dry	376	K.Narayanaswamy S/o Kempegowda urf Motegowda
				Nala-2	Govt	Nala	30	Government Property (NALA)
				1	Private/ Govt	Dry	400	Government
								Mariyappa S/o Late Pa.Marigowda
								Mahadevaiah S/o Marigowda
								Mahadevaiah S/o Marigowda
								Government
								Chikkamma W/o Doddaiiah
								Boregowda S/o Boregowda urf Mottegowda
								Chikkavanu S/o Boregowda urf Motegowda
								Chikkamma W/o Doddaiiah
								Kempaiah S/o Doddasiddaiiah
								Lingaiah S/o Dollegowda
								M. Boraiah urf Krishna S/o Late

								Maralingaiiah
								Puttaiah S/o Late Javarayigowda
								Boraiah urf Puttu S/o Late Javarayeegowda
								Shukkursab S/o Amadebeg urf Tal Sab
								Khasim Beg S/o Amadebeg urf Tal Sab
								Khasim Beg S/o Ahamad Beg
								Sannegowda S/o Chikkegowda
								Government
								Indramma W/o T. Narayana
								Honnagiri urf Sannaiah S/o Thimmegowda
								D.C. Thimmegowda S/o Chikkavenkategowda
								B. Prabhulingegowda S/o Boregowda
				2/1C	Govt	Dry	45	Government
				Road-1	Govt	Road	30	Government Property (Road)
				Nala-3	Govt	Nala	45	Government Property (Nala)
			4.Pandithahalli	63/2G	Private	Dry	120	Javarayigowda urf Kariyappa
				63/2B	Private	Dry	160	K.Krishnappa S/o Late Kempegowda
				63/2A	Private	Dry	160	AS PER RTC
				63/1	Private	Dry	215	Kunnegowda S/o Mugegowda
				Road	Govt	Road	50	Government Property (Road)
				Road-1	Govt	Road	40	Government Property (Road)
				83/3A	Private	Dry	55	Madegowda S/o Bommegowda
				83/3B	Private	Dry	60	Nanjegowda Kyathanahalli Mantyaiah S/o Mallamantyaiah
				83/3C	Private	Dry	50	Subbamma W/o Srikantachari
				83/2	Private	Dry	65	Venkataiah
				83/1	Private	Dry	185	Gowramma W/o Siddalingshetty Choudamma W/o Muddaveerashetty
				Road-2	Govt	Road	95	Government Property (Road)
				37	Private	Dry/ Garden	30	Shashiyappa S/o Puttamadappa P.M.Mahadevaswamy S/o Late Madappa Lingappa S/o Shashiyappa Shashiyappa S/o

							Lingappa urf Hottappa
							Mahadevappa S/o Devappa
							Shashiyappa S/o Puttamadappa
				Road-3	Govt	Dry	30 Government Property (Road)
				Road-4	Govt	Dry	95 Government Property (Road)
				Road-5	Govt	Dry	135 Government Property (Road)
			5.Bachanahalli	234/3	Private	Dry	320 Katthehongaiah
				234/1	Private	Dry	190 Mahadevaiah S/o Lingaiah Mahadevaiah S/o Lingaiah Mahadevaiah S/o Lingaiah
				242/1A/1a	Private	Dry	240 As Per RTC
				279/7	Private	Dry	70 Lingaiah S/o Deveeramma
				279/6	Private	Dry	70 Subbappa S/o Balappa
				279/5	Private	Dry	90 Lingaiah S/o Udaratthana Lingappa
				279/4	Private	Dry	39 Puttalingamma
				279/3	Private	Dry	56 Marimadaiah S/o Chikkabasappa
				279/1	Private	Dry	310 Lingappa.K S/o Kalappa
				Road	Govt	Road	95 Government Property (Road)
				12	Govt	Kharab	180 Government Grave yard
				11/1.	Private	Dry	260 Mariswamy S/o Late Mallaiah urf Kullaiah Devappa S/o Late Mallaiah urf Kullaiah
				Nala	Govt	Nala	90 Government Property (Nala)
				Nala-1	Govt	Nala	70 Government Property (Nala)
				101	Private/ Govt	Dry	168 Muslim Grave Yard
				100/3	Private	Dry	120 Basavaraju S/o Late Nanjundaiah B.N.Nagaraju S/o Late Nanjundaiah B.N.Shekar S/o Late Nanjundaiah
				99	Private	Dry	340 Basavarajappa S/o Channappa Basavaraju S/o Basappa
				42/1	Private	Dry	288 Mariswamy S/o Late Mallaiah urf Kullaiah Devappa S/o Late Mallaiah urf Kullaiah Balappa S/o Late Mallaiah urf Kullaiah Mahadevamma W/o

								Mallappa								
				44/2	Private	Dry	192	Basavanna S/o Siddappa								
								Mantelingappa S/o Siddappa								
								94/2	Private	Dry	120	Meer Mujaheed Beg S/o Dasthageer Beg				
												94/1	Private	Dry	30	Vajeer Sab S/o Bakar sab
																93
								92/2	Private	Dry	160	Vajeer Sab S/o Bakar Sab				
												92/1	Private	Dry	120	B.Mahadeva S/o Basavegowda
								B.M.Jayanna S/o Kullamadegowda								
								B.Mahadeva S/o Basavegowda								
								B.M.Jayanna S/o Kullamadegowda								
								91/4	Private	Dry	148	B.S.Manjunath B.S.Shivashankar mother Sanamma				
												91/1	Private	Dry	160	Kempamma D/o Subbegowda
								Nanjamma D/o Late Subbegowda								
								82	Private/ Govt	Kharab	336	Sannamadamma W/o Late B.K.Madegowda				
												Madegowda S/o Chikkamadegowda				
				6. Marehalli				705	Private	Dry	1265	M.S.Bhujangaiah S/o Siddegowda				
												Ningamma W/o Devaiah				
												M.S.Rajan S/o Srikantegowda				
												M.B.Muthaiah S/o Madegowda				
												M.B.Muthaiah S/o Madegowda				
								Road-3	Govt	Road	35	Government Property (Road)				
								688/1A1	Private	Dry	415	M.N.Nagalakshmi W/o C.M.Shivakumar				
												H.P.Jayarathna W/o Late M.Nanjegowda				
												1st Sarojamma D/o Manchegowdaru 2nd wife, 2nd Ningamma D/o Gowramma				
												Chikkabasavegowda S/o Kunnabasavegowda				
Mallaiah S/o Kasalagere Siddaiah																
Naganna S/o Chennaiah																
Shivanna S/o Channaiah																
C.Puttaswamy S/o																

					Channaiah
	688/1A2	Private	Dry	75	Sarojamma W/o H.Syamsan
	688/1B	Private	Dry	80	Mane jaga
	688/2	Private	Dry	45	Naganna S/o Kempaiah
Parvathamma W/o late Siddegowda					
Kempaiah S/o Kempaiah					
Marigowda S/o Kempaiah					
Shantharaju S/o Muddaiah					
Parvathamma W/o late Siddegowda					
Bhagyamma W/o Chowdaiah					
Somasundar S/o Chikkamallaiah					
Gres merina W/o Jayaraju					
Mariswamy S/o Kempaiah					
Kempaiah S/o Kempaiah					
Naganna S/o Kempaiah					
Devegowda S/o Siddegowda					
Devegowda S/o late Siddegowda					
G. Mariswamy S/o Golaiah					
B.C. Basavaraju S/o Basavegowda					
Parvathamma W/o late Siddegowda					
B.C. Basavaraju S/o Basavegowda					
K.Nethra minor gaurdian father Kempaiah					
G.K. Kirankumar minor gaurdian mother Sarojamma					
Marigowda S/o Kempaiah					
Kempaiah S/o Kempaiah					
Marigowda S/o Kempaiah					
	687	Private	Dry	30	Kaadisiddaiah S/o Subbaiah
Kumara S/o Mahadeva Nayaka					
Devaraju S/o Kalaiah					
D.Devaraju S/o Dombagalegowda					
Channakaiah S/o Subbaiah					
	686	Private	Dry	200	Hovammana Channaiah S/o Channaiah

				Somasundara S/o Chikkamallaiiah Boys
				Basavarajamma W/o Shivamalappa
				Kaadisiddaiah S/o Subbaiah
				Devaraju S/o Kalaiah
				Basavaraju S/o Mallegowda
				N.Rajesh S/o Pappanna
				Ramesh S/o Late Kariyappa
				E.A.Overton W/o Late B.J.Overton
				Vishakanta S/o Mahadevu
				Siddalingegowda S/o Kempegowdna Marigowda
				G.Ravi S/o Giriyaiah
				G.Ravi S/o Giriyaiah
685	Private	Dry	480	E.A.Overton W/o Late B.J.Overton
				M.V.Venkatappa S/o K.V.Venkatappa
				Smt. Gowramma
				M.V.Venkatappa Service Trust in favour of Secretary B.A.Mohan
				Stuvard Association in Indira
				E.A.Overton W/o Late B.J.Overton
684	Private	Dry	545	Amararam S/o Deeraram
				Lalaram urf Lal Chandh S/o Deeraram
				Amararam S/o Deeraram
				Lalaram urf Lal Chandh S/o Deeraram
683/1	Private	Dry	60	Mayamma W/o Late Mayashetty
683/4	Private	Dry	85	Meer Abjal S/o Meer Bahadur
683/5	Private	Dry	50	K.H.Honnagirigowda S/o Honnagirigowda
Road-2	Govt	Road	425	Government Property (Road)
681	Private	Dry	360	Subbaiah S/o Kadisiddaiah
				M.V.Venkatappa S/o K.V.Venkatappa
				R.Sundara S/o Rangaiah
Nala-2	Govt	Nala	90	Government Property (Nala)
302	Private	Wet	50	H.Kallishetty S/o Hombalashetty
301	Private	Wet	30	Shivamma D/o

								Honnamma urf Yashodamma
								Shivamma D/o Srinivasa
								Honnamma urf Yashodamma W/o Kempaiah
				300	Private	Wet	305	H.Kallashetty S/o Bombalashetty
								Kallashetty S/o Kallashetty
				299	Private	Wet	35	M.B.Muthaiah S/o Madegowda
								M.V.Muthaiah S/o M.B.Venkatappa
								Anjaneya S/o Nanjappa
				298	Private	Wet	90	M.V.Muthaiah S/o Venkatappa
								Anjaneya S/o Nanjappa
								M.V.Muthaiaha S/o M.B.Venkatappa
								Venkatamma W/o M.B.Venkatappa
								M.R.Survesha S/o H.Rachaiah
				297	Private	Wet	220	Gowramma W/o Madegowda
								Subbamma W/o Krishnaiah
				Nala	Govt	Nala	80	Government Property (Nala)
				Nala-1	Govt	Nala	210	Government Property (Nala)
				Road	Govt	Road	115	Government Property (Road)
				262/2	Private	Wet	300	Chikkamari S/o Marigowda
								Siddelingegowda S/o Kukkemarigowda
								Siddelingegowda S/o Kukkemarigowda
				262/1	Private	Wet	175	Chikkamari S/o Marigowda
								Siddegowda S/o Javarayeegowda
				259/1	Private	Wet	50	Bettadarangamma W/o Dri. Mallaiah
								M.K.Sheshanna
M.Vaidyappa S/o M.Madaiah								
M.Vaidyappa S/o M.Madaiah								
M.Mahadevaiah S/o late M.Madaiah								
L.Vaidyappa S/o Late M.Madaiah								
Maleyappa Madevamma								
Gangadhara								
M.Mahadevaiah S/o M.Madaiah								
Gangadhara S/o								
	</							

				Mallaiah
				M.C.Jagadeesh S/o Mallaiah
				Puttananjamma W/o M.C. Jagadeesh
				L.Gundaiah S/o Madaiah
				L.Dundaiah S/o Shivanasamudrada Lingaiah
206	Govt	Kharab	475	Gunduthopu
184	Private	Wet	865	Marichikkaiah S/o Late Huchegowda
				Madegowda S/o Late Huchegowda
				Hombalamma W/o Venkategowda urf Kullavenkategowda
89/1	Private	Dry	340	AS PER RTC
89/2	Private	Dry	50	AS PER RTC
88	Govt	Kharab	550	Government Devasthana Bommadevaru
86	Private	Wet	70	M.A.Chikkaraju S/o Annegowda
85/1A	Private	Wet	405	AS PER RTC
84	Private	Dry	75	M.A.Chikkaraju S/o Annegowda
81/2	Private	Wet	280	M.C.Purnakanthi W/o M.B.Raju
81/1	Private	Wet	200	M.C.Purnakanthi W/o M.B.Raju
80	Private	Wet	200	Mahadeva S/o Madaiah urf Thippuraiah
				Naganna S/o Madaiah urf Thippuraiah
78/2	Private	Wet	50	Jayamma W/o Late Subbashesetty
				Nagaraju S/o Subbashesetty
				Papanna S/o Subbashesetty
				Chikkapappanna S/o Subbashesetty
76	Private	Wet	100	M.S.Nagaraju S/o Subbashesetty
75	Govt	Kharab	300	Government Devasthana Amrutheshwaraswamy Devaru
67	Private	Wet	500	Mallaiah S/o Siddaiah
				Naganna S/o Channaiah
				Naganna S/o Channaiah
Road-1	Govt	Dry	30	Government Property(Road)
8/4.	Private	Dry	350	Anandaswamy S/o Channaiah
				Naganna S/o Channaiah

				8/3.	Private/ Govt	Dry	290	K.Kalaiah S/o Late Channaiah				
									Naganna S/o Channaiah			
				6/3A.	Private	Dry	510	AS PER RTC				
				6/2.	Private	Dry	315	Kaadisiddaiah S/o Subbaiah				
				6/1.	Private	Dry	215	M.S.Subramanya S/o Ramaiah				
				1/1	Private	Dry	205	E.A.Overton W/o Late B.J.Overton				
				1/2	Private	Dry	50	Sudha W/o Vishwanatha				
				1/3	Private	Dry	300	Sandli arna vald S/o D.C.Jecob				
								Grace Victoria urf Devarathna				
				7. Nidaghatta	Nala	Govt	Nala	355	Government Property(Nala)			
					251/3	Private	Garden	114	Devamma W/o Puttaswamy			
									Andhanigowda S/o Chikkaboregowda			
									Singrigowda S/o Chaluvegowda			
									Thimmegowda S/o Eregowda			
									Mahadevamma W/o Suresha			
			H.Mahadesha S/o Hanumaiah									
			251/1C		Private	Dry	85	AS PER RTC				
			252		Private	Dry	305	M.V.Subramaniam				
								M.S.Mallegowda S/o Siddegowda urf Kullamarigowda				
				Madaiah S/o Siddegowda urf Kula								
				K.Mallaiah S/o Siddegowda urf Kullamarigowda								
				Channegowda S/o Somegowda								
				Somegowda S/o Muddegowda urf Kariyappa								
				Surash S/o Honnagirigowda								
				Mutthegowda S/o Karagundegowda								
M.V.Subramaniam												
Lingarajegowda S/o Siddaiah												
Srinivas S/o Venkategowda												
Anil Kumar												
								Manukumar Minor Gaurdian Mother Nagamma				
								Manjunatha S/o Late Thimmegowda				
			Lingamma-KoSrikantegowda									
			Thimmegowda S/o									

								Kundi Honnegowda				
								Shivaraju Minor				
								Gaurdian Mother				
								Susheelamma				
								Channegowda S/o				
								Lingegowda				
								Puttamasthu S/o				
								Angadi Kempaiah				
								Basavaraju S/o				
								Chikkakempaiah				
								Maridasaiah S/o				
								Thirumalaiah				
								Chikkavanu S/o				
								Ummattoraiah				
								H. Srinivas S/o				
								Unthooraiiah				
								239/3	Private	Garden	69	Lingarajegowda S/o
												Siddaiah
												Siddegowda urf
												Siddegowda
Chennamma S/o												
Chennegowda												
238/2	Private	Dry	46	Suresha S/o								
				Honnagirigowda								
	Private	Dry	88	Channegowda S/o								
				Siddegowda								
				Channegowda S/o								
	Private	Dry	231	Channegowda S/o								
				Siddegowda								
	Private	Garden	184	Gavigowda S/o								
				Muthegowda urf								
	Private	Garden	116	Hottekanegowda								
				Venkategowda S/o								
	Private	Garden	118	Kundi Honnegowda								
				Nagamma W/o								
	Private	Garden	148	K.L.Basavaraju								
				K.S.Siddaraju S/o								
	Private	Garden	118	Late Siddegowda urf								
				Kariyappa								
	Private	Garden	118	Honnegowda S/o								
				Honnagirigowda								
	Private/ Govt.	Dry	250	Gavigowda S/o								
				Mutthegowda urf								
	Private	Wet	180	Hottekanegowda								
				Ningegowda S/o								
	Private	Wet	180	Somichaluvana								
				kempegowda								
	Private	Wet	180	Chaluvegowda S/o								
				Somichaluvana								
	Private	Wet	180	Kempegowda								
				Devegowda S/o								
	Private	Wet	180	Somechaluvana								
				Kempegowda								
				Road-1								
				Govt								
				Road								
				125								
				Government								
				Property(Road)								
				205/2								
				Private								
				Dry								
				204/2								
				Private								
				Dry								
				312								
				Puttananjamma W/o								
				Kadaiah								
				Shanthamma W/o								
				late								
				203/3								
				Private								
				Wet								
				148								
				C.M.Chikkalingaiah								

								Chikkamadaiah S/o Manchegowda
								Puttananjamma W/o Kadaiah
								Chikkamadaiah S/o Manchegowda
								Battamma W/o Kunnegowda
				203/2	Private	Wet	129	Channegowda urf Doddavanu S/o Channegowda
								Channegowda urf Doddavanu S/o Channegowda
								Marilingegowda S/o Lingegowda
				200	Private	Dry	92	Devamma urf Kunduramma W/o Channegowda
								Channegowda S/o Marimuddana lingegowda
				199/1B	Private	Dry	105	Thammaiah S/o Masthiputtegowda
				199/2C1	Private	Dry	51	AS PER RTC
				199/2C2	Private	Dry	87	Channabasavaiah S/o Basavegowda
				253/1	Private	Dry	200	Thimmaiah S/o Melaiah
				253/2A1B	Private	Dry	75	AS PER RTC
				253/2A1A	Private	Dry	305	Hanumegowda
								Lingegowda S/o Lingegowda
								Nanjundaiah S/o Nanjaiah
				253/2B	Private	Dry	50	Hanumegowda
				253/3A1A	Private	Dry	325	AS PER RTC
				253/3A1B	Private	Dry	50	AS PER RTC
				253/3A1C	Private	Dry	50	AS PER RTC
				253/3A2	Private	Dry	50	AS PER RTC
				255/1	Private	Dry	390	Thimmegowda urf Kariyappa S/o Girigamma
								Thimmamma W/o Channegowda
								Thimmegowda urf Thimmegowda
								Gowramma W/o Muthegowda urf Venkatagirigowda
								Thimmegowda S/o Thimmegowda
				K.H.Srinivas S/o Honnagirigowda				
	257	Govt	Kharab	150	Kyathegowdanadoddi Public Grave Yard			
	261	Private	Dry	350	M.P.Channaiah S/o Late Doddaputtegowda			
					Sundaramma W/o Mariswamy			
					Sundaramma W/o Mariswamy			

								Sundaramma W/o Mariswamy				
								Mariswamy S/o Channegowda				
								Mariswamy S/o Channegowda				
				263/1	Private	Dry	200	Srinivasa S/o Thimegowda urf Kariyappa				
				264	Private/ Govt	Dry	990	Halu Uthpadakara Sahakara Sanga Ne. Kyathegowdana Doddi				
								Honnegowda S/o Chikkunnegowda				
								Siddaiah S/o Siddegowda				
								Neelidasegowda S/o Neelidasegowda				
								Honnagirigowda S/o Mutthegowda				
								D.Lalchandh urf Lalaram S/o Dheeraram				
				189/1A	Private	Dry	75	Hanumegowda M.T. S/o Thibbegowda				
								Hanumegowda M.T. S/o Thibbegowda				
				189/2	Private	Dry	75	Hanumegowda M.T. S/o Thibbegowda				
				189/3	Private	Dry	75	Madaiah S/o Kempankaiah				
				189/4	Private	Dry	75	Siddamma W/o Late Madaiah				
								Nagaiah S/o Madaiah urf Hunnanni				
								Rathnamma W/o Neelidasegowda				
				190/1	Private	Dry	900	Ningaiah S/o Channegowda				
								Thimmegowda S/o Muthegowda urf Hottekanegowda				
								Thimmegowda S/o Muthegowda urf Hottegowda				
								Thimmegowda S/o Muthegowda				
				191/1	Private	Wet	210	Nanjamma S/o Chikkaboraiah				
								B.Basavaraju S/o Late M.N.Basavaiah				
								193	Private	Wet	415	Venkategowda S/o Kundi Honnegowda
												Anil Kumar Minor Guardian mother Nagamma
												Manukumar Minor Guardian mother Nagamma
Shivaraju Minor Guardian Mother Susheelamma												
Suresh S/o												

								Honnagirigowda Manjunatha S/o Late Thimmegowda
				196/1	Private	Dry	150	Mutthegowda S/o Thimmegowda K.T.Honnagirigowda S/o Late Thimmegowda 2nd Nanjaiah S/o Ramamma
				196/2	Private	Dry	140	T.Thimmegowda S/o Thimmegowda
				196/3	Private	Dry	225	Mutthegowda S/o Late Thimmegowda K.T.Honnagirigowda S/o Late Thimmegowda Venkategowda S/o Late Thimmegowda
			8.Gowdagere	198/1	Private	Dry	440	AS PER RTC
				205	Private	Wet	180	Chowdaiah S/o Doddaninge Gowda Chaluvaiah S/o Chaluvaiah Basamma W/o Chaluvaiah Melaiah S/o Thimmaiah Basamma W/o Chaluvaiah Honnagiri S/o Honnagiri Melaiah S/o Doddamaalaiah
				85	Private	Wet	540	Abdul ganni saheb S/o Gows Saheb And Abdul Stataas urf Ameer Mahadevappa S/o Kundamadappa Veeratthaiah S/o Kundamadappa M.Meenakshamma W/o Shivanna Shivamma W/o Rajanna
				81/3	Private	Wet	120	S.Vajramma W/o late Subbanna S.Vajramma W/o Late Subbanna S.Vajramma W/o Late Subbanna
				81/4A	Private	Wet	87	S.Vajramma W/o Late Subbanna S.Vajramma W/o Late Subbanna Chikkamma W/o Mariyappa
				81/2	Private	Wet	68	S.Vajramma W/o Late Subbanna
				80	Private	Garden	456	AS PER RTC
				79/1	Private/ Govt.	Wet/ Garden	252	M.K.Kempeeraiah S/o Kempeeraiah Nirmala W/o Late

								K.N.Shivatheerthan
				79/2	Private	Wet/ Garden	213	Kottappa S/o Nanjappa Chandramma W/o Kottappa
								Kottappa S/o Nanjappa Chandramma W/o Kottappa
								Kottappa S/o Nanjappa Chandramma W/o Kottappa
								Kottappa S/o Nanjappa Chandramma W/o Kottappa
								Kottappa S/o Nanjappa Chandramma W/o Kottappa
								Kottappa S/o Nanjappa Chandramma W/o Kottappa
								Kottappa S/o Nanjappa Chandramma W/o Kottappa
								Kottappa S/o Nanjappa Chandramma W/o Kottappa
				75/1	Private	Wet/ Garden	243	AS PER RTC
				75/2	Private	Wet/ Garden	63	Veerabhadrappe S/o Puttalingappa
								Basavarajappa S/o Lingappa
				75/3	Private	Wet/ Garden	60	H.C.Jayamma W/o N.Eraiah
								H.C.Jayamma W/o N.Eraiah
				75/4	Private	Wet/ Garden	147	H.C.Jayamma W/o N.Eraiah
				72/1	Private	Wet	609	Gurumallappa S/o Mallappa
								Gurulingappa S/o Mallappa
								Gurulingappa S/o Mallappa
				125	Private	Wet/ Garden	110	Thoti Inam
								Siddaiah S/o Siragaiah
								Sumanaiah S/o Sumanaiah
								Doddasiddaiah S/o Kullaiah
								Hunnaiah S/o Kullaiah
								Mariyaiah S/o Kullaiah
								Doddkunnaiah S/o Kundisiddaiah

								Kempamma W/o Venkatesh
				127/3	Private/ Govt.	Wet	120	Shambulingappa S/o Basappa
				127/2	Private/ Govt.	Wet	30	Subbegowda S/o Maralingegowda
								Abdhulsatthar S/o Ameer Sab
				126/1	Private	Wet	80	AS PER RTC
				126/2	Private	Wet	164	AS PER RTC
				127/1A	Private	Wet	60	Hanumamma urf gowramma W/o Chowdegowda
								Madaiah S/o Maralingegowda
								Chaluvegowda S/o Somichaluvana Kempaiah
								Dyavegowda S/o Late Somichaluvana Kempaiah
								Dyavegowda S/o Late Somichaluvana Kempaiah
								Dyavegowda S/o Late Somichaluvana Kempaiah
								Dyavegowda S/o Late Somichaluvana Kempaiah
								Dyavegowda S/o Late Somichaluvana Kempaiah
				Road-1	Govt.	Road	30	Government Property (Road)
				128/1B	Private/ Govt	Wet	200	R.Dilip kumar S/o R.Roopchandh
								R.Dinesh Kumar S/o R.Roopchandh
				128/1A	Private	Wet	60	Channappa S/o Subbanna
								Basavanna S/o Madappa urf Shivnanjappa
								Madappa S/o Siddalingappa
				Road-2	Govt.	Road	135	Government Property (Road)
130/1	Private	Wet/ Garden	525	Veerappa S/o Chikkeeraiah				
				Madhu Minor Guardian Father Basavarajappa				
130/2A1	Private	Wet	198	Sarvamangala W/o Mahadevappa				
130/2A2	Private	Wet	160	H.M.Anantharamu S/o C.H.Muddaiah				
130/2B	Private	Wet	172	Shanthamma W/o Late Chikkeerappa				
				Mahadevappa S/o Putteeramma				
69/5	Private	Wet	100	Girijamma urf Puttamma W/o Madaiah				

								Ramesh S/o Basavegowda urf Thammaiah
				70/4B/1	Private	Wet	28	Ramesh S/o Basavegowda urf Thimmaiah
				70/4A/2	Private	Wet	80	Gowramma urf Parvathamma D/o Chikkalingappa
				70/3	Private	Wet	88	Chikkalingaiah S/o Bommannahalli Lingarajappa
				71	Private	Wet	68	Annapurna W/o G.M.Veerappa
			9.Attuvanahalli	36/1	Private	Wet	132	Shameema begam W/o Late Syed Mohammad Matheen
				36/2	Private	Wet	129	Basavarajappa S/o Late Madappa Mahadevappa S/o Putteeramma Mahadevappa S/o Putteeramma
				36/3	Private	Wet	126	Puttamagappa S/o Madappa Puttamanchegowda S/o Late Manchegowda
				35/1	Private	Wet	72	Shivanna S/o Lingappa Puttamanchegowda S/o Late Manchegowda
				34	Private	Wet	360	Mahadevappa S/o Siddalingappa urf Huchappa
				30/1	Private	Wet	205	Lingegowda S/o Lingegowda Nagaraju S/o Lingegowda
				30/2	Private	Wet	205	Dhanaguru S/o Hujjaboyi
				Nala-1	Govt.	Nala	35	Government Property(Nala)
				26/1A1	Private	Wet	133	Dundamadegowda S/o Doddamadegowda
				26/1A2	Private	Wet	152	Doddamadegowda S/o Chikkahanumegowda
				26/1B	Private	Wet	60	Doddamadegowda S/o Chikkahanumegowda
				57	Private/ Govt.	Wet	155	Chikkadevegowda S/o Dyavegowda Puttamma W/o Late Basavegowda Marigowda S/o Chikkabasavegowda Javaregowda S/o Chikkabasvegowda Prakasha S/o Chikkabasavegowda Marigowda S/o

								Chikkabasavegowda				
								Javaregowda S/o Chikkabasavegowda				
								Prakasha S/o Chikkabasavegowda				
								Madegowda S/o Chikkahanumegowda				
								Thimmaiah S/o Doddaputtabhoyi				
								C.Lingegowda S/o Chikkahanumegowda				
								Pa.Thimmabhoyi urf Thammaiah S/o Thimmabhoyi				
								56/2B1	Private	Wet	180	As per RTC
								56/3	Private	Wet	240	Thimamma W/o Thimmabhoyi
								55	Private	Wet	40	C.Lingegowda S/o Chikkahanumegowda
								54/1	Private	Wet	113	C.Lingegowda S/o Chikkahanumegowda
								54/2	Private	Wet	100	Gowramma W/o A.L.Puttahanumaiah
								53/1A	Private	Wet	90	Bandhegowda - Kenchegowdara Adopt son Bandhigowda
												Bandhigowda S/o Puttalingamma
								53/1B	Private	Wet	66	Bandhigowda (Adopt son) S/o Bandhigowda urf Kenchegowda
												Hanumegowda urf Chikkathammaiah S/o Lingegowda urf Puttaiah
								53/1C	Private	Wet	180	Hanumegowda urf Chikkathammaiah S/o Lingegowda Pa. Puttegowda
												Hanumanthaiah S/o Hanuboyi
								53/2	Private	Wet	60	Bettaiah urf Kariyaiah - Vadgalana lingaiah
												Biliyaiah S/o Vadgal lingaiah
Nala-2	Govt.	Nala	470	Government Property(Nala)								
							37/1	Private	Wet	312	Subbanna S/o Late Puttabasappa	
											Subbanna S/o Late Puttabasappa	
							37/2	Private	Wet	72	Puttaswamy S/o Channegwda	
							38/1	Private	Wet	365	Puttaswamy S/o Channegowda	
							38/2	Private	Wet	35	Veerappa S/o Veerabhadrapa	
											Mahadevappa S/o Veerabhadrapa	
							38/4	Private	Wet	35	Shivabasappa S/o Veerabhadrapa	

				38/5	Private	Wet	30	Shivabasappa S/o Veerabhadrappe
				43	Private	Wet	570	Na.Thagadegowda S/o Lingegowda
								Chikkamadegowda S/o Chikkahanumegowda
				91	Govt.	Kharab	100	Kharaju
				44	Govt.	Kharab	935	Government
				71	Private	Wet	2495	Chowdegowda S/o Chowdegowda
								Chowdegowda S/o Chowdegowda
				46	Private	Dry	1345	H.L.Lokesh S/o Late Lingegowda urf Doddathammaiah
								B.Siddegowda S/o Basavegowda
								Chowdegowda S/o Chowdegowda, Thuraganuru
								H.L.Lokesh S/o Late Lingegowda urf Doddathammaiah
								L.Puttaswamy S/o Late Lingegowda urf Doddathammaiah
								H.L.Dinesh S/o Late Lingegowda urf Doddathammaiah
								S. Kamalaraju S/o Dollegowda
				48/2	Private	Dry	100	H.N.Nagaraju S/o Ningegowda
				52/1A	Private	Dry	340	Mallesha S/o Mallegowda
				52/2	Private	Wet	150	Madegowda S/o Javarayegowda
								Dasegowda S/o Late Javaregowda
								D.Honnegowda S/o Dasegowda
								Mahesh S/o Dasegowda
								Madegowda S/o Javarayegowda
			10.Megalapura	41	Govt	Dry	152	Government Kharabu
				42/2	Private	Wet	140	Chikkahanumegowda S/o Hanumegowda
				43/3A	Private	Dry	40	As per RTC
				43/3B	Private	Dry	46	As per RTC
				43/7	Private	Garden	76	Mahadevappa.M.S.
				43/6	Private	Wet/ Garden	96	Jayamma W/o Boregowda
				43/5	Govt	Dry	22	Vetarnary Hospital Hadli Megalapura - Government
				43/4	Private	Dry	28	Shankarappa M.C. S/o Channamallappa
				45/3	Private	Wet/ Garden	68	N.M. Mahadevaswamy S/o Mahadevappa
								M.S. Mahadevappa
				46/7	Private	Wet	265	Mahadevappa S/o

					Chennamallappa
					M.C.Shankarappa S/o Chennamallappa
					M.S.Mahadevappa
					Kaamakshamma (Kodipura) W/o Late Puttswamachari
					Bandigowda S/o Kenchegowda
					M. Mari Siddegowda S/o Moogegowda
					Siddamma W/o Siddashetty
					Puttasiddamma W/o Late S.Siddaiah
					Lakshamma W/o Late Chikkannashetty
					Shivanna S/o Late S.Siddaiah
					46/5A1-A Private Wet 140 As per RTC
					46/5A1-B Private Wet 60 As per RTC
					Road-1 Govt Road 85 Government Property (Road)
					47/5A Private Garden 28 K.Nagarajumurthy S/o Kenchegowda
					47/5B Private Garden 24 Puttannagowda S/o Chikkegowda
					47/5C Private Garden 28 K.Nagarajumurthy S/o Kenchegowda
					47/5D2 Private Dry 28 As per RTC
					47/5D1 Private Dry 12 Siddegowda S/o Siddegowda urf Kenchegowda
					Karigowda S/o Madegowda
					47/5E Private Wet 40 Siddegowda urf Dollegowda S/o Doddaputtegowda
					48/1 Private/ Govt. Wet 123 As per RTC
					48/2 Private/ Govt. Wet 114 As per RTC
					40/1 Private Wet 450 Chikkahanumegowda S/o Hanumegowda
					40/2A Private Wet 88 As per RTC
					40/2B Private Wet 62 As per RTC
					52/1A Private Dry/ Wet 300 Sannamadaiah S/o Sannamadaiah
					52/2 Private Dry 100 K.M.Bhairegowda S/o Moogabettegowda
					K.M.Bhairegowda S/o Moogabettegowda
					51/1 Private Dry 250 Yadoorappa
					51/2A1 Private Dry/ Wet 25 As per RTC
					51/2A2 Private Dry/ Wet 25 As per RTC
					51/2A3 Private Dry/ Wet 25 As per RTC
					51/2B Private Dry/W et 25 House land
					51/3A1B Private Dry/ 25 As per RTC

[illegible]

						Honnegowda
		67/2	Private	Wet	300	M.H.Chowdappa S/o Honnegowda
		66/3	Private	Garden	92	Eregowda S/o Motegowda
						Yashodha M.T. D/o Madegowda
						Siddamma W/o Madegowda
		66/4	Private	Garden	82	Mariswamy S/o Chikkappaiah
		Nala-3	Govt.	Nala	60	Government Property(Nala)
	11.Hadli					Lakshamma W/o Late Bhogegowda
		84	Private	Wet	440	M.Puttappa S/o Annaiahna Motegowda
						Kaleeregowda S/o Chikkannaiah
						Siddegowda S/o Kaleeregowda
						Shivaramu S/o Late Pa.Kaleeregowda
		Nala-1	Govt.	Nala	45	Government Property(Nala)
		69	Private	Gardan	441	Channamma W/o Chikanna urf Mayeegowda
						Siddegowda S/o Nagegowdna Kenchegowda
						K.Nagalingaiah S/o Kenchegowda
		70	Private	Wet	200	Madegowda S/o Marigowda
	12. Basavanpura	83/1	Private	Wet	130	M. Nagaraju S/o Madegowda
		83/2	Private	Wet	70	M. Nagaraju S/o Madegowda
		83/3	Private	Wet	30	As per RTC
		83/4	Private	Wet	105	Siddamma W/o Madegowda
						Veeregowda Minor Guardian Mother M.T. Yashodha
		84	Govt	Kharab	150	Government Pond
						Construction for Govt.P.U.College Building
						Transfer to Education Department
		86	Private	Dry	500	Dundamma W/o Chikkalingegowda urf Gujjegowda
						Siddaiah S/o Rachaiah
						Siddaraju S/o Siddaiah
						B.S. Puttaraju S/o Siddaiah
						B. Chikkachowdegowda S/o Late Megalahatti

								Basavegowda B. Basavaraju S/o Late Megalahatti Basavegowda
				87/1	Private	Wet	110	Chowdamma W/o Late Dyavarasegowda
				87/3	Private	Wet	100	Srikantegowda S/o Nanjundaiah
				87/2	Private	Wet	200	Shailaja W/o M.R. Shivarudraswamy
								Thammadimadappa S/o Thammadiveerappa
								Basavegowda S/o Ujjani Chowdegowda
								Thammadi Madappa S/o Thammadi Veerappa
				78/1	Private	Wet	210	Basavegowda S/o Ujjani Chowdegowda
								Chowdegowda S/o Chowdegowda
								H.M. Sunandamma W/o B.C. Krishnegowda
78/2	Private	Wet	175	Chowdegowda S/o Ujjani Chowdegowda				
				B.C.Puttaramegowda S/o Late Honnegowda Urf Chikkanna				
77	Private	Wet	300	Ponnaiah Urf Honagiri XX W/o Thimmaiah Noniyaiah Urf Puttaiah Puttaiah S/o Chikkahuchaiah				
				Dasaiah Chikkaputtaiah Polaiah Thimmaiah				
				Ningaiah S/o Mantaiah Bora S/o Boraiah Siddaiah S/o Siddaiah Boraiah S/o Morikundaiah				
								Chikkaboraiah
Chikkasiddamma W/o Jogaiah Dollaiah S/o Kempaiah Kempamma W/o Kenchaiiah								
B.C. Venkatesh S/o Sannamma								
76/1	Private	Wet	80					K. Basavegowda S/o Doddamollegowda
				K. Basavegowda S/o Doddamollegowda				
				K. Basavegowda S/o Doddamollegowda				

								K. Basavegowda S/o Doddamollegowda
				75/1A	Private	Dry/ Wet	300	B.S. Thammaiah S/o Subbegowda
				75/1B	Private	Dry/ Wet	125	For House land B. S. Thammaiah
								Maddamma W/o H. Chowdegowda
				73/1	Private	Dry/ Wet	210	Puttegowda Urf Honnegowda S/o Chowdegowda Urf Dodda Moogegowda
				73/2	Private	Dry/ Wet	175	Ramegowda S/o Kuribasavegowdna Chowdegowda
								Ningamma W/o Honnegowda Urf Chinnegowda
								B.H. Chowdaiah S/o Kuribasavegowdna Honnegowda
								Subbegowda S/o Kuribasavegowda
				73/3	Private	Dry/ Wet	410	Honnegowda S/o Late Thimmamma Chowdegowda
71/1	Private	Dry/ Wet	250	Makbul Ahmmed S/o Mahammed Miraan Sab				
71/2	Private	Dry/ Wet	440	Puttalingamma W/o B. Chowdegowda				
				Puttegowda Urf Honnegowda S/o Chowdegowda Urf Doddamangegowda				
				Chikkasiddegowda S/o Halavegowda				
				Puttalingamma W/o B. Chowdegowda				
				Puttalingamma W/o B. Chowdegowda				
71/3	Private	Dry/ Wet	225	Kariyappa S/o Mugegowdna Chowdegowda				
				Minor Sons B.M. Sahana, B.M.Gagana Gardian grandfather G.Chowdegowda				
69/3B	Private	Wet	150	For House Land B.S. Thammaiah S/o Subbegowda				
Road-3	Govt	Road	65	Government Property Road				
59/1A1	Private	Wet	200	Madamma W/o Basavegowda				
59/1A2	Private	Wet	25	Madamma W/o Basavegowda				
59/2	Private	Wet	170	Chikkasiddegowda S/o Doddasiddegowda				
				Madegowda S/o Chikkegowda				
				Siddegowda S/o Dodda siddegowda				

								Nanjashetty S/o Lingashetty				
								Sannegowda S/o Chowdegowda				
				58	Govt	Kharab	250	Government Khabarstan				
				89/2	Private	Wet/ Garden	30	Madegowda S/o Late Siddegowda				
								Siddaiah S/o Chikkasiddegowda				
								Madegowda S/o Late Siddegowda				
								C.Boraiah S/o Chikkasiddegowda				
								Shivalingegowda S/o Chikkasiddegowda				
								C.Boraiah S/o Chikkasiddegowda				
				88/1	Private	Garden	285	Chikkasiddegowda urf Sappegowda S/o Madegowdna Balavegowda				
								Siddaiah S/o Chikkasiddegowda				
								Kempamma W/o B.S.Puttahonnaiah				
				88/2	Private	Wet/ Garden	580	Honnegowda S/o Late Thimmammana Chowdegowda				
								B.C.Puttegowda S/o Late Thimmammana Chowdegowda				
				110/5	Private/ Govt	Dry	165	B.C.Puttegowda S/o Thimmammana Chowdegowda				
				110/4	Private/ Govt	Wet	165	Thimamma W/o Chowdegowda urf Motegowda				
110/3	Private/ Govt	Wet	95	Nagamma W/o Basavegowda								
				111	Private	Dry	370	Ponnaiah urf Honagiri Kempamma W/o Thimmaiah Noniyiaiah urf Puttaiah Puttaiah S/o Chikkahuchaiah				
								Dasaiah Chikkaputtaiah Polaiah Thimmaiah				
								Ningaiah S/o Kuntaiah Bora S/o Boraiah Siddaiah S/o Siddaiah Boraiah S/o Morikundaiah Chikkaboraiah				
								Kempamma W/o Kenchiah				
								B.C.Venkatesh S/o Sannamma				
								Kenchiah S/o				

								Chikkaputtaiah								
								Ningamma W/o								
								D.Siddaiah								
								Basavaiah								
												Gowamma				
												H.M.Sunandamma				
												D/o				
												B.C.Krishnegowda				
																B.Honnegowda S/o
																Late Bhoomi
Siddegowda																
B.C.Nagaraju S/o																
Late Thimmamma																
Chowdegowda																
P.C.Nagaraju S/o																
Late Thimamma																
Chowdegowda																
																B.C.Puttaramegowda
								S/o Honnegowda urf								
								Chikkannegowda								
								Lingegowda S/o Late								
								Donegowda								
								R.Lakshmi D/o A.								
								Venkatesh								
								B.H. Basavegowda								
								urf Chikkanna S/o								
								Sheshamma								
								Honnegowda								
								Devamma								
								Honnegowda S/o								
								Kempamma								
								Puttegowda								
								Savithramma W/o								
								C.Basavegowda								
								Savithramma W/o								
								C.Basavegowda								
																B.C.Nagaraju S/o
Late Thimamma																
Chowdegowda																
B.C. Puttaramegowda																
S/o Ujjani																
Honnegowda																
B.C. Puttaramegowda																
S/o Ujjani																
Honnegowda																
B. Honnegowda S/o																
Late Bhoomi																
								Siddegowda								
								B.C. Puttaramegowda								
								S/o Ujjani								
								Honnegowda								
								J.N. Bharath S/o J. D.								
								Nagaraju								
								Savithramma W/o								
								C.Basavegowda								
																B.C. Nagaraju S/o
																Late Thimmamma
								Chowdegowda								
								Puttegowda Urf								
								Honnegowda S/o								
								Chowdegowda Urf								
								Dodda mugegowda								
								Government								
								Property(Nala)								

				118/2	Private/ Govt	Dry	50	Basavaraju S/o Late Basavegowda
				119/4	Private	Dry	85	B.C.Krishna S/o Late B.Chowdaiah Basavaraju S/o Late Basavegowda Chikkathayamma W/o Late Kenchegowda Basavaraju S/o Late Basavegowda
				119/5	Private	Dry	150	As per RTC
				120/2	Private	Dry	70	Padma W/o Basavaraju
				120/3	Private	Dry	70	Padma W/o Basavaraju Jayashree Vasuki Ram W/o N.S Vasukiram
				120/4	Private	Dry	75	Madegowda urf Thammegowda S/o Madegowda C.Boraiah S/o Chikkasiddegowda
				121/3	Private	Dry	260	B.Prema D/o Basavegowda
				122/5	Private	Dry	285	Choudegowda S/o Boomisiddegowda 1st Chowdegowda urf Kariyappa S/o Chowdegowda 2nd Honnegowda urf Kullappa S/o Chowdegowda 3rd Shivaraju S/o Chowdegowda B.S.Puttahonnaiah S/o Bhoomisiddegowda Basavegowda urf Bullegowda S/o Bhoomisiddegowda B.Ramesha S/o Late Puttegowda B.Devaraju S/o Late Puttegowda
				123/4	Private/ Govt	Dry	140	Hanumegowda S/o Dyavegowda
				123/3	Private	Dry	70	Padma W/o Basavaraju
				123/7	Private	Dry	95	Kamalamma W/o Puttaswamachari
				123/2	Private	Dry	70	Siddaiah S/o Chikkasiddegowda Narasamma W/o Chikkamugegowda Savithramma W/o C.Basavegowda Honnegowda S/o Late Thimmammana Chowdegowda B.C.Puttegowda S/o Late Thimmammana Chowdegowda

				124/1A	Private	Dry	308	Siddaiah S/o Chikkasiddegowda
								C.Boraiah S/o Chikkasiddegowda
								Shivalingegowda S/o Chikkasiddegowda
				124/1B	Private	Dry	104	Narasamma W/o Chikkamoogegowda
								Savithramma W/o C.Basavegowda
								Honnegowda S/o Late Thimmammana Chowdegowda
								B.C.Puttegowda S/o Late Thimmammana Chowdegowda
				124/2	Private	Dry	100	Shivalingegowda S/o Siddegowda
								Mahadeva S/o Siddegowda
				124/3	Private	Dry	45	Mahadeva S/o Siddegowda
								Shivanna S/o Siddegowda
				Road-1	Govt	Road	210	Government Property (Road)
				57/1	Private	Dry	165	B.M.Boraiah S/o La Morikundaiah
								B.M.Boraiah S/o Late Morikundaiah
								3rd Shivaraju S/o Chowdegowda
								4th Shantharaju S/o Chowdegowda
								Honnegowda S/o Chikkahonnegowda
				57/2	Private	Dry	180	Boraiah urf Piddaiah S/o Ningaiah
								Chowdegowda S/o Bhoomisiddegowda Chowdegowda
								B.S.Puttahonnaiah Basavegowda urf Bullegowda S/o Bhoomisiddegowda
				57/3	Private	Dry	270	Sanna - S/o Bora
								Kullaiah - S/o Bora
								Chowdegowda - S/o Bhoomisiddegowda
								Chowdegowda - S/o Karigowdna Bhoomisiddegowda
				54/3	Private	Dry	228	S.Nagaraju S/o Siddappaji
								V.Chandrakala Shoni W/o Vasudeva Soni
								Venkatesha S/o Chowdegowda
								V.Chandrakala Shoni W/o Vasudeva Soni
								Hombamma W/o Late Basavegowda
								V.Chandrakala Shoni W/o Vasudeva Soni

								Hombamma W/o Late Basavegowda					
								V.Chandrakala Shoni W/o Vasudeva Soni					
								54/2	Private	Dry	315	Puttegowda S/o Kadehatti Puttegowda	
												2nd son Mariswamy S/o Late Sannegowda	
												3rd Son Shivaramu S/o Late Sannegowda	
												Bhoomisiddegowda S/o Kadehatti Puttegowda	
								53/1	Private	Dry	75	Chowdegowda S/o Late Chowdegowda	
												Chikkamarigowda S/o Late Chowdegowda	
								53/2	Private	Dry	150	V.K.Bhagya W/o B.H.Chowdegowda	
								53/3C	Private	Dry	224	Thimmegowda.D S/o Thimmegowda	
												Veeraiah S/o Hombalaiah	
												Madegowda S/o Madegowda	
												D.Thimmegowda S/o Thimmegowda	
								13.Halasahalli	40/1	Private	Dry	50	Puttaswamy S/o Basavegowda
													Chikkabasavegowda S/o Basavegowda
													Shivalingegowda S/o Basavegowda
								B.H.Honnegowda S/o Honnegowda					
								40/2	Private	Dry	200	Honnegowda S/o Bhoomisiddegowda	
												Chikkathayamma S/o Bhoomisiddegowda	
												B.H.Honnegowda S/o Honnegowda	
								41/1	Private	Dry	175	Basavegowda S/o Basavegowda	
												Thammalingegowda	
												Chowdegowda S/o Karigowda urf Bhoomisiddegowda	
								41/2	Private	Dry	225	Mahadevu S/o Mayigowda	
								41/3	Private	Dry	240	Chikkabasavegowda S/o Basavegowda	
												Chikkathammaiah S/o Basavegowda	
Puttaswamy S/o Basavegowda													
Nagaraju S/o Siddachari													
Nagaraju S/o Siddachari													
Shivalingegowda S/o Basavegowda Basavanapura													

							Puttaswamy S/o Basavegowda Basavanapura
							Shivalingegowda S/o Basavegowda Basavanapura
							Raju S/o Basavegowda Basavanapura
							Honnegowda S/o Chikkahonnegowda
							L.Susheelamma W/o Lingegowda
							Chowdegowda S/o Bhoomisiddegowda
			44/1B	Private/ Govt	Dry	75	Halasahalli Basaveshwara High School - Mahalingaswamigalu
			44/1A	Private/ Govt	Dry	650	Madamma W/o Bettegowda
							Halasahalli Basaveshwara High School Mahalingaswamigalu
			53	Private/ Govt	Dry	375	K.C.Shivakumar S/o Chowdashetty Kempaiahna Doddi
							K.C.Shivakumar S/o Chowdashetty
							V.Ramesh S/o C.Venkateshaiah
							K.C.Shivakumar S/o Chowdashetty
							K.C.Shivakumar S/o Chowdashetty
			214	Private/ Govt	Dry/ Wet/ Garden	800	R.Thayappa S/o Late Ramanna N.Rajappa S/o Late Narasimhareddy
							R.Thayappa S/o Late Ramanna N.Rajappa S/o Late Narasimhareddy
							Shivarudramma W/o Veeraiah
							Shivarudramma W/o Veeraiah Veeraiah S/o Basavalingappa
							H.C.Shivanna S/o Channaveeraiah
							Basavalingaswamy S/o Late H.C.Mahadevaswamy
			215	Private/ Govt	Wet	575	Gurulingappa S/o Chikkamadappa
							R.Thayappa S/o Late Ramanna N.Rajappa S/o Late Narasimhareddy
							Gurulingappa S/o Late Chikkamadaiah

								Shivarudramma W/o Veeraiah
								Kaggalipurada Veerabhadrappa
								H.C.Shivanna S/o Channaveeraiah
								Kaggalipura Veerbhadrappa
								H.C.Shivanna S/o Channaveeraiah
								Kaggalipurada Veerabhadrappa
				51/1	Private/ Govt	Wet	200	N.Uday S/o Late Narasimhareddy
								Subbappa S/o Halagappa
				51/2	Private/ Govt	Wet	125	Shivaswamy S/o Chikkaveeraiah
				51/3	Private/ Govt	Wet	275	Shivaswamy S/o Chikkaveeraiah
				212	Private/ Govt	Wet/ Garden	550	Chowdegowda S/o Bhoomisiddegowda
								Doddathammaiah S/o Chikkanna
								Honnegowda S/o Bhoomisiddegowda
								Honnegowda S/o Chikkahonnegowda
								Bhoomisiddegowda S/o Chikkahonnegowda
				217/1	Private/ Govt	Dry	225	Raju S/o Basavegowda
								Chikkabasavegowda S/o Basavegowda
								Shivalingegowda S/o Basavegowda
								Puttaswamy S/o Basavegowda
								Chikkathammaiah S/o Basavegowda
								Chikkathammaiah S/o Basavegowda
								Chikkathammaiah S/o Basavegowda
				49/1	Private/ Govt	Wet	370	Basavalingaswamy S/o Late H.C.Mahadevaswamy
								Basavalingaswamy S/o Late H.C.Mahadevaswamy
				49/2A	Private	Wet	200	Halagaiah S/o Kenchappana Madappa
				49/2B	Private	Wet	200	Nagamma W/o Madaiah
				50	Private	Wet	30	Shivabasavaiah S/o Kenchappana Madappa
								Halagappa S/o Kenchappana Madappa

			14. Banasamudra					Basavegowda S/o Lingegowda
								Lingegowda S/o Doddegowda
								B.H. Chowdegowda S/o Sheshamma Honnegowda
								Chowdegowda S/o Honnegowda
								Lingegowda S/o Doddegowda
								Lingegowda S/o Doddegowda
								Basavegowda S/o Chowdegowda
								Naganna S/o Lingegowda
								Basavegowda S/o Lingegowda
								B.S. Nagaraju S/o Nanjappa
								B.H. Chowdaiah S/o Honnegowda
								Smt. Sundamma W/o B.H. Chowdaiah
								Abdul Suban S/o Late Dr. Abdul Ajeej
								Abdul Suban S/o Late Dr. Abdul Ajeej
								Bhasha S/o Himaamsab Abdul Suban S/o Late Dr. Abdul Ali Akbar S/o Abdul Gapoor C. Thayamma W/o B. Marigowda C. Thayamma W/o B. Marigowda
								Siddegowda S/o Krishmegowda
								H.N. Ramachandregowda S/o H. Narasimhegowda
								H.N. Ramachandregowda S/o H. Narasimhegowda
								Dundamma W/o Late Krishnegowda
								Mayappa S/o Lingegowda
								N. Anand S/o Late Narasimhareddy
								K. Narasimhamurthy S/o Late Kariyappa
								D.R. Veerupaksha S/o D. Ramappa
								M. Venkatesh S/o Mudlappa
				Nala-1	Govt	Nala	40	Government Property

							(Nala)	
				50	Private	Wet	75	H.C. Kailasamurthy S/o Channabasappa
				30/1	Private	Wet	435	Prema W/o Marimadaiah
								Ramesh Minor Guardian Mother Lakshmamma
								Puttaswamy S/o Siddegowda
								Prema W/o Marimadaiah
								Ramesh Minor Guardian Mother Lakshmamma
								Prema W/o Marimadaiah
								Prema W/o Marimadaiah
								Prema W/o Marimadaiah Banasamudra
				30/2	Private/ Govt	Wet	275	Ramakrishnegowda S/o Kullegowda
								Channegowda S/o Kullegowda
								Gowramma W/o Kalegowda
								Chikkaraju S/o Kullegowda
								Prema W/o Eranna
								Bhagyamma W/o Late Basavaraju
								B.C. Hombegowda S/o Channegowda
								Basavaraju S/o Mayappa urf Kulla Hottegowda
								Raju S/o Kullegowda
								Venkatesh S/o Honnegowda
				B.S.Indrani W/o B.B. Basavaraju				
				Road-1	Govt	Road	30	Government Property (Road)
				29	Private/ Govt	Wet	260	Gowramma W/o Rajanna
								Siddaramu S/o Thirumalegowda
								Rajamma W/o Shantharaju
				26/1	Private/ Govt	Wet	155	Gowramma W/o B.N.Thimmegowda
								Venkatappa S/o Bundegowda
								Gowramma W/o B.N. Thimmegowda
				26/2	Private/ Govt	Wet	120	Sharadamma S/o Chikkathayamma
								Siddaramu S/o Thirumalegowda
								B.T. Basavaraju S/o Thirumalegowda
				26/3	Private/	Wet	60	Venkatappa S/o

					Govt			Bundegowda
								Gowramma W/o Late B.N. Thimmegowda
				26/4	Private/ Govt	Wet	380	Yashodhamma W/o B.K. Doreswamy
								Yashodhamma W/o B.K. Doreswamy
								B.S. Mahadevu S/o Siddegowda
								B.S. Mahadevu S/o Siddegowda
				Road-2	Govt	Road	35	Government Property (Road)
				24/1	Private	Dry	135	Krishna S/o Siddegowda
								D.B.G.Nagendra S/o Siddegowda
				24/2	Private	Wet	110	Chikkasiddegowda S/o Bundegowda
				24/3	Private/ Govt	Wet	630	Siddegowda S/o Doddasiddegowda
								Shivalingaiah S/o Doddasiddegowda
								S.Nagaraju S/o Doddasiddegowda
								Thammegowda S/o Doddasiddegowda
								B.S.Mahadevu S/o Siddegowda
				23/1	Private/ Govt	Wet	280	Channegowda S/o Late Dasegowda
								Shyanegowda S/o Late Dasegowda
								Venkatamma D/o Late Venkategowda
								H. Sumangalamma W/o V. Basappa
								C. Basavegowda S/o Channegowda
								C.Nanjundegowda S/o Channegowda
								C.Shyanegowda S/o Channegowda
				21/1	Private/ Govt	Wet	495	Sumangalamma W/o V. Basappa
								H.Sumangalamma W/o V. Basappa
				Nala-2	Govt	Nala	130	Government Property (Nala)
				174/1	Private/ Govt	Wet	385	B.T. Nagarathnamma D/o Late Kudure Hatti Thimmappa
				173/1	Private/ Govt	Wet	240	B.T. Nagarathnamma D/o Late Kudure Hatty Thimmappa
				173/2	Private/ Govt	Dry/ Wet	520	Ramaswamy S/o Krishnegowda
								Mahadevamma W/o Rangaswamy
				168/1A	Private/ Govt	Dry	800	Rajanna S/o Honnegowda urf Chikkaswamygowda
				168/1B	Private/ Govt	Dry	50	S.Seetharamaiah S/o Seetharamegowda

				168/1C	Private/ Govt	Dry	100	Bhadregowda S/o Bhadregowda
				168/2	Private/ Govt	Wet	200	Puttaswamygowda S/o Siddegowda
				168/3A	Private/ Govt	Wet	100	K.Ganesh Kumar S/o H.M. Kenchappa
				168/3B	Private	Wet	50	Ningamma W/o Chikkalingaiah
								H.M. Kenchappa S/o Manchegowda
				168/3C	Private	Wet	250	H.M. Kenchappa S/o Manchegowda
				167/1	Private/ Govt	Wet	200	Government
								Thammegowda S/o Honnegowda Urf Thammegowda
								P. Nagesh S/o Appajigowda
								Kullegowda S/o Honnagowda
				104	Private/ Govt	Kharab	1500	Saraswathamma W/o Late Venkatappa
								Saraswathamma W/o Late Venkatappa
								Andanaiah S/o Siddaiah (Dadamalli)
								Manjula W/o Shivaramu
								Thimmaiah S/o Late Thimmarayappa
								Veeregowda S/o Late Basavegowda
								Rathnamma S/o Late Basavegowda Devamma W/o Late Basavegowda
				102/2	Private	Wet	240	H.N. Ramachandregowda S/o H. Narasimhegowda
								Dundamma W/o Late Krishnegowda
								H. N. Ramachandregowda S/o- H. Narasimhegowda
				103	Private	Wet	700	M. Jayamma W/o M. Melegowda
								M. Jayamma W/o M. Melegowda
				Nala-4	Govt	Nala	40	Government Property (Nala)
				281	Private/ Govt	Wet	70	Lankegowda S/o Basavegowda
								Jabin Taj W/o Habibulla Sharif
								B. L. Basavegowda S/o Lankegowda
								Abdul Hameed S/o Mohammed Ismail
								Abdul Hameed W/o Mohammed Ismail
								B.E.Marigowda S/o Eregowda (Bhuvalli

				114/1	Private	Wet	12	Siddegowda S/o Chennegowda Urf Hombegowda
								Abdul Hameed S/o Mahammed Ismail
				114/2	Private/ Govt	Wet	150	Lankegowda S/o Basavegowda
								B.E.Marigowda S/o Eregowda
								M.J.David S/o M.D.Joseph
				114/3	Private/ Govt	Wet	108	Shivaramu S/o Gavisiddegowda
				115/2	Private/ Govt	Wet	108	M. Srinivasa- Munayappa Mangappana palya
								Kumar S/o Veeregowda
								Raghu S/o H.Veeregowda
								N.Ravindra S/o N.Nagaraju
				116/2	Private	Wet	44	L. Naranagowda S/o Late Lakshmanamurthy
				117/3	Private/ Govt	Wet	330	L. Naranagowda S/o Late Lakshmanamurthy
				119	Govt	Dry	256	Government
				130/1	Private/ Govt	Wet	80	Thammaiah Gowda S/o Doddasiddegowda
				130/2	Private/ Govt	Wet	280	Siddalingegowda S/o Chikkasiddegowda
								Siddegowda S/o Bundegowda
								Shivanagamma W/o Raju
								Siddegowda S/o Bundegowda
								Shivanagamma W/o Raju
								Nagamma W/o Late Siddegowda
								Shivalingegowda S/o Late Kalegowda
								Nagaraju S/o Late Kalegowda
								P.K. Poovamma W/o Kaariyappa
								P.K. Poovamma W/o Kaariyappa
				133/3	Private/ Govt	Dry	90	Venkatappa S/o Late Channegowda
								Boregowda S/o Basavegowda
				Nala-3	Govt	Nala	45	Government Property (Nala)
				158	Private/ Govt	Dry	70	Halagegowda S/o Veeregowda
								Ramaswamy S/o Venkategowda
								Ramaswamy S/o Venkategowda

								Chindegowda S/o Honnegowda
				159/3A	Private/ Govt	Dry	75	Chindegowda S/o Honnegowda
								Chindegowda S/o Honnegowda
								ChindegowdaS/o Honnegowda
								ChindegowdaS/o Honnegowda
				159/2	Private/ Govt	Dry	72	Chindegowda S/o Honnegowda
								Ningamma W/o Chindegowda
								Ningamma W/o Chindegowda
				160/1	Private/ Govt	Dry	50	Ningamma W/o Late Honnegowda
				160/6	Private	Dry	27	G.Giriyappa S/o Late Girigowda
				161/1	Private/ Govt	Dry	110	S.Seetharamaiah S/o Seetharamaiah
								Honnegowda S/o Kariyappa
								Kariyappa S/o Kariyappa
								Kempegowda S/o Subbegowda
								Goligowda S/o Maragooligowda
				161/2	Private	Dry	200	K.Nagaraju S/o Krishnegowda
								Ramaswamy S/o Krishnegowda
				163	Private/ Govt	Dry	2000	S.Seetharamaiah S/o Seetharamegowda
								Neelegowda S/o Venkategowda
								Government
								Muddegowda S/o Muddegowda
				166	Govt	Kharab	320	Government Kharabhu
			15. Thorekadana-halli	Kadamba River	Govt	River	2400	Kadamba River
				74/1	Private	Dry	220	Lingaiah S/o Javaraiah
				74/2A	Private	Dry	125	Kempadasegowda S/o Kempadasegowda Urf Karagegow
				74/2B	Private	Dry	235	Honnamma W/o Muniyaiah
								Venkategowda Urf Shiva Kumar Minor Gardian Mother Padmamma
								Honnamma W/o Muniyaiah
				75/2B	Private	Dry	50	Shobha D/o Krishna
				75/2C	Private	Dry	50	T.V. Nagaveni W/o M. Narayanaswamy
				81/2A1	Private	Dry	50	T.V. Kanakagiri S/o T. Venkatadasappa

								Venkategowda Urf Puttegowda S/o Late Pa.Thimma Dasegowda
				81/2B2	Private	Dry	25	As per RTC
				76	Private/ Govt	Dry	30	Chikkatammaiah S/o Dasegowda
								Motamma W/o Sannaiah
								Devamma W/o Keenaiahna Siddaiah
								Doddasiddaiah S/o Honnanasiddaiah
								Muniyaiah S/o Bora Urf Kodala
								Siddaramaiah S/o Boraiah
								Siddaraju S/o Sannahaidaiah
								Thammaiah S/o Chikkaidaiah
								Siddaraju S/o Boraiah
								Muniswamy S/o Muniyaiah
				Road-1	Govt	Road	55	Government Property (Road)
				80/1	Private	Dry	25	Shivanna
				80/2B	Private/ Govt	Dry	75	G.Madappa S/o Gurumadappa
				80/2A	Private/ Govt	Dry	150	Puttadasegowda S/o Kempadasegowda Urf Karagegowda
				12/5B1	Private/ Govt	Dry	25	As per RTC
				12/6A1A	Private/ Govt	Dry	25	As per RTC
				12/6A1B	Private/ Govt	Dry	25	As per RTC
				12/7.	Private	Dry	50	Chowdaiah S/o Sidda Urf Kulla
								Maridasa S/o Karimutthaiah
								Deveeramma W/o B.C. Hombegowda
								Lingamma W/o Chikkaputtaiah
								Lingamma W/o Chikkaputtaiah
								K.S. Rajashekhara S/o Kodagalli Subbanna
								K.S. Rajashekhara S/o Kodagalli Subbanna
								Lingaiah S/o Nanjaiah
								Lingaiah S/o Nanjaiah
								Muniswamy S/o Muniyaiah
Muniyaiah S/o Katakaiah								
79/1A	Private/ Govt	Dry	120	Shivamma W/o T. Madaiah				

								Gowramma W/o Venkatappa
				79/1B	Private	Dry	30	Kempamma W/o Lingegowda
				64/4	Private	Dry	30	Kaveri Water Supply Bangalore
				64/3	Private	Dry	156	Kaveri Water Supply Bangalore
				64/1A	Private	Dry	186	As per RTC
				64/1B	Private	Dry	156	As per RTC
				63/2	Govt	Dry	114	Kaveri Water Supply Bangalore
				63/1	Govt	Dry	480	Kaveri Water Supply Bangalore
				13/2	Private	Dry	40	As per RTC
				13/1B	Private/ Govt	Dry	280	As per RTC
				13/1C	Private/ Govt	Dry	160	As per RTC
				62/1	Govt	Dry	114	Kaveri Water Supply Bangalore
				62/2	Govt	Dry	20	Kaveri Water Supply Bangalore
				16/2B2	Private	Dry	176	K. Saraswathi W/o S.N. Raju B.V. Siddegowda S/o Veeregowda
				17/2	Private	Dry	40	Renukamma D/o Late Ramachandra Dasa S/o Dodda Molle Shivanna S/o Madegowda Alienated Mangala D/o Mahabaleshwara Nayar Mangala D/o Mahabaleshwara Nayar
				17/4	Private/ Govt	Dry	60	Gramatana Muniyaiah S/o Honnaiah
				17/3	Private/ Govt	Dry	192	H.T.Yashodhamma D/o Thimmegowda K.P.T.C.L (T.K. Halli) Susheelamma W/o Chowdaiah
				58/1	Govt	Dry	132	Kaveri Water Supply Bangalore
				58/2	Govt	Dry	228	Kaveri Water Supply Bangalore
				57	Private/ Govt	Dry	306	Acquired for Iglur Dam Distributed Canal. N. Sampath S/o T.S. Narayanan Acquired for Iglur Dam Distributed Canal. H.R. Shiva Kumar S/o Rudrappa T.Thimmegowda S/o

								Chikka Thimmegowda
				18	Private	Dry	375	K. S. Paramesh S/o Subbanna
								K.P.T.C.L. (T.K. Halli)
								Mallanna S/o Subbanna
								K.P.T.C.L. (T.K. Halli)
								K.S. Sundarappa S/o Subbanna
								K.S.Paramesh S/o Subbanna
								K.P.T.C.L. (T.K. Halli)
				Nala-1	Govt	Nala	165	Government Property(Nala)
				31	Private/ Govt	Dry	320	Muddashetty Urf Kurashetty S/o Mudda shetty
								Mudda shetty Urf Kurashetty S/o Muddashetty
			16.Chillapura	34	Private	Dry	1055	Nirmala W/o Gopala
								Channegowda S/o Kempegowda
								Shivamma W/o Ramesh
								Shivaswamy S/o Late Madegowda
				35	Govt	Dry	70	Government
				Road-1	Govt	Road	45	Government Property (Road)
				28/1	Private/ Govt	Dry	690	M.Shivarudrappa S/o Madappa Urf Kariyappa
								Acquired for Iggaluru Dam Distributing Canel
								Jayamma W/o Late M. Nagarajappa
				27/1	Private/ Govt	Dry	1500	H.I. Habibulla S/o Late H.R. Ipak Saheb
								S. Mallesh S/o Shivanna
								M. Mahadevaswamy S/o M. C. Madappa
				27/2	Private	Dry	160	As per RTC
				Road-2	Govt	Road	75	Government Property (Road)
				5	Private/ Govt	Dry	456	B. Umashankar S/o Late G. Basappa
								Parvathamma W/o Late M. Basavarajappa
								D.L. Madegowda S/o Late C. Lingegowda
								D.L. Madegowda S/o Late C.Lingegowda
				12/2	Private/ Govt	Dry	1000	H.K. Gangadharaswamy S/o Kannappa Acquired for Iggaluru

								Dam Distributing Canel
				12/3	Private/ Govt	Dry	915	Nanjammaniyamma W/o Nanjundappa Acquired for Iggaluru Dam Distributing Canel
				11	Private/ Govt	Dry	910	Revamma W/o Late Basavarajappa H.C. H.C. Sugrivappa S/o Late S. Chikkabasappa
								Bojjaiah S/o Late Shetty
								Doddathammaiah
								H.K. Thammaiah S/o Kadashetty
								H.S. Thammaiah And Kariyappa S/o Late Siddashetty Raju Wife Chikkathayamma (Joint)
								H.D. Puttaswamy S/o Late Doddamooga
				10/1.	Private/ Govt	Dry	128	Nanjammani W/o H.J. Nanjundappa
				10/4.	Private/ Govt	Dry	60	Mahadeshwara Rice Milla Mananger- H.M. Shivaswamy
			17.Halaguru	219/3	Private	Dry	225	As per RTC
				219/2	Private	Dry	3600	As per RTC
				229/2C	Private/ Govt	Dry	425	H.M. Nagesha S/o Late H.M. Mallikarjunappa
				226	Private/ Govt	Wet	2200	B. Basavanna S/o Bojappana Basappa M. Nagaraju S/o Late Madappa
				225	Private/ Govt	Wet	1260	Bhogegowda S/o Kenchegowda Chikkathayamma W/o Bhogegowda
				224/1	Private/ Govt	Wet	780	H.M. Nagesha S/o Late H.M. Mallikarjunappa
				223/2	Private/ Govt	Dry	2160	Bogegowda S/o Kenchegowda Acquired for Iggaluru Dam Distributing Canal.
				193	Private/ Govt	Dry	4850	Sha.bram Sri Rudramuni Shivacharya Sa vamigalu- Halaguru
				194	Private/ Govt	Dry	1185	M. Prabhuswamy S/o Mallanna Acquired for Iggaluru Nala Chandramma W/o Basappa
				190	Private/ Govt	Dry/ Garden	30	Siddaiah S/o Mollaiah Eraiah S/o Kenchaiah

								Kamma W/o Chikkannaiah
								Channegowda S/o H.C.Bogegowda
								Madaiah S/o Bommaiah urf Eraiah
								H.S.Mahadevaiah S/o Kundaiah
								Eraiah S/o Eraiah urf Rayamani
								Shivamadaiah S/o Doddaveeraiah (Joint)
								Shivanna S/o Siddaiah
								Eraiah S/o Siddaiah
			Nala-1	Govt	Nala	1280	Government Property (Nala)	
				185	Private/ Govt	Dry	50	Madaiah S/o Bommaiah Urf Eraiah
								Acquired for Iggaluru Nala
				186/1	Private/ Govt	Garden	3435	Pa. Madegowda-S/o Madegowda Urf Annaiah
								Naganna S/o Late Chikka Madegowda Acquired for Iggaluru Nala
				186/2	Private/ Govt	Garden	3485	B.M. Shivanna S/o Pa.B. Madegowda
								B.M. Huchegowda Urf Somu S/o B. Madegowda
								B.H. Shivaprasad S/o Late B.M. Huchegowda
				Nala-2	Govt	Nala	4250	Government Property (Nala)
				183	Govt	Kharab	30	Government
				182	Private/ Govt	Dry	80	Veerabhadra Devaru
								Veerabhadra Devaru B.M. Shivanna S/o B.Madegowda
				Road-1	Govt	Road	465	Government Property (Road)
				179	Private/ Govt	Garden	1135	H.S. Bogegowda Urf Sridhara S/o Shivabhogegowda
				Nala-3	Govt	Nala	335	Government Property (Nala)
				152/1	Private/ Govt	Dry	2400	B.K.Chikkaswamy S/o Kariyappa
				152/2	Private/ Govt	Dry	715	Giddegowda S/o Guruvegowda Urf Puttaswamy
Ramaiah S/o Guruvegowda Urf Puttaswamygowda								
Giddegowda S/o Guruvegowda								

[illegible]

								Guruvegowda Shashikala W/o H.T.Narayana
								H.T. Raju S/o Guruvegowda Indra W/o H.T. Raju
								Nirmala W/o Late H.T. Chandrashekar
								H.T. Srinivasa S/o Guruvegowda
								H.T.Ramachandra S/o Guruvegowda
								Uma D/o Late H.T. Ashwatha
								Masudeva Sony S/o Malaji
								Hemalatha D/o G.Ramachandra
			20. Hosapetebasava- pura	Nala-1	Govt	Nala	295	Government Property (Nala)
				5/1.	Private	Dry	255	R.T.C.Canceled
				6/1.	Private	Dry	508	H.S. Krishna S/o Shivalingegowda Shivamma W/o Kariyappa
				6/2.	Private	Dry	392	H.V. Srikanth S/o Late Vishakantegowda
				6/3.	Private/ Govt	Dry	2272	H.V. Srikanth S/o Late Vishakantegowda
				6/4.	Private/ Govt	Dry	1880	Smt. Kamalamma W/o Kempegowda A.K. Marigowda S/o Late Kempugowda Kamalamma W/o Kempegowda A.K. Marigowda S/o Late Kempugowda
				6/5.	Private/ Govt	Dry	1800	H.S. Krishna S/o Shivalingegowda Puttalingegowda S/o Late Lingegowda Urf Karigowda
								J.Sujatha W/o K.Siddaiah
				Road-1	Govt	Road	560	Government Property (Road)
				24	Private/ Govt	Dry	3100	Nagalingashetty S/o Subbashetty Urf Moogashetty Nagalingashetty S/o Subbashetty urf Moogashetty Devegowda S/o Devegowda Nagalingashetty S/o Dyavashetty Urf Moogashetty Manjamma W/o Subbashetty
				23	Private/ Govt	Dry	1927	Basurajamma D/o Parvatthamma Ramesha S/o

								Basavegowda Urf Thammaiah
				16/2	Private	Garden	175	Basavesh Bhairappa
								H.D. Mahadevu S/o B. Devisiddegowda
								R. Kondappa S/o Ramanna
								K.T. Venkataramu S/o Thimmegowda
				Road-2	Govt	Road	30	Government Property (Road)
				17/1	Private	Garden	80	H.D. Mahadevu S/o B. Devisiddegowda
								H.D.Mahadevu S/o.Devisiddegowda
				17/4	Private	Garden	155	B.Shivalingegowda S/o Basavegowda
								H.B.Sudhakara S/o Puttaswamygowda
								Shivalingegowda S/o Lingegowda
								Shivalingegowda S/o Lingegowda
								H.B.Sudhakara S/o Puttaswamygowda
				17/2	Private	Dry/ Garden	255	Shankaregowda S/o Govindegowda
								Krishnegowda S/o Govindegowda
								Shakunthala W/o Krishnegowda
								Shakunthala W/o Krishnagowda
				17/3	Private	Garden	50	H.B. Siddaramegowda S/o Basavegowda urf Thammaiah
				22	Private/ Govt	Dry/ Garden	740	Anuradha W/o H.B. Sudhakara
								B.Lakshmikantha S/o B. Basavarajegowda
				Nala-2	Govt	Nala	90	Government Property (Nala)
				19	Private	Dry/ Garden	275	B. Shivalingegowda S/o Basavegowda
								K.Palini S/o Kannan
								K.Palini S/o Kannan
								H.D.Srinivas S/o B. Devi Siddegowda
								K.Palani S/o Kannan
								H.B. Srinivasa S/o B.Devisiddegowda
				18	Private/ Govt	Dry	340	Suvarnadevi W/o Kalegowda
								Srinivasa S/o Govindegowda
								Suvarna Devi W/o Kallegowda
			21.Gundapura	Nala-1	Govt	Nala	340	Government Property (Nala)
				111/1	Private	Dry	200	C.Venkatesh Gowda S/o Late Pa Chowde Gowda

				111/2	Private	Dry	85	J.Nandish S/o Kamalamma
				111/3	Private	Dry	105	J.Nandish S/o Kamalamma
				111/4	Private	Dry	280	Yashodamma W/o Lingegowda
								Sundararaje Urs S/o Basavaraje Urs
								Devaraje Ursu S/o Basavarajeursu
								D.Suvarna Devi W/o Kalegowda
				111/5	Private	Dry	75	Siddegowda Urf Kullegowda S/o Kalegowda
								Siddegowda Urf Kullegowda S/o Kalegowda
				111/6C	Private	Dry	30	As per RTC
				111/6A	Private	Dry	65	Jayamma W/o Late Chikkamuddiregowda
				111/7A	Private/ Govt	Dry	110	As per RTC
				111/8	Private	Dry	30	Yashodhamma D/o Honnegowda
				112	Private	Dry	310	Gowramma W/o Shivanna
				113	Private	Dry	190	1st Son Nanjundaaradhya
								2nd Son Mallaaradhya S/o Nanjapparadhya
								Nanjundaradhya S/o Late Nanjapparadhya
								1st Son Nanjundaradhaya S/o Nanjapparadhaya 2nd Son Mallaaradhya S/o Nanjapparadhya
				123	Private/ Govt	Dry	30	Mayigowda S/o Mayigowda
								Basavegowda S/o Mayigowda
								H.M. Ananda S/o H.P. Mahadevappa
								Nanjundaradhya S/o Nanjapparadhya
								Mallaaradhya S/o Nanjapparadhya
								Mallaradhya S/o Late Nanjapparadhya
								Nanjundaradhya S/o Nanjapparadhya
								Gowramma W/o Late Siddegowda Urf Chikkamarigowda
								G.S Kalarajegowda S/o Siddegowda Urf Chikkamarigowda
								G.S Kalarajegowda S/o Siddegowda Urf Chikkamarigowda

							Savithramma W/o Siddegowda
							Kempegowda S/o Kempegowda
							Eregowda S/o Kempegowda
			Road-1	Govt	Road	155	Government Property (Road)
			107/1A1	Private	Dry	685	B. Basavaraju S/o Late Puttasiddamma
			107/1A2	Private	Dry	100	B.B. Vijayagowda S/o Basavegowda Urf Thammaiah
			107/1B1	Private	Dry	100	B.B. Vijayagowda S/o B.Basavegowda Urf Thammaiah
			107/1B2	Private	Dry	225	Bhagyamma W/o B. Shivaiah
			107/2	Private	Dry	300	Madappa S/o Chikkanna
			124/8	Private	Dry	50	Honnaramegowda S/o Late Honnegowda
							M.Ramesh S/o Muniyappa Jayalakshmi W/o M. Ramesh
			124/1	Private	Dry	175	Madappa S/o Chikkanna
							B.K.Shivahonnegowda S/o Kempegowda
							Kenchegowda S/o Honnegowda
			124/2	Private/ Govt	Dry	125	H.V. Sarojamma W/o Late H.D. Ramesh
			124/3	Private/ Govt	Dry	150	H.V. Sarojamma W/o Late H.D. Ramesh
			124/4	Private/ Govt	Dry	300	H.V. Sarojamma W/o Late H.D. Ramesh
			124/5	Private/ Govt	Dry	145	H.N. Ramachandregowda S/o Late Narasimhegowda Halaguru
			124/6	Private	Dry	120	H.N. Ramachandregowda S/o Late Narasimhegowda H
			106/1	Private	Dry	200	Madappa S/o Chikkanna
			Road-2	Govt	Road	115	Government Property (Road)
			126/5	Private	Dry	45	Gowrambika W/o Basavaradhaya
			126/4	Private	Dry	30	S.Siddaiah S/o Siddegowda Urf Karigowda
			161	Private	Dry	340	A.M. Amruthammani W/o Late Devarajeursu
			160/1B	Private	Dry	75	Kullaiah S/o Kullaiah
			160/2	Private/	Dry	300	M. Basavaraju S/o

					Govt			Muniyaiah M. Basavaraju S/o Muniyaiah
				163/1B1	Private/ Govt	Dry	30	Mahadevaswamy S/o Late Shivananjappa
				163/1B2	Private	Dry	55	S. Shashi Kumar S/o Sridhar Bhatt
				163/1B3	Private	Dry	60	S. Shashi Kumar S/o Sridhar Bhatt
				163/1A2	Private	Dry	95	Shashi Kumar .S S/o Sridhar Bhatt
				163/1A1	Private	Dry	120	Bhagyamma D/o Puttalingamma Bhagyamma D/o Late Puttalingamma Arasamma D/o Late Puttalingamma
				6	Private/ Govt	Dry	30	G.D. Basavarajeursu S/o Devarajeursu
				Nala-2	Govt	Nala	180	Government Property (Nala)
				7	Private/ Govt	Dry	600	G.Channaiah S/o Channaiah Gowramma W/o K. Nagarajaiah Puttasundammanni W/o Premarajeurs Premarajeursu S/o Late Devarajeursu Puttaswamy S/o Chamegowda Premarajeursu S/o Devarajeursu Puttaswamy S/o Chamegowda
				158	Private/ Govt	Dry	520	Nagaraju S/o Thammadi Madappa Girijamma D/o Thambadi Madappa Devamma W/o Lingayana Nagaraju S/o Thammadi Madappa Premamma W/o Naganna
				8/1.	Private	Dry/ Garden	85	Puttaswamy S/o Chamegowda
				8/2.	Private	Dry	100	Puttarajeursu S/o Puttarajeursu
				8/3B	Private	Dry	120	H.M. Anand S/o H.P. Mahadevappa
				8/3A	Private	Dry	110	M.C. Puttaswamy S/o H. Maasthigowda G.N. Subramanyaraje Urs S/o G.Nanjaraje Urs
			22. Dalavaikodihalli	87/1	Private	Dry	184	Jayashankarappa S/o Mahadevappa
				87/2	Private	Dry	714	Annegowda S/o Chikkalingegowda
				85	Private	Dry	1155	S.Shivalingegowda S/o Shivalingegowda Chowdamma W/o Ningaiiah

				124	Inam	Dry	105	Basaveshwara Devaru
				74/1	Private	Dry	120	Mallikarjunappa S/o Mallanna
				74/2	Private	Dry	130	As per RTC
				74/3C	Private	Dry	75	Madegowda S/o Chowdegowda
				74/3B	Private	Dry	70	As per RTC
				74/3A	Private	Dry	60	As per RTC
				74/4	Private	Dry	185	Madegowda S/o Chowdegowda
								Ramalingegowda S/o K.Lingegowda
								Krishna S/o Doddavenkataiah
				125/1	Private	Dry	60	As per RTC
				125/2	Private	Dry	35	Muddumariyappa S/o Muddegowda
				127/1	Private	Dry	85	Shivalingegowda S/o Channegowda
								Channegowda S/o Hanumamma Motegowda
								1st Lingegowda S/o Hanumamma Motegowda
				127/2	Private	Dry	130	G.Marigowda S/o Gooligowda
								B.Nagarajappa S/o Nagarajappa
								B. Prabhuswamy S/o Shivananja
								G.Marigowda S/o Gooligowda
								B.Shivananda S/o Basavanna
								Kalasegowda S/o Late Muddankegowda
								Shivalingegowda S/o Madegowda
								Puttaswamygowda S/o Chowdegowda
				73/1B	Private/ Govt	Dry	30	Kempamma D/o Mallikarjuna
				73/1A1	Govt/ Pvt	Dry	45	Rural
				73/1C	Private/ Govt	Dry	90	As per RTC
				73/3	Private/ Govt	Dry	216	Rudramma D/o Rudramma
								Nanjappa S/o Nanjappa
				73/4A	Private/ Govt	Dry	90	Madappa S/o Chikkabasappa
				73/5A	Govt/ Pvt	Dry	80	Rural
				128/2C	Private/ Govt	Dry	40	Gramatana N.A.K.
				128/1A1	Private	Dry	35	As per RTC
				128/2B	Govt/ Pvt	Dry	35	Gramatana N.A.K.
				129/8B	Govt/ Pvt	Dry	45	As per RTC

[illegible]

[illegible]

								Maraiah S/o Chikkasiddaiah
								Chowdaiah S/o Lingaiah
								Chowdaiah S/o Chikkadoddaiah
								Lingamma W/o Channegowda
								Lingegowda S/o Kolichannegowda
				32/4	Private	Dry	230	Mariyappa S/o Gooligowda
								G.Shivalingegowda S/o Gooligowda
				25/1	Private/ Govt	Dry	136	Puttegowda S/o Channegowda
								Gooligowda S/o Lingegowda
								Kadamma W/o Gooligowda
								Lingegowda Urf Kullegowda S/o Gooligowda
				25/2	Private	Dry	356	Puttalingegowda Urf Chikkanna S/o Gooligowda
								Puttalingegowda Urf Chikkanna S/o Gooligowda
								Padmamma W/o Late Marigowda
								L.Gooligowda S/o Lingegowda
				24/4	Private	Dry	60	Siddamallegowda S/o Madegowda
				24/1	Private	Dry	90	Siddamallegowda
								Eregowda Urf Raju S/o Eregowda
				24/2	Private	Dry	104	Siddegowda Urf Swamy S/o Eregowda
				24/3	Private	Dry	60	Siddamallegowda S/o Madegowda
				24/6	Private/ Govt	Dry	120	Siddamallegowda S/o Madegowda
				Nala-2	Govt	Nala	240	Government Property (Nala)
			23.Deveerahalli	108/1	Private	Dry	210	As per RTC
				108/2	Private	Dry	175	As per RTC
				108/3	Private	Dry	130	As per RTC
				108/4	Private	Dry	125	As per RTC
			Total				713697	

[F. No. NHAI/27015/2011-12/PIU-BNG/LA/NH-209]
MAYA PRAKASH, Dy. Secy.